



## न्यूज़ डायरी

**बाहानगा बाजार स्टेशन सील, नहीं रुकेगी ट्रेन** भुवनेश्वर। ओड़िशा के बालासोर जिले में स्थित बाहानगा बाजार स्टेशन पर अगले आदेश तक कोई ट्रेन नहीं रुकेगी। हादसे की जांच कर रहे सीबीआई ने 'लॉग बुक' और उपकरण जब्त करने के बाद स्टेशन को सील कर दिया है। वहां दो जून को हुए रेल हादसे में 288 लोगों की मौत हो गयी थी और 1,208 अन्य घायल हुए थे। एएसईआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी आदित्य कुमार चौधरी ने संवाददाताओं को बताया कि सीबीआई ने 'लॉग बुक', 'रिले पैनल' और अन्य उपकरण जब्त करने के बाद स्टेशन को सील कर दिया है।

**वंदे भारत का ट्रायल रन एक दिन बढ़ा** रांची। बिहार-झारखंड के लोगों का पटना-रांची वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर करने का सपना जल्द पूरा होने वाला है। इसी माह पटना-रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के चलने की संभावना है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 12 जून को ट्रायल रन होगा। बता दें कि इससे पहले वंदे भारत का ट्रायल रन 11 जून को होना था, लेकिन झारखंड बंद के चलते एक दिन तारीख बढ़ा दी गयी है।

**ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को विशाल लक्ष्य** लंदन। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल के चौथे दिन शनिवार को अपनी दूसरी पारी 8 विकेट खोकर 270 रनों पर घोषित कर दी। इसी के साथ भारत को खिताब जीतने के लिए 444 रनों का लक्ष्य मिला है। भारत ने सधा हुआ आगाज किया है। कंगारूओं के लिए दूसरी पारी में एलेक्स कैरी ने नाबाद 66 रन बनाये। वहीं भारत के लिए दूसरी पारी में राविंद्र जडेजा ने सर्वाधिक 3 विकेट झटकते। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 469 रन भारतीय टीम 296 रन बनाये थे।

**केंद्र ने मणिपुर में शांति समिति का गठन किया** नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ दिनों से हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में राज्यपाल अनुसुइया उइके की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन किया है। समिति के सदस्यों में मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के कुछ मंत्री, सांसद, विधायक और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं। समिति में पूर्व नौकरशाह, शिक्षाविद, साहित्यकार, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न जातीय समूहों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। समिति राज्य के विभिन्न जातीय समूहों के बीच शांति प्रक्रिया को सुगम बनाने का कार्य करेगी।

**लोहरदगा: सड़क हादसे में आर्मी के जवान की मौत** लोहरदगा। लोहरदगा-चंदवा सड़क पर महुआ टोली के पास टर्बो ट्रक और मोटरसाइकिल की भिड़ंत में कुजरा गांव बाइक सवार अशोक साहू (40) की मौत हो गयी। अशोक साहू होंगा गांव रहने वाला था। वह आर्मी का जवान था और कुछ दिन पहले वह छुट्टी पर अपने घर आया था।

**सुप्रिया व पटेल बने कार्यकारी अध्यक्ष** मुंबई। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वीफ शरद पवार ने बड़ा ऐलान किया है। शरद पवार ने सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। शरद पवार ने सुप्रिया को महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी है। शरद पवार के इस ऐलान से अजित पवार को तगड़ा झटका लगा।

**बिपरजॉय अगले 24 घंटों में और तेज होगा** सूत्र। आईएमडी के मुताबिक, अरब सागर में आया गंभीर चक्रवाती तूफान साइक्लोन बिपरजॉय मुंबई से लगभग 790 किमी, पोंबंदर से 810 किमी और कराची से 1100 किमी दूर दक्षिण में स्थित है। आईएमडी ने कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान चक्रवात तेज हो जायेगा।

# गुरुजी की अध्यक्षता में राज्य समन्वय समिति की बैठक में 12 एजेंडों पर चर्चा सरना धर्म कोड व माँब लिंगिंग पर राष्ट्रपति से मिलेंगे

## खबर मन्त्र ब्यूरो

**रांची।** राजधानी में मोरहाबादी स्थित ज्ञानमुने सुप्रियो शिवू सोरेन के आवास पर उनकी अध्यक्षता में शनिवार को झारखंड राज्य समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में सरना धर्म कोड, ओबीसी आरक्षण, माँब लिंगिंग कानून, ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने, खासमहल की जमीन पर वर्षों से रह रहे लोगों की समस्याओं का निष्पादन सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। समिति में लिये गये फैसले से सरकार को अवगत करने का फैसला लिया गया।

साथ ही यह फैसला लिया गया कि सरना धर्म कोड को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से दोबारा



आग्रह किया जायेगा। इस मुद्दे पर राष्ट्रपति को देशभर के आदिवासियों की भावना से अवगत कराने के लिए दिल्ली जाकर राष्ट्रपति भवन में उनसे मिलने का फैसला लिया गया।

बैठक में आमंत्रित सदस्य के रूप में राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिकी,

विधायक सरफराज आलम, फागू बेसरा, विरोद पांडे और योगेंद्र महतो भी शामिल थे।

**खासमहल के लोगों की परेशानी दूर होगी :** बैठक में जमीन की रसीद और राजस्व को लेकर भी

## माँब लिंगिंग कानून की जरूरत

समन्वय समिति की बैठक में राज्य में माँब लिंगिंग कानून की जरूरत को देखते हुए इस पर विशेष चर्चा की गयी। यह फैसला लिया गया कि कुछ संशोधनों के साथ फिर से विधानसभा से पारित कराकर विधेयक दोबारा राज्यपाल को भेजा जाएगा ताकि यह कानून का रूप ले सके।

चर्चा हुई। खासमहल की जमीन पर वर्षों से बसे लोगों को उस जमीन का मालिकाना हक मिले, इसके लिए एक विशेष नीति बनाने का आग्रह झारखंड सरकार से किया जायेगा। (शेष पेज 11 पर)

## निजी संस्थानों में 75% आरक्षण पर जोर

समन्वय समिति की बैठक में इस बात पर चिंता जतायी गयी कि सरकार द्वारा निजी संस्थानों में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण देने का फैसला सही से लागू नहीं हो पा रहा है। ऐसे में समन्वय समिति सरकार से यह आग्रह करेगी कि वह पूरी गंभीरता से इस नीति को राज्य में लागू कराये। इसके साथ ही खतियान आधारित नियोजन नीति और स्थानीय नीति के अलावा युवाओं को रोजगार सहित कई एजेंडों पर चर्चा की गयी। फैसला लिया गया है कि राज्य के जनता के हित में समन्वय समिति पूरी तत्परता से अपनी भूमिका निभायेगी और सरकार को समय-समय पर सलाह देगी ताकि राज्य में जन आकांक्षाओं के अनुकूल सरकार जनहित में फैसला लेती रहे।

## ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़े सरकार

राज्य समन्वय समिति की बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य के सामने एक बड़ी समस्या है, जिसे दूर किया जाना चाहिए। राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में कैसे राज्य को स्वावलंबी बनाया जाये। झारखंड सरकार कैसे सस्ते दर पर खुद बिजली बनाये, इसको लेकर टीवीएनएल के सहयोग से एक नई नीति बनाने का सरकार से आग्रह करने का फैसला लिया गया है।

## झारखंड हाइकोर्ट के नये भवन में कल से सुनवाई



## खबर मन्त्र संवाददाता

**रांची।** झारखंड हाइकोर्ट के नए भवन में 12 जून से सुनवाई शुरू होगी। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं। जजों को कमरे भी आर्बिट कर दिये गये हैं। इस कोर्ट में पहले ही दिन हाईकोर्ट की संविधान पीठ बैठेगी। संविधान पीठ में चीफ जस्टिस समेत पांच जज बैठेंगे। संविधान पीठ में झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (जेट) के आदेश के खिलाफ

## पहले ही दिन बैठेगी संविधान पीठ, कई मुद्दों पर सुनवाई

अपील के मामले में सुनवाई करेगी। पीठ यह तय करेगी कि जेट के आदेश के खिलाफ अपील हाईकोर्ट की एकलपीठ में होगी या खंडपीठ में। इसे तय करने के लिए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, जस्टिस रत्नाकर भेंगारा, जस्टिस अनुभा रावत चौधरी, जस्टिस दीपक रौशन और जस्टिस नवनीत कुमार की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। 12 जून को 2:15 बजे से संविधान पीठ सुनवाई करेगी। (शेष पेज 11 पर)

## संथाल में बंद का दिखा असर, रांची में आंशिक

**रांची।** राजधानी रांची में झारखंड बंद का असर नहीं के बराबर रहा। हालांकि संथाल क्षेत्र की बात की जाये तो दुमका, साहिबगंज और पाकुड़ इसका प्रभाव देखा जा रहा है। इसके अलावा रामगढ़ में भी लोगों ने एनएच 33 जाम कर दिया है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही थम सी गयी। छात्रों ने 60-40 पर आधारित नियोजन नीति के खिलाफ 10 जून और 11 जून को झारखंड बंद बुलाया है। राजधानी में इसका असर नहीं दिखा। आम दिनों की तरह दुकानें खुली नजर आयीं। लंबी दूरी के वाहन नहीं चले। नियोजन नीति के खिलाफ छात्रों के साथ छात्रों भी सड़क पर उतरा। जबरन बंद की संभावना से निपटने के लिए तमाम चौक चौराहों पर पुलिस मुस्तैद नजर आयी। नामकुम के रामपुर में सड़क पर टायर जलाकर विरोध जताया गया। वहीं खादगढ़ा बस स्टैंड में भी बंद कराने की कोशिश की गयी।

# आर्मी लैंड स्केम में कल 10 पर दायर होगा आरोप पत्र

पूर्व डीसी छवि रंजन, त्वत्सायी अमित-दिलीप समेत कई हैं जेल में

## खबर मन्त्र ब्यूरो

**रांची।** बरियातू रोड स्थित सेना के कब्जे वाली 4.83 एकड़ जमीन के खरीद-फरोख्त मामले में हुई फर्जीवाड़ा में 12 जून को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर सकती है। इस मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल व दिलीप घोष समेत 10 लोगों को अब तक इडी सलाखों के पीछे भेज चुकी है। गिरफ्तार लोगों में सात को गिरफ्तारी दो माह पहले हुई थी। जबकि पूर्व डीसी छविरंजन को चार मई को डिटेन किया गया था। 28 ठिकानों पर हुई थी छापेमारी, 18 लोग आए थे जद में : रांची में सेना समेत अन्य जमीनों की



अवैध खरीद-बिक्री मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और बड़गाई के राजस्व कर्मचारी भानुप्रताप सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर 13 अप्रैल को सबसे पहले इडी ने छापेमारी की थी। इस दौरान बड़ी संख्या में जमीन के फर्जी डीड, मुहर एवं अन्य कागजात इडी को मिले थे। इस दौरान 13 अप्रैल की देर रात ही इडी ने सात आरोपियों राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप, प्रदीप बागची,



अफसर अली, इम्तियाज खान, ललहा खान, फैयाज खान एवं मोहम्मद सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया था। इन सभी पर जमीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था। नवंबर 2022 में भी हुई थी छापेमारी : इडी नवंबर, 2022 को दिलीप घोष के द्वारा बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीदारी की थी। (शेष पेज 11 पर)

## 15 को बैठक में विधि-व्यवस्था की समीक्षा करेगें सीएम अपराध, नक्सल, अवैध खनन पर भी होगी बात

## खबर मन्त्र ब्यूरो

**रांची।** मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर 15 जून को समीक्षा बैठक करेंगे। इसकी तैयारी शुरू कर दी गयी है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने झारखंड के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दे दी है। इस बैठक में मुख्यमंत्री नक्सल, संगठित आपराधिक गिरोह, अवैध खनन, नारकोटिक्स के साथ-साथ कई अन्य मसलों की करेंगे। बैठक को लेकर पुलिस मुख्यालय तैयारी में जुट गया है। बैठक में चर्चा होने वाली बिंदुओं को तय कर लिया गया है। टास्क फोर्स के परफॉर्मंस की होगी समीक्षा : विधि व्यवस्था को लेकर सीएम समीक्षा तो करेंगे ही इसके



अलावा राज्य में अवैध खनन, अवैध खनन से हो रहे हादसों की भी समीक्षा की जायेगी। सीएम इसकी भी समीक्षा करेंगे कि अवैध खनन को रोकने के लिए जो टास्क फोर्स बनाया गया है, उसने अब तक कैसा परफॉर्मंस दिया है। 15 जून की समीक्षा को लेकर झारखंड के सभी जिलों के एसपी डीआइजी आइजी के अलावा दूसरे पुलिस अधिकारियों को भी पुलिस मुख्यालय के द्वारा पत्र भेज दिया गया है। (शेष पेज 11 पर)

# दो अलग-अलग हादसों में गयी पांच की जान गढ़वा : डैम में डूबने से तीन बच्चों की मौत

## खबर मन्त्र संवाददाता

**श्रीवंशीधर नगर।** गढ़वा में डैम में नहाने के दौरान तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गयी। ये सभी बच्चे बकरी चराने डैम किनारे गये थे, और नहाने उतर गये। इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है। पुलिस भी मौके पर पहुंच कर जांच कर रही है। यह हादसा शनिवार की सुबह करीब साढ़े नौ बजे श्रीवंशीधर नगर थाना क्षेत्र के जंगीपुर में स्थित बन्नी खांड डैम में हुआ। मृत बच्चों में नगर ऊंटारी थाना क्षेत्र के जंगीपुर निवासी मुन्ना उरांव के पुत्र अंकुज उरांव(7)

जवाहर उरांव की पुत्री रूपा कुमारी (13) एवं गढ़वा थाना क्षेत्र के कुशमाहा गांव निवासी मुन्ना उरांव के पुत्र सोनू उरांव (9) के नाम शामिल हैं। सभी बच्चे डैम किनारे बकरी चरा रहे थे। भीषण गर्मी के कारण वे डैम में नहाने लगे। डैम में अधिक गहराई और पानी अधिक होने के कारण तीनों बच्चे डूब गये। बच्चों के घर लौटने में देरी होने पर परिजनों ने खोजबीन की लेकिन कुछ पता नहीं चला। गांव की ही एक महिला भी वहीं नहा रही थी, उसने बच्चों को डूबते देखा और शोर मचाने लगी। मोबाइल से लोगों को सूचना दी। (शेष पेज 11 पर)

## विधायक के रिश्तेदार की गाड़ी ने तीन को रौंदा इंजीनियर दंपति की मौत बच्चे की हालत गंभीर

## खबर मन्त्र संवाददाता

**धनबाद।** धनबाद में एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने बाइक सवार तीन लोगों को रौंदा दिया। हादसे में वीसीसीएल के इंजीनियर दंपति की मौत हो गयी। वाइक सवार एक मासूम बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। बच्चे की हालत को देखते हुए उसे पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर मिशन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जिस फॉर्च्यूनर कार से यह एक्सीडेंट हुआ वह धनबाद के बाहुबली घराना रघुलाल और झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के देवर हर्ष सिंह की बतायी जा

रही है। यह हादसा शुक्रवार की रात करीब 12 बजे धनबाद थाना क्षेत्र के धैया इलाके में हुई। मृतक इंजीनियर राणा दास (45) वीसीसीएल में सर्वेयर के पद पर कार्यरत थे। उनकी पत्नी मानसी दास (35) की मौत हो गयी। पुत्र गंभीर रूप से घायल है। इस मामले में राणा के भाई ने कहा कि राणा अपने बेटे ऋषभ दास को डाक्टर को दिखा कर पत्नी के साथ लौट रहे थे। दो वाहन चालक रस लगा रहे थे : मृत इंजीनियर के भाई ने बताया कि बेटे को डाक्टर से दिखा कर इंजीनियर दंपती बाइक से घर लौट रहे थे। (शेष पेज 11 पर)

## झारखंड में 12 से प्री-मानसून, राहत मिलेगी

**रांची।** झारखंड में गर्मी का कहर अगले तीन-चार दिनों तक जारी रहेगा। राज्य के तकरीबन सभी जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास ही रहेगा। रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने शनिवार को बताया कि मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 12 जून से पहले तपती गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलेगी। 11 जून से राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 12 जून प्री-मानसून से भी थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं, 12 जून से कुछ जगहों पर मौसम में बदलाव हो सकता है। कुछ जिलों में आंशिक बादल छाये रहने के साथ, हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की बात कही गयी है। 15 जून के बाद ही पूरे राज्य में लोगों को गर्मी से हल्की राहत की उम्मीद है। विभाग की मानें तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रवेश करने के बाद अब 18 जून तक मानसून झारखंड में पहुंच सकता है।

# नवजात के शव को दाई ने जलते कचरे में फेंका

## रेफरल अस्पताल मझिआंव के बाहर परिजनों का हंगामा

## खबर मन्त्र संवाददाता

**मझिआंव।** सीएचसी रेफरल अस्पताल में मानवता के शर्मसार करने वाली एक घटना प्रकाश में आयी है। अस्पताल में महिला ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया। रेफरल अस्पताल की दाई ने शव परिजनों को न सौंप कर जलते हुए कचरे के टैंक में फेंक दिया। जानकारी के अनुसार लोहरपुरवा गांव निवासी हरि किशोर विश्वकर्मा की विवाहिता पुत्री मंजू देवी (22) को प्रसव पीड़ा के के बाद शनिवार को करीब साढ़े तीन बजे मझिआंव रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। एनएम निर्मला कुमारी



एवं मंजू कुमारी ने 5 माह के मृत बच्चा का प्रसव कराया गया। अस्पतालकर्मियों की इस

अमानवीय करतूत के खिलाफ परिजनों ने जम कर हंगामा किया। परिजनों का कहना था कि वे मृत बच्चे का अंतिम संस्कार करना चाहते थे, पर अस्पतालकर्मियों ने शव को तौहीन की। सख्त कार्रवाई होगी : प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, मझियांव रेफरल अस्पताल के डॉ गोविंद सेठ ने बताया कि मृत बच्चा होने के बाद परिजनों को सौंपना चाहिए था। उसे जलाना मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। मामले की जांच की जायेगी। जांच में जो भी दोषी पाये जायेगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। अस्पताल के एनएम की लापरवाही के साथ दाई दौलत देवी के द्वारा अस्पताल के कचरा निस्तारण हेतु बने गहरे टैंक में जलते हुए कचरे में मृत बच्चे को फेंककर मानवता को शर्मसार कर दिया।

इधर नवजात मृत बच्चे के मामा गोलू कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चे का दाह संस्कार करने की तैयारी की जा रहे थी और बाजार में कपड़ा लेने गये हुए थे। दाई की इस अमानवीय करतूत पर परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों ने बताया कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मृत बच्चे को दाह संस्कार के लिए तैयारी की जा रही थी। पर अस्पतालकर्मियों की लापरवाही के कारण मृत बच्चे को जलते हुए कचरे में फेंक दिया गया। इधर इस संबंध में कार्यरत दोनों एनएम घटना के संबंध में बताने से आनाकानी की। अंततः उन दोनों एनएम ने घटना को स्वीकार करते हुए कहा कि प्रसव के पश्चात मृत बच्चे को बगैर हम लोगों से पूछे दाई ने जलते कचरे के ढेर में फेंक दिया। (शेष पेज 11 पर)

## झारखंड से आठ समेत देश को मिले 331 जांबाज सैन्य अफसर

## एजेंसी

**नयी दिल्ली।** आईएमए देहरादून में 2023 की पांसिंग आउट परेड से भारत को 331 जांबाज सैन्य अफसर मिले। वहीं मित्र देशों को भी 42 सैन्य अफसर प्राप्त हुए। पांसिंग आउट परेड का नजारा देखने लायक था। शनिवार को भारतीय सैन्य अकादमी में पांसिंग आउट परेड के बाद 331 सैन्य अधिकारियों ने देश की सुरक्षा की शपथ ली। इनमें आठसैन्य अधिकारी झारखंड से हैं। भारतीय सैन्य अकादमी से 373 जेंटलमैन कैडेट्स (जीसी) पांसिंग आउट परेड (पीओपी) के बाद

## पांसिंग आउट परेड में जेंटलमैन कैडेट्स ने दिल जीता

सैन्य अफसर बन गये। इसके साथ ही आईएमए देहरादून एक बार फिर खतरनाक और हर विपदा से लड़ने वाले जवानों की खेप देश को देना जा रहा है। पांसिंग आउट समारोह परेड में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी शामिल थे। उन्होंने जवानों की बधाई दी। जूते की टाप और देश भक्ति की धुन के साथ जब वे जीसी अंतिम पग पार कर रहे थे तो सरहद पर दुश्मनों के पसीने छूट रहे थे। (शेष पेज 11 पर)

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने नियोजन नीति समेत कई मुद्दों पर उठाया सवाल, पूछा

# समन्वय समिति के लिए भ्रष्टाचार, खनिज, जमीन शराब घोटाले और महिला उत्पीड़न ज्वलंत मुद्दे नहीं

खबर मन्त्र व्यूटे

रांची। राज्य सरकार द्वारा गठित समन्वय समिति की पहली बैठक ने राज्य के सवा तीन करोड़ जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवम सांसद दीपक प्रकाश ने आज समन्वय समिति पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बैठक केवल औपचारिकता मात्र बनकर रह गई। कहा कि राज्य के ज्वलंत मुद्दों में आकंट भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, हजारों बहन बेटियों के साथ घट रही दुर्कर्म की घटनाएं, बेटियों की नृशंस हत्याएं, जमीन की लूट, खान खनिज की लूट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे समन्वय समिति के एजेंडे में शामिल नहीं

सरकार की न नीति साफ है, न नीयत

उन्होंने कहा कि समन्वय समिति ने जन भावनाओं के अनुरूप नियोजन नीति की बात की है। इससे स्पष्ट है कि हेमंत सरकार जनभावनाओं पर खरी नहीं उतर रही है। आज हजारों युवा बेरोजगार सड़कों पर उतरकर सरकार की नीति का प्रबल विरोध कर रहे। उन्होंने कहा कि युवाओं को आंदोलन केलिए मजबूर करने वाली सरकार का नाम हेमंत सरकार है। जिसने छात्रों, बेरोजगारों को अभूतपूर्व असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। हेमंत सरकार की न नीति साफ है न नीयत ही। उन्होंने कहा कि राज्य में रोज नए नए घोटाले उजागर हो रहे। भ्रष्ट ऑफिसर्स दलाल बिचौलिए मालामाल हो रहे हैं। ईडी की कारवाई में मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि जेल में हैं। सड़क बिजली, पानी, स्वास्थ्य व्यवस्था, विधिव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। स्वयं मुख्यमंत्री नियम विरुद्ध फैसले को लेकर कटघरे में खड़े हैं। कहा कि ट्रिपल टैस्ट के बिना निपाय युवाव को टाला जा रहा है। लेकिन इस विषय पर समन्वय समिति ने कोई राय नहीं दी।

हुए। श्री प्रकाश ने कहा कि नियोजन नीति और स्थानीय नीति पर समन्वय समिति ने खुद अपनी सरकार को ही आइना दिखाया है।

राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ में लगातार हो रही वृद्धि

श्री प्रकाश ने कहा कि राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ में लगातार वृद्धि हुई है। राज्य की डेमोग्राफी में स्पष्ट परिवर्तन झलक रहा लेकिन समन्वय समिति ने इस मुद्दे को राज्य के ज्वलंत मुद्दों में शामिल नहीं किया। कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद नेता प्रतिपक्ष का मामला ठंडे बस्ते में है। आज नेता प्रतिपक्ष के बिना लोकायुक्त, सूचना आयोग, महिला आयोग का गठन नहीं हो सका है फिर भी यह मुद्दा समन्वय समिति का एजेंडा नहीं बना। इतना ही नहीं वित्त आयोग गठित नहीं होने से



केन्द्रीय अनुदान के हजारों करोड़ रूपए राज्य केलिए लंबित है इसपर समिति मौन रही। उन्होंने कहा कि समिति ने केवल बैठक की खाना पूर्ति की है। और अपनी नाकामियों को छुपाने केलिए

भाजपा के खिलाफ बयान देकर अपना पल्ला झाड़ दिया है। श्री प्रकाश ने कहा भाजपा जन भावनाओं की अभिव्यक्ति है। एक सशक्त विपक्ष के नाते भाजपा ने लगातार सदन से सड़क तक जन मुद्दों को उठाया है, संघर्ष किया है। जो आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि समन्वय समिति को राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर उंगली उठाने से पहले अपनी नाकामियों को ठीक करने की पहल करनी चाहिए। राज्यपाल ने फाइलों में जो सवाल खड़ा किए हैं उसका विधि सम्मत जवाब देना चाहिए।

नियोजन नीति को लेकर छात्र संघ के बंद का पहला दिन ऐतिहासिक रहा : देवेन्द्र नाथ महतो

दावा : आज भी बंद रहेगा ऐतिहासिक

खबर मन्त्र व्यूटे

रांची। नियोजन नीति को लेकर छात्रों द्वारा आहूत दो दिवसीय बंद को सफल बताया हुए छात्र नेता देवेन्द्र नाथ महतो ने कहा है कि बंद का पहला दिन ऐतिहासिक रहा। दूसरा दिन भी ऐतिहासिक बंद रहेगा। उन्होंने कहा है कि बंद को सफल बनाने के लिए सम्पूर्ण झारखंड के पांचों प्रमंडल के 24 जिला के सभी क्षेत्र में छात्र के हक अधिकार के समर्थन में सभी समाज के लोग सड़क पर उतरकर बंद को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। वहीं दूसरे दिन के बंद में भी अपना



सहयोग देने को कहा है। देवेन्द्र नाथ महतो दावा किया है कि 24 जिला का वापसी संपर्क आवागमन बिल्कुल बंद रहा। दूसरे जिलों में जाने के लिए रांची से एक भी बस नहीं खुली।

देवेन्द्र नाथ महतो ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य के 3.52 लाख से ज्यादा रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया जा रहा है। जिसमें झारखंड शब्द को गायब कर दिया गया है। ऐसे में गरीब किसान

मजदूर के पढ़ने-लिखने वाले झारखण्ड के बच्चों के अधिकार का हनन हो रहा है। यह सरकार भोले भाले आदिवासी मूलवासी झारखंडियों के साथ मायाजाल का खेल खेल रही है।

देवेन्द्र नाथ महतो झारखंड सरकार से मांग की है कि बिना गजट प्रकाशित किए 60-40 का अनुपात से झारखंड शब्द को गायब करके जारी किया गया विज्ञापन को वापस लेते हुए क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा वाले खतियान आधारित संवैधानिक नियोजन लागू करके नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करें। वहीं झारखंड के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के नौकरी में झारखंडियों को प्रथम प्राथमिकता देते हुए नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू करें।

झारखंड बंद का राजधानी रांची सहित अन्य जिलों में रहा मिलाजुला असर

नहीं चली लंबी दूरी की बसें, लेकिन खुले रहे बाजार

खबर मन्त्र व्यूटे

रांची। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन की ओर से आहूत दो दिवसीय झारखंड बंद का पहला दिन शनिवार को मिलाजुला असर देखने को मिला। छात्रों ने 60-40 पर आधारित नियोजन नीति के खिलाफ 10 और 11 जून को झारखंड बंद बुलाया है। पहले दिन राजधानी रांची में बंद का असर नहीं रहा। पहले दिन राजधानी रांची में आम दिनों की तरह दुकानें खुली रहीं। सड़क के किनारे फल के ठेले भी नजर आए। आम दिनों की तरह छोटी गाड़ियों का परिचालन भी सामान्य रहा।

इधर बंद की संभावना से निपटने के लिए मोरबादी समेत तमाम चौक



चौराहों पर पुलिस मुस्तैद नजर आई जानकारी के मुताबिक कुछ छात्रों ने कर्फे में दुकानें बंद कराने की कोशिश की। इसी तरह रामकुम के रामपुर में सड़क पर टायर जलाकर विरोध जताया गया। वहीं खादगाढ़ा बस स्टैंड में भी बंद कराने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस की सक्रियता से कोई अप्रिय घटना नहीं घटी।



राज्य के कुछ जिलों में बंद का रहा आंशिक असर

जानकारी के मुताबिक साहेबगंज, पाकुड़ और दुमका में बंद का असर दिखा। रामगढ़ में भी छात्रों ने सड़क जाम कर यातायात को बाधित करने का प्रयास किया। हालांकि करीब एक घंटे बाद छात्र खुद सड़क से हट गये। बोकारो में भी एनएच को जाम किया गया। खास बात है कि पिछली बार छात्रों के आंदोलन को भाजपा और आजसू ने नैतिक समर्थन दिया था। इस बार पार्टियों की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई। स्थानीय स्तर पर भाजपा और आजसू

के नेता आंदोलन का नैतिक समर्थन करते दिखे। इधर बंद समर्थक छात्रों का कहना है कि 60-40 के तहत सरकारी नौकरी में नियोजन होने से स्थानीयों की हकमारी होगी। उनकी जगह बाहर के लोग नौकरी ले लेंगे। इसलिए सरकार को खतियान आधारित स्थानीयता तय कर नौकरी देने की व्यवस्था करनी चाहिए। वहीं मूलवासी सदान मोर्चा का कहना है कि बिहार की नियोजन नीति के तर्ज पर झारखंड में बहाली होनी चाहिए।



झारखंड हाइकोर्ट के नये भवन में जजों के लिए कोर्ट रूम आवंटित

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन में न्यायधीशों के लिए कोर्ट

रूम का आवंटन कर दिया गया है। हाईकोर्ट के नए भवन में 25 कोर्ट रूम बनाए गए हैं। फिलहाल हाईकोर्ट में जजों की संख्या 20 है,

इसलिए 5 कोर्ट रूम का आवंटन नहीं हुआ है। नए भवन में कोर्ट रूम जो आवंटित किये गये हैं उसकी सूची इस प्रकार है।

झारखंड हिंदू महासभा ने जमशेदपुर में पुलिसिया जुल्म का किया विरोध



राजभवन के समक्ष दिया धरना, कहा- वोट के लिए हो रही है तुष्टिकरण की राजनीति

खबर मन्त्र व्यूटे

रांची। झारखंड हिंदू महासभा ने जमशेदपुर में हुए पुलिसिया जुल्म के खिलाफ राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया। जमशेदपुर के भाजपा नेता अभय सिंह को गिरफ्तार करने और तुष्टिकरण की राजनीति के विरोध में नेताओं ने अपना आक्रोश जाहिर किया। इस दौरान रांची विधायक सीपी सिंह ने कहा कि हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। हिंदू

समाज को हमेशा दबाया जाता है। सरकार वोट के लिए तुष्टिकरण की राजनीति करती है। एक समुदाय विशेष के लोग हमारी संस्थाओं और धार्मिक आस्था पर प्रहार कर रहे हैं। हिंदू समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा।

बताते चलें कि आने वाले दिनों में हिंदू समाज एकजुट होकर सरकार का विरोध करेगी। हिंदूवादी नेता भैरव सिंह ने कहा जमशेदपुर में हिंदू समाज को भड़काने का काम किया गया था। जमशेदपुर में धर्म विशेष के लोगों ने पत्थरबाजी की थी। विधायक और मंत्री के फोन पर सभी को छोड़ दिया जाता है। यह हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा।

गोड्डा और पाकुड़ जिले का तापमान गिरा, रांची का बढ़ा

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कहीं-कहीं हल्की बारिश हुई है। शनिवार की शाम में रांची में छिटपुट बारिश हुई। बारिश और आकाश में बादल छाने से कहीं-कहीं तापमान में गिरावट आयी है। शनिवार को गोड्डा और पाकुड़ जिले के तापमान में गिरावट दर्ज की गयी। वहीं, रांची में अधिकतम तापमान बढ़ा है। गोड्डा के अधिकतम तापमान में शनिवार को 6.9 डिग्री यानी करीब 7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गयी है, जबकि पाकुड़ जिले के उच्चतम तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आयी है। उधर, रांची के उच्चतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गयी है। रांची के न्यूनतम तापमान में 1.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में 0.1 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गयी है। रांची का उच्चतम तापमान बढ़कर 39.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस हो गया। जमशेदपुर और डालटेनगंज का उच्चतम तापमान क्रमशः 42.9



डिग्री और 44.1 डिग्री हो गया है। दोनों जिलों का न्यूनतम तापमान क्रमशः 27.6 डिग्री और 29.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अगले 4 दिनों तक इन जिलों में के लिए ऑरेंज अलर्ट : मौसम केंद्र ने अगले चार दिनों के लिए अलग-अलग इलाकों को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 11-12 को संतल परगना के सभी जिलों के साथ गिरिडीह के लिए मौसम केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शेष जिलों के लिए येलो अलर्ट है। 13 को केवल गिरिडीह के लिए येलो अलर्ट है।

झारखंड में 12 जून से प्री मानसून की बारिश : भारी बारिश के साथ मौसम केंद्रल पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शनिवार से बारिश बढ़ सकती है। आईएमडी ने कहा है कि झारखंड में 12 जून यानी सोमवार से प्री मानसून की बारिश शुरू हो जायेगी।

राज्य सरकार को हर साल मिलेगा 600 करोड़ रुपये का राजस्व, रोजगार बढ़ेगा, बिजली संकट भी कम होगा

गोंदलपुरा खनन परियोजना शुरू होने से भरेगा झारखंड का खजाना!

खबर मन्त्र व्यूटे

रांची। झारखंड के पास इतना कोयला है कि यह राज्य ओइशा और छत्तीसगढ़ को कमाई में पोछे छोड़ सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब यहां कोयले का उत्पादन बढ़ाया जाए और आवंटित कोल ब्लॉकों में जल्द से जल्द खनन कार्य शुरू किया जाए। झारखंड में अगर कोयला के उत्पादन की बात करें तो वर्ष 2022 में यहाँ 130.104 टन मिलियन कोयले का उत्पादन हुआ था, जबकि वर्ष 2021 में 123.428 टन मिलियन कोयला निकाला गया था। वर्ष 2019 में कोयले का उत्पादन 134.666 टन मिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। देश भर की बात करें तो आधुनिक तकनीकों के प्रयोग पर अधिक जोर देने से वर्ष 2021-22 में कोयले का उत्पादन 778.21 मिलियन टन तक बढ़ गया था। वहीं, 2022-23 के दौरान कोयले का उत्पादन 14.76% की वृद्धि के



डीएमएफटी से हुई झारखंड को अच्छी आमदनी

देश के चार राज्यों में कोयला उत्पादन का आंकड़ा देखें तो 80 फीसदी कुल कोयला उत्पादन में से छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी करीब 22%, ओडिशा की 21%, मध्य प्रदेश की 18% और झारखंड की लगभग 17% फीसदी है। डीएमएफटी (डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट) की बात करें तो देश में जितने पैसे इस फंड के तहत विभिन्न राज्यों को मिले हैं, उसमें सर्वाधिक आमदनी वाले शीर्ष तीन राज्यों में से झारखंड भी शामिल है। कोकिंग कोल के उत्पादन में झारखंड शीर्ष पर है। हालांकि, ओवरऑल कोयला उत्पादन में झारखंड चौथे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ पहले, दूसरे स्थान पर उड़ीसा और तीसरे स्थान पर मध्यप्रदेश है। झारखंड ने पिछले वर्ष 119.226 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन किया है और चौथे नंबर पर है।

साथ 893.08 मीट्रिक टन था। कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों ने 2020-21 में 596.22 मीट्रिक टन और वर्ष 2021-22 के दौरान 4.4% की वृद्धि करते हुए 622.63 मीट्रिक टन का उत्पादन किया। 2022-23 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड का कोयला उत्पादन 12.94% की वृद्धि के साथ 703.21 मीट्रिक टन रहा।

सिर्फ एक कोयला खान से 5 से 10 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

कोयला बहुत क्षेत्र हजारीबाग के बड़कागांव में आवंटित कोल ब्लॉकों में जल्द खनन शुरू होने से राज्य सरकार को राजस्व का अतिरिक्त लाभ होगा, जबकि यहां रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। खान विभाग के अधिकारियों के अनुसार, एक कोल ब्लॉक से औसतन पांच से दस हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का अवसर मिलता है, जिसमें आसपास खुलने वाली दुकानें, डंपर संचालक और अन्य व्यवसाय आदि शामिल हैं। बड़कागांव में एनटीपीसी, एनएमडीसी, अदाणी और जेडएलव्यू समेत विभिन्न निजी कंपनियों को केंद्र सरकार की ओर से कोयला मंत्रालय ने कोयला खान आवंटित किया है। यहां खनन शुरू होने से इलाके की तस्वीर बदलेगी और विकास के नए आयाम दिखेंगे। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अच्छे

बिजली उत्पादन के लिए बाहर से मंगवाना पड़ता है कोयला

मौके मिलेंगे और राज्य सरकार को भी राजस्व का बड़ा लाभ होगा। सिर्फ अदाणी इंटरप्राइजेज के गोंदलपुरा खनन परियोजना के शुरू होने से राज्य सरकार को करीब 600 करोड़ रुपये का राजस्व हर साल मिलेगा। इतनी बड़ी रकम का इस्तेमाल स्थानीय स्तर पर आधारभूत संरचना को विकसित करने, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ-साथ बेहतर जीवन उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकेगा। कोयला खनन शुरू होने से अवैध कोयले की तस्करी पर भी लगाम लगेगी। एक आकड़े के मुताबिक, झारखंड से हर रोज करीब 530 टन अवैध कोयला निकलता है। यह सारे कोयले की चोरी बंद पड़ी खदानों या उत्खनन की अधिकारिक रूप से बाट जोह रही खदानों से होती है, जिसमें फॉरेस्ट लैंड भी शामिल है। इससे सरकार को राजस्व की भारी हानी होती है।

गमी के समय में झारखंड समेत देश भर में बिजली की खपत बढ़ी है। कोयला कंपनियों पर उत्पादन बढ़ाने का दबाव है। आंकड़ों के मुताबिक 2023-24 के लिए एक हजार मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य कोल इंडिया समेत अन्य कंपनियों ने रखा है। हालांकि, भारत सरकार को अभी भी सिर्फ बिजली की जरूरत पूरा करने के लिए 100 मिलियन टन के आसपास कोयला विदेशों से मंगवाना पड़ रहा है। झारखंड की बात करें तो यहां गर्मी आते ही पावर प्लांटों में कोयले की कमी हो जाती है, जिस कारण लोगों को बिजली की समस्या से परेशान होना पड़ता है। हजारीबाग में गोंदलपुरा खान में जल्द खनन शुरू होने से बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी और आम लोगों को काफी राहत मिल सकेगी।



**सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन की प्रथम मेधा सूची जारी**  
जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिले के तीन सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन की पहली मेधा सूची जारी कर दी गई है। मेधा सूची जिले के वेबसाइट जमशेदपुर.एनआईसी.इन पर भी उपलब्ध है। साथ ही सभी विद्यालयों को उपलब्ध करा दिया गया है जहां परीक्षा में बैठने वाले छात्र एवं उनके अभिभावक मेधा सूची में नाम देख सकते हैं। जिला शिक्षा प्रदाधिकारी निर्मला बरालिया ने बताया कि विद्यालय अपने स्तर से भी सभी संबंधित छात्र-छात्राओं को सूचित करेंगे। 5 दिन के अंदर नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण की जानी है।

**जिला परिषद की पिंकी बर्नी डायमो महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष**

चांडिल। चांडिल के जिला परिषद पिंकी लोयक को डायमो सरायकेला खरसावा जिला महिला मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष बनाए गए हैं।

पिंकी लोयक को महिला मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष बनाए जाने पर उनके समर्थकों ने उन्हें बधाई दिया। पिंकी लोयक ने कहा पार्टी ने जो दायित्व दिया है उन्हें हर सम्भव पूरा करने की कोशिश करूंगी। पिंकी लोयक ने केन्द्रीय समिति के प्रति आभार जताया है। कई समर्थकों ने उन्हें बधाई दिया।

**गंगाधर पांडा ने नेताजी सुभाष चिंति के कुलपति पद का लिया प्रभार**



जमशेदपुर। जमशेदपुर स्थित नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रो गंगाधर पांडा ने गुरुवार को प्रभार ग्रहण किया। विधि के कुलाधिपति एम एम सिंह ने प्रो गंगाधर पांडा को प्रभार सौंपा। इस अवसर पर नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रभार ग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद कुलाधिपति एम एम सिंह ने नए कुलपति को शुभकामनाएं दीं वहीं प्रो पांडा ने भी नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय के शिक्षक गुणवत्ता को और अधिक ऊंचाई पर ले जाने की बात कही। गंगाधर पांडा इस से पहले कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के कुलपति रहे हैं। साथ ही उन्हें 40 साल का शिक्षण और प्रशासनिक अनुभव है।

**संजय सेठ को समस्याओं से कराया अवगत**



चांडिल। चांडिल बाजार समिति के सचिव संजय चौधरी के नेतृत्व में रांची के सांसद संजय सेठ से एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात किया। प्रतिनिधि मंडल ने सांसद को चांडिल बायपास सड़क की जर्जर अवस्था, चांडिल अनुमंडल अस्पताल में दवाओं की कमी, अनुमंडल अस्पताल को जल्द चालू कराने सहित कई समस्याओं से अवगत कराया। संजय चौधरी ने कहा सांसद ने बरसात से पहले जर्जर बाईपास सड़क के मरम्मत करवाने की कहे एवं अन्य समस्याओं को गंभीरता से सुना।

**जेएनएसी : अनिल सुर पथ में बगैर नक्शा पास कराये निर्माण को रोका**



जमशेदपुर। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी के निर्देशानुसार अनिल सुर पथ कदमा में बड़े भवन नक्शा पास कराए निर्माणधीन भवन को उड़नदस्ता दल के साथ कनीय अभियंता प्रणव कुमार ठाकुर के द्वारा काम बंद करवाते हुए भवन निर्माण करने वाले व्यक्ति से दस्तावेज की मांग की गई परंतु भवन निर्माण एवं जमीन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के उपरांत कमिया अभियंता के द्वारा उक्त भवन को सील कर दिया गया। करवाई में अभियंता प्रणव ठाकुर के साथ राजस्व कर्मी प्रकाश भागत, विनोद तिवारी, गणेश राम के साथ उड़न दस्ता दल शामिल रहे।

**आदिवासी कुड़मी समाज का गाछ रोपा होमदुमि कार्यक्रम 25 से**  
जमशेदपुर। गत शुक्रवार को संख्या 7 बजे से रात्रि 8-15 बजे तक आदिवासी कुड़मी समाज की एक 'गाछ रोप' केन्द्रिय अध्यक्ष प्रसेनजीत महतो की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में तय हुआ कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी गाछ रोपा होमदुमि (3) कार्यक्रम का आयोजन 25 जून से 16 जुलाई तक किया जायेगा जबकि 9 जुलाई को रांची में झारखंड प्रदेश सम्मेलन किया जायेगा। इसमें झारखंड प्रदेश कमेटी के गठन के साथ कार्यक्रमों प्रशिक्षण भी आयोजित होगा।

खबर मन्त्र व्यूरे

जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत घाटशिला अनुमंडल के दरिसाई सबर बस्ती की अनाथ सोमवारी सबर का नामांकन संत जोसेफ स्कूल, गोलमुरी में कक्षा 1 में कराया गया है।

9 साल की सोमवारी सबर के माता-पिता की मौत टीबी से वर्ष 2022 में हो गई थी जिसकी खबर अखबारों के माध्यम के मिलने के बाद उपायुक्त (डीसी) विजया जाधव ने संज्ञान लेते हुए सोमवारी का दखिला नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में कराया था। सोमवारी के बेहतर भविष्य को देखते हुए अब उपायुक्त ने उसका नामांकन संत जोसेफ स्कूल में कराया है। इस मौके पर उपायुक्त ने

**अभिभावक के रूप में डीसी ने किया फॉर्म पर साइन, कहा- जिले का नाम रोशन करेगी बिटिया**



अभिभावक के रूप में नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर करती विजया जाधव। साथ में नन्ही सोमवारी सबर। अपने बंगले में फले आम सोमवारी और उसकी सहेलियों को किया गिफ्ट।



सोमवारी से मुलाकात कर उसे टॉफी एवं खेलकूद का सामान भी कपड़े, पठन-पाठन की सामग्री तथा दिया। साथ ही सोमवारी के पुराने विद्यालय के सभी बच्चों के लिए अपने आवास से आम भी भिजवाया।

# छात्रों व वृद्ध लोगों के लिए सीएम रुरल फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस जल्द : चंपई सोरेन

मंत्री चंपई सोरेन ने कहा, सभी जिलों में छात्र व वृद्ध लोगों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी फ्री सेवा जल्द शुरू किया जाएगा। यह बातें आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने छोटानागपुर इंटर कालेज हेंसल के इंटर पास आउट छात्र-छात्राओं के सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कही। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने कई बड़े निर्णय लिए। राज्य में वर्तमान 80 माडल स्कूल का शुभारंभ किया गया है। माडल स्कूलों में निजी विद्यालयों से भी अच्छी शिक्षा मिले यह सुनिश्चित किया गया है। जल्द ही



छात्र सम्मान समारोह में दीप प्रज्वलित करते मंत्री चंपई सोरेन।

राज्य के सभी पंचायतों में 5 हजार माडल स्कूल खोले जाएंगे। हमारी सरकार ने सभी प्रखंडों में डिग्री कालेज खोलने का निर्णय पूर्व में ही लिया है। मंत्री ने कहा कि छोटानागपुर कालेज डिग्री कालेज जल्द बनेगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सरकार के साढ़े तीन वर्ष पुरे हुए, इसमें दो वर्ष कोरोना में बीते। डेढ़ वर्ष में सरकार द्वारा राज्य में विकास की लंबी लकीर खींच दी है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, सिर्फ झूठ का हाथतौबा मचा रही है। इसके पूर्व छात्र, छात्राओं को मेडल और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। मंत्री ने छात्रों को देश का भविष्य बताया। छात्रों को आगे भी अच्छा रिजल्ट लाने को प्रेरित किया। इस अवसर पर सरायकेला के एसडीएम रामकृष्ण कुमार, प्रिंसिपल प्रकाश चंद्र विश्वित, नीचू

**इन टॉपर छात्रों का हुआ सम्मान**

कॉलेज के विज्ञान संकाय से प्रथम टापर शुभम साहु, द्वितीय सुभाष पांडेगी, तृतीय कापरा हांसदा, वाणिज्य संकाय से प्रथम टापर सुफल दुडू, द्वितीय आशीष पाला, तृतीय छीता सोरेन, कला संकाय में प्रथम टापर बेबी डे, द्वितीय दुर्गा चरण सोरेन, तृतीय संजु सरकार व चतुर्थ अमानत अली सहित सभी विषयों के क्रमवार दस दस छात्रों को कालेज द्वारा सम्मानित किया गया।

प्रधान, राजमंजि हांसदा, प्रो.सुनीता सिन्हा, कान्दा मुंडा, सुमित महतो, जयदेव मेहरा आचार्य, विश्वरूप मिश्रा, मांजित खंडाईत सहित सैकड़ों छात्र, छात्राएं व अभिभावक उपस्थित थे।

खबर मन्त्र प्रतिनिधि

पोटका। राज्य के सभी जिलों में छात्र व वृद्ध लोगों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी फ्री सेवा जल्द शुरू किया जाएगा। यह बातें आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने छोटानागपुर इंटर कालेज हेंसल के इंटर पास आउट छात्र-छात्राओं के सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कही। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने कई बड़े निर्णय लिए। राज्य में वर्तमान 80 माडल स्कूल का शुभारंभ किया गया है। माडल स्कूलों में निजी विद्यालयों से भी अच्छी शिक्षा मिले यह सुनिश्चित किया गया है। जल्द ही

## आदिवासी प्लस टू स्कूल में विधायक की उपस्थिति में नामांकन अभियान लांच

जमशेदपुर। सीतारामडेरा स्थित आदिवासी +23 उच्च विद्यालय में शनिवार को सरजू राय, विधायक, पूर्वी जमशेदपुर के द्वारा वार्षिक माध्यमिक/इण्टर परीक्षा 2023 में टॉप टैन छात्र/छात्राओं को प्रतिभा-



मेधावी बच्चों के साथ विधायक सरजू राय।

सम्मान समारोह एवं नये सत्र में नामांकन अभियान की शुरुआत की गई। मीडिक में प्रथम-एकता सुहन्द, द्वितीय- गोलु कुमार, तृतीय- महार पौदार एवं इण्टर साइंस में प्रथम- रिया चौधरी, द्वितीय- उज्वला कुमारी, तृतीय- सुमीत यादव, इण्टर कॉमर्स में प्रथम- रेशमी हेन्म, द्वितीय- रजनी कुमारी, तृतीय- सुमन कुमारी, इण्टर आर्ट्स में प्रथम- प्रेरणा स्वामी, द्वितीय- सोनिया पिंगुवा, तृतीय- आकाश साहू, को मोमेटो देकर विधायक जी सम्मानित किये। इस सम्मान समारोह में सभी अतिथियों का स्वागत विद्यालय के प्राचार्य छोटन लोहरा ने परीक्षाफल पर प्रकाश डालकर किये। इस कार्यक्रम में यस.पी सिंह विधायक प्रतिनिधि शिक्षा, चन्द्रशेखर मिश्रा सांसद प्रतिनिधि, सोनाराम बोदरा रज उध्यक्ष, बुबु खलखो, छोटलाल मुन्नी, अजय सिन्हा-विधायक प्रतिनिधि, अनीता सिन्हा, उदित नारायण, विभीषण गोर्खाई, पंकज कुमार गिरी, श्रीति मन्ना कुल्लू, सुनीता कुमारी, मंजु कुमारी, अनीता कुमारी, रिंकु कुमारी आदि उपस्थित रहे।

## पटेल स्कूल, छोटा गोविंदपुर में 37वीं अमृत धारा स्थापित

खबर मन्त्र व्यूरे

जमशेदपुर। मारवाड़ी युवा मंच, स्टील सिटी शाखा द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए, छोटा गोविंदपुर के सरदार वल्लभभाई स्कूल में 37वीं अमृत धारा शीतल पेय जल की स्थापना की। इस पहल का उद्देश्य स्कूल में नामांकित लगभग 750 छात्रों को शीतल एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। अमृत धारा मंच द्वारा संचालित परियोजना है जो वंचित क्षेत्रों में शीतल एवं सुरक्षित पेयजल की पहुंच के महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करने का प्रयास करती है। सरदार वल्लभभाई पटेल स्कूल में 37वें अमृत धारा की स्थापना छात्रों के कल्याण और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल के साथ, मारवाड़ी युवा मंच का उद्देश्य सीखने और विकास के लिए अनुकूल वातावरण



बनाकर शिक्षा को बढ़ावा देना है। अध्यक्ष मोहित मूनका ने कहा, सरदार वल्लभभाई स्कूल में 37वें अमृत धारा की स्थापना को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह प्रयास समुदाय के कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और यह सुनिश्चित करने के लिए धारा की स्थापना छात्रों के कल्याण और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल के साथ, मारवाड़ी युवा मंच का उद्देश्य सीखने और विकास के लिए अनुकूल वातावरण

आवश्यकताओं को संबोधित करने के महत्व को समझता है। अमृत धारा के संयोजक नवनील बंसल ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, मैं मारवाड़ी युवा मंच और इस स्थापना को संभव बनाने में शामिल सभी व्यक्तियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। युवा पीढ़ी के बेहतर भविष्य का निर्माण करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। अमृत धारा छात्रों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार लाने में सहायक होगी। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष मोहित मूनका, सचिव सौरभ सोंथालिया, कोषाध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, उपाध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल एवं विशाल अग्रवाल, नवनील बंसल, अनिमेष छेड़ोपलिया, रमेश अग्रवाल, अभिषेक नरोटी, अंकित मुन्का, प्रधानाचार्य सरिता जयसवाल, उप मुखिया दिनेश सिंह, पंचायत समिति के संजय कुमार अंजय कुमार सहित कई उपस्थित थे।

## छोटानागपुर को मणिपुर नहीं बनने देंगे : देवाशीष महतो

खबर मन्त्र व्यूरे

जमशेदपुर/चांडिल। शनिवार 10 जून को कुड़मी समाज ने प्रेमशाही मुंडा के खिलाफ चांडिल थाना में दर्ज करवाया दंगा भड़काने का मामला। आरोप लगाया कि यह लोग चाहते हैं कि मणिपुर जैसा दंगा झारखंड में हो लेकिन कुड़मी समुदाय इनके मनसूबों को कभी सफल नहीं होने देगी। विदित हो कि 04 जून को आदिवासी आक्रोश जनसभा के दौरान संविधान निमार्ता में से एक बाबा साहब भीमवार अम्बेडकर के फोटो के सामने अपने भाषण में कुड़मी समाज के खिलाफ काफी अशब्दों का प्रयोग किया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा था कि कुड़मी लोगों को जाहिर थाने में ले जाकर बलि देना होगा। उनके खिलाफ मामला साहेरबेड़ा के देवाशीष महतो ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ

## कुड़मी समाज ने प्रेमशाही मुंडा के खिलाफ दर्ज करायी प्राथमिकी



जाकर दर्ज करवाया। महतो ने बताया कि कुड़मी समुदाय अपने समुदाय को रूठ सूची में शामिल करवाने के लिए संविधानिक लड़ाई

बन जाता है तो उनका हक मारा जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि कुड़मी एसटी में शामिल हो जाता है तो आरक्षण का दावरा भी बढ़ेगा और यह क्षेत्र 5 वीं अनुसूची से 6 ठी अनुसूची में शामिल हो जाएगा। महतो ने आरोप लगाया कि कुछ राजनैतिक पार्टियां और नेता अपने नहिदत राजनैतिक स्वार्थ के लिए झारखंडी समुदायों को आपस में लड़ाने में लगा हुआ है। यही लोग पहले झारखंड में सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर हिन्दू मुस्लिम करने में लगा हुआ था। जब हिन्दू मुस्लिम करने में असफल हुए तो झारखंडी समुदायों को आपस में लड़ाने में लगी हुई है। लेकिन इन लोगों का मनसूबा को हमलाग कभी भी कामयाब नहीं होने देगे। छोटानागपुर को मणिपुर नहीं बनने देंगे।

## तीज-त्यौहार में हमेशा सोमवारी से मिलती रही हैं डीसी

नन्ही सी सोमवारी सबर की कहानी काफी भावुक करने वाली है। 8 साल की उम्र में अपने माता-पिता को खो देने वाली सोमवारी को अभिभावक या कहें मां के रूप में जिले की उपायुक्त ने हमेशा धार लूटाया। सोमवारी के पिता लाहलू सबर की टीबी की बीमारी से मीत के दो महीने बाद मां जोबनी सबर की भी मौत 8 अप्रैल 2002 को टीबी से ही हो गई थी। इतनी कम उम्र में सोमवारी पर दुखों का पहाड़ टूटने के बाद जिले की उपायुक्त ने काफी संवेदनशीलता दिखाते हुए उसे ममता का छांव दिया। कभी दिवाली मनाने के बहाने उपायुक्त खुद सोमवारी के स्कूल पहुंच जाती रहीं तो कभी छट या दूसरे त्यौहार में उसे अपनों के नहीं होने की पीड़ा नहीं हो ऐसे में आवास पर बुलाकर पूरा दिन बिताया। हर तीज-त्यौहार में सोमवारी के साथ रहकर उपायुक्त ने उसके साथ खुशी के पहल बिताये वहीं एक अभिभावक के तौर पर सोमवारी के शिक्षा की फिर की हर तक की। सोमवारी के शिक्षकों से उसके पठन पाठन की जानकारी लेनी हो या अभिभावक नियुक्त की गई डीसीपीओ डॉ चंचल कुमारी एवं केजीबी जिला भारी बिट्टू झा से उसकी खोज खबर लेना, सोमवारी हर पल उपायुक्त के साथ रहीं। अब जब सोमवारी का नामांकन दूसरे विद्यालय में हुआ तो उपायुक्त ने उसके उज्वल भविष्य की शुभकामना देते विदा किया। इस मौके पर उन्होंने सोमवारी के प्रति गर्व जताते हुए कहा कि सोमवारी काफी संवेदनशील बच्ची है, इसे हमेशा लाइ चार मिले, हर दुख से दूर रहे, इसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आये, यह नन्ही जान एक दिन जरूर जिले और अपने राज्य का नाम रोशन करेगी।

खबर एक नजर में

**गम्हरिया : नियोजन नीति का छात्रों ने किया विरोध**  
गम्हरिया। राज्य सरकार द्वारा लागू गए 60-40 नियोजन नीति के विरोध में झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा आहूत दो दिवसीय बंद के प्रथम दिन बंद समर्थकों की ओर से कांडा, गम्हरिया व आसपास के क्षेत्रों में सड़क जाम किया गया। इस दौरान छात्र संगठनों द्वारा कांडा बाजार, गम्हरिया दुर्गापुजा मैदान समेत कई जगहों पर सड़कों पर टायर जलाकर आवागमन बाधित किया गया। बंद समर्थक छात्र संगठन के कार्यकर्ता प्रातः पांच बजे से ही सड़कों पर उतर आए थे। इस दौरान कांडा मोड़ से पिंडराबेड़ा मोड़ तक करीब दो किलोमीटर और गम्हरिया उषा मोड़ से डीवीसी मोड़ तक करीब तीन किलोमीटर तक छोटे-बड़े वाहनों की कतारें लगा गई जिससे टाटा-कांडा मार्ग पूरी तरह जाम रहा। इस जाम के कारण प्रातः करीब नौ बजे तक विभिन्न कर्मानियों में बसों से आने जाने वाले कर्मचारी व स्कूली छात्र फंसे रहे। इस कारण इस भीषण गर्मी में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान बंद समर्थक छात्रों द्वारा जुलूस निकाल कर सरकार के विरुद्ध नाराजगी भी की गई। हालांकि, छात्र संगठनों की बंदी के मद्देनजर प्रशासनिक और से सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी की गई थी। जगह-जगह पर भारी मात्रा में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। कांडा व गम्हरिया थाना भारी दरबल के साथ लगातार गश्ती कर मुआयना कर रहे थे। करीब चार घंटे बाद पुलिस पदाधिकारियों के काफी समझाए बुझाने के बाद बंद समर्थक सड़क जाम हटाने पर राजी हुए। उसके बाद टाटा-कांडा मार्ग पर वाहनों का परिचालन सामान्य हो सका।

## आरकेएम वोकेशनल कॉलेज के शासी निकाय की बैठक में शामिल हुए सरजू

जमशेदपुर। जमशेदपुर के सिंदगोड़ा स्थित राम कृष्ण मिशन (आरकेएम) वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के शासी निकाय की प्रथम बैठक शुक्रवार को संस्थान के सभाकक्ष में हुई। इसमें संस्थान से जुड़े विभिन्न विदुओं पर चर्चा करते हुए सर्वोच्च संस्थान के नाम में सुधार करते हुए इसका नाम आरकेएम वोकेशनल कॉलेज करने का निर्णय लिया गया। इसके पश्चात कॉलेज में छात्र-छात्राओं का नामांकन बढ़ाने पर चर्चा की गयी। साथ ही बीसीए के अलावा अन्य पाठ्यक्रम की स्वीकृति के लिए प्रयास करने पर विचार-विमर्श किया गया। बता दें कि यह कोल्हान विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त कॉलेज है। यहां फिलहाल बीसीए पाठ्यक्रम का संचालन किया जाता है। बैठक के पश्चात उपस्थित सभी सदस्यों ने कॉलेज के लैब, क्लबास रूम, कैफे, लाइब्रेरी आदि का निरीक्षण किया और संतुष्ट नजर आए। कॉलेज के प्राचार्य डॉ अरविंद तिवारी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। बैठक में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि डॉ मनोज महापात्र, दानदत्ता प्रतिनिधि दिनेश कुमार भट्टाचार्य, शिक्षादाय एचपी शुक्ल, आमंत्रित सदस्य चर्च सांख्यी चटर्जी एवं स्वामी अमरू रूपाचंद जी महाराज उपस्थित थे।

## मृत्यु के बाद भी दुनिया देखेंगी संजय की आंखें

जमशेदपुर। जगसलाई शिवा रोसिंडेसी के रहने वाले संजय जमशेदपुर अग्रवाल (उम्र 56 वर्ष) की मृत्यु के पश्चात भी उनकी आंखें रोसरी देती रहेंगी। मारवाड़ी महिला मंच जमशेदपुर की पहल पर संजय के निधन के पश्चात उनके छोटे भाई विजय अग्रवाल एवं बहन निधि अग्रवाल की सहमति से 10 जून शनिवार को नेत्रदान जगसलाई निवास पर ही करवाया गया। जिससे दो लोगों की दुनिया रोशन होगी। इस नेक कार्य में रोसरी सोनी की अध्यक्ष तरु गांधीजी, सीता जोशी एवं नेत्र रोसरी विशेष डॉक्टर अजय गुप्ता सहित मारवाड़ी महिला मंच की सदस्यों की याद भूमिका रही। इस पुनीत कार्य के लिए मारवाड़ी महिला मंच जमशेदपुर की अध्यक्ष बीना अग्रवाल ने संजय के परिवार वारों, रोसरी संस्था एवं डॉ अजय गुप्ता को साधुवाद दिया। मालूम हो संजय अग्रवाल महिला मंच की सदस्य विद्या अग्रवाल के उंच थे। जिन का आत्मिक निधन शनिवार 10 मई को हुआ। अंतिम संस्कार जगसलाई शिव घाट में संपन्न हुआ। यह जानकारी मारवाड़ी महिला मंच की सुशील खीरवाल द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि मारवाड़ी महिला मंच जमशेदपुर शाखा द्वारा कई सालों से नेत्रदान महानंद को संचालन चलाया जा रहा है। मृत्यु के पश्चात नेत्रदान करवाने में सक्षम भी हुए हैं। समाज के सभी बंधुओं से अपील है कि अगर किसी के घर में ऐसी घटना होती है और व अगर नेत्रदान करवाने में इच्छुक हो तो मंच की अध्यक्ष बीना अग्रवाल (9304833999), सुशीला खीरवाल (9431952424) एवं सीमा अग्रवाल (7858016351) से संपर्क कर सकते हैं। इस कार्य के लिए संस्था सभी सेवाएं नि:शुल्क प्रदान करती है।

## बिरसा महिला समिति एवं वुथु प्लेयर्स ट्रेनिंग सेंटर के बच्चों ने जू भ्रमण किया

जमशेदपुर। वुथु प्लेयर्स ट्रेनिंग सेंटर बालिगुमा, मानगो वलब में जिस प्रकार गरीब बच्चों को नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। उसी प्रकार, बिरसा नगर के गरीब बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए बेहतर शिक्षा प्रदान करने में बिरसा महिला समिति अहम भूमिका निभा रही है। रविवार को दोनों संस्था के लगभग 70 बच्चों को जीव-जंतु के बारे में अहम जानकारी देने और पर्यावरण को बेहतर रूप से जानने के लिए सभी बच्चों को सामाजिक संस्था नाम्या सभाइल फाउंडेशन के संस्थापक कुमाल धांडगी के द्वारा नि:शुल्क टाटा जू में भ्रमण कराया गया। इन सभी बच्चों को निशुल्क शिक्षा के साथ-साथ निशुल्क खेल में भी बेहतर दिशा देने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और इन सभी बच्चों को यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जीवन में जीव जंतु और पर्यावरण हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। हमें जीव-जंतु एवं पर्यावरण का हमेशा संरक्षण करना चाहिए क्योंकि जीव जंतु के जीवित रहने से ही हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है। बच्चों ने टाटा जू के म्यूजियम से कई सारे जीव जंतु के अवशेषों को स्पर्श कर नए अनुभव को पाया। इस दौरान बच्चों ने टाटा जू में कार्यरत डॉक्टर सीमा रानी के द्वारा कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। भ्रमण के दौरान बच्चों ने कई पशु-पक्षियों को सामने से देख कर उनके बारे में जाना। इस मौके पर दिव्य सोए, नीरज गोप, सुलोचना देवी मुंडा, रिशु केसरी, तहसील हाशमी व अन्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

## एनटीटीएफ के 8 छात्र 2.44 लाख के पैकेज पर एसकेएफ कंपनी में लॉक

जमशेदपुर। एनटीटीएफ के गोलमुरी स्थित आर डी टाटा तकनीकी संस्थान में बीते दिनों गुडगांव स्थित एसकेएफ कंपनी द्वारा कैपस सिलेक्शन किया गया। कंपनी द्वारा आयोजित कैपस सिलेक्शन में सर्वोत्तम लिखित परीक्षा, छात्रों की व्यक्तिगत प्रतिक्रिया, तकनीकी क्षमता को परखा गया एवं फाइनल सिलेक्शन इंटर्व्यू राउंड के बाद किया गया जिसमें छात्रों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हुए संस्थान को गोवाहित किया गुडगांव के मानेवर स्थित कंपनी द्वारा एनटीटीएफ के 8 छात्रों को 2.44 लाख के पैकेज पर लॉक किया गया। सभी छात्रों ने तीनों राउंड के सिलेक्शन प्रक्रिया में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे अपनी उम्र इस कंपनी में बनाई। सभी छात्रों ने डिप्लोमा इन टूल् इंजीनियरिंग एंड डिजिटल मनुफैक्चरिंग के है, जिसमें अभित कुमार महतो, अंकित सिंह, साहिल कुमार सिंह, विनोद सिंह, सर्वेश पाण्डेय विनीत मुन्नी, मयंक कुमार सिंह हेमंत देव शामिल है। प्लेसमेंट में संस्थान के प्लेसमेंट पदाधिकारी नेहा एवं मिथिला ने सहयोग किया। प्राचार्य प्रीता जॉन ने सभी छात्रों को उनके उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दीं। रमेश राय, पंकज कु मुन्ना, लक्ष्मण सोलन दीपक सरकार अनिल के जवाली प्रीति हरीश कुमार साथ उपाध्यक्ष प्रशासनिक अधिकारी वरुण कुमार ने भी छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

## स्पीड न्यूज

### गर्मी में सुखा जलश्रोता, दाह संस्कार के लिए भी पानी की किल्लत

सतबरवा पलामू। सदर मेदिनीनगर प्रखंड क्षेत्र के लहलहे गांव में पानी की समस्या गंभीर बनी हुई है। गांव के अधिकतर चापाकल, कुआं, तालाब,जलाशय तथा नदी सूख गए हैं। जिसके कारण आम आवास को पानी की समस्या झेलनी पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर मृतक के दाह संस्कार के लिए भी पानी नसीब नहीं हो रहा है। ऐसा ही एक दृश्य लहलहे गांव स्थित मलय नदी में देखने को मिला। जहां सेवानिवृत्त शिक्षक श्रदानंद तिवारी की पत्नी दुला देवी की आकार्मिक निधन के बाद दाह संस्कार के लिए मलय नदी में शनिवार को ले जाया गया था। दाह संस्कार के दौरान नदी को सूख जाने के कारण पानी की समस्या देखी गई। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए गांव के ही सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण तिवारी उर्फ बबलू तिवारी ने लगभग 3 फीट चुआड़ी खोद और दाह संस्कार कार्य संपन्न किया गया। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता बबलू तिवारी ने सोशल मीडिया के माध्यम से सदर बीडीओ अमितभगत भगत से पानी की किल्लत को देखते हुए खराब बड़े चापाकल को बनवाते तथा पशुओं को पीने के लिए जगह जगह पर नदियों में आहोर खुदवाने की मांग किया है। उन्होंने बताया कि नदी में आहोर खुदवाने से जहां पशु पक्षियों को पीने के लिए पानी उपलब्ध हो जाएगा वहीं दूसरी ओर दाह संस्कार करने के लिए लोगों की सुविधा होगी। इस मौके पर झारखंड प्रदेश के इंटक सचिव विवेका त्रिपाठी, दिल्ली त्रिपाठी, सुनील तिवारी घनश्याम तिवारी आलोक तिवारी समेत कई लोग मौजूद थे।

### केंद्र सरकार ने जात पात से उपर उठकर किया विकास : ज्योति पांडे

मेदिनीनगर। महाजनसंपर्क अभियान के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा पलामू के द्वारा आज आबादगंज में नव मतदाता सम्मेलन सह संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में युवाओं के बीच मोर्चा के जिलाध्यक्ष ज्योति पांडे ने नव मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण लिए समर्पित केंद्र की सरकार के नौ वर्ष पूर्ण हो गए हैं। केंद्र की सरकार ने जाति पति भेदभाव से ऊपर उठकर इस देश का सम्पूर्ण विकास किया है। यह सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। एक स्वर में युवाओं ने कहा कि अगला वोट मोदी को, एक बार फिर से मोदी सरकार बनायेंगे। कार्यक्रम में जिले के उपाध्यक्ष रोहित शर्मा जी नगर मंडल अध्यक्ष चहुल अग्रवाल, अश्विनी सिंह, राहुल पांडे, बलू गिरी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।

**पेड़ से विकसित 13 वर्षीय किशोर धायल हुसैनाबाद पलामू।** अनुमंडल के अतिसुदूरती क्षेत्र महदण्ड गांव में पेड़ का पक्का आम लहने के चक्कर में मर्दिस राम का 13 वर्षीय पुत्र परकज कुमार रवि गिर कर धायल हो गया। घटना के बाद घर के पड़जिन व ग्रामीणों ने उसे बेहोश की स्थिति में हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को देखते हुए मेदिनीनगर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। मौके पर मुखिया पति शिवशंकर यादव अस्पताल पहुंच कर मदद करने की बात कही।

### सनातन से जुड़े कार्यों में धर्मसभा तत्पर : अजीत

नीलांबर पीतांबरपुर पलामू। नीलांबर पीतांबरपुर प्रखंड के झगरपुर में सूर्य मंदिर प्राण प्रदिक्षा कार्यक्रम का समापन सत्य सनातन संवाद से किया सम्मान समारोह से किया गया। कार्यक्रम में ऊँ सनातन धर्म सभा के द्वारा सूर्य मंदिर कमेटी एवं राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वहिनी के प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र तिवारी को मोमेंटो एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वहिनी ने भी मंदिर कमेटी के सभी सदस्यों को अंगवस्त्र से सम्मानित किया। कार्यक्रम में ऊँ सनातन धर्म सभा के केंद्रीय अध्यक्ष अजीत तिवारी ने कहा कि सनातन का मतलब शायतन है, अर्थात जिसका ना कोई आदि ही और ना कोई अंत है। कार्यक्रम का संवादन कर रहे मंदिर कमेटी के सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि आदि काल से ही ब्राह्मण समाज मानदंशिक की भूमिका निभाई है। मौके आम सनातन धर्म सभा के उपाध्यक्ष राम प्रकाश तिवारी, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, सचिव राजू राय, महामंत्री आनंद कुमार, मंत्री सुदर्शन सोनी, सुरेश भगत, लाला प्रसाद यादव, राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वहिनी के नदीन तिवारी, रंकिश पांडेय, पंडित चंदन तिवारी, अनिल दूबे, छोटे त्रिपाठी, इंटर कमेटी के सुधीर कुमार सिंह, प्रवीण सिंह समेत काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

### झारखंड प्राइवेट स्कूल एसो. का प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को मांग पत्र सौंपा

मेदिनीनगर। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन झारखंड का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य के राज्यपाल महामहिम सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर झारखंड में संचालित गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय को मान्यता के शर्तों में संशोधन एवं राहत प्रदान करने को लेकर मांग पत्र सौंपा। एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात कर राज्य के करीब 15 हजार गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षण एवं गैर शिक्षण कार्यों से जुड़े लाखों लोगों की भावनाओं से अवगत कराते हुए मान्यता के शर्तों में राहत देने का आग्रह किया है, जिसमें सीएमटी, टाउन लीज और सरकारी प्रतिबंधित भूमि के बीच जमीन की अहतां, कर्मरों के आकार, निरीक्षण व बंधक राशि जैसे कठोर शर्त मान्यता के रास्ते में बाधक हैं। मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष विजायानंद पाठक ने भी समस्याओं पर महामहिम राज्यपाल से उदारता पूर्वक विचार करने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल में संरक्षक अविनाश कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष अजय श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष आनंद कुमार, सचिव सतीश अग्रवाल सचिव का नाम शामिल है।

### सीडी राम की कमी हमेशा युवाओं को खलेगी : बिट्टू पाठक

मेदिनीनगर। कांग्रेस भवन में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रसिद्ध समाजसेवी स्वर्गीय सीडी राम की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पलामू कांग्रेस जिला अध्यक्ष जेश रंजन पाठक उर्फ बिट्टू पाठक ने की। बैठक में कांग्रेसियों ने दो मिनट का मौन रखकर शोक व्यक्त किया। पाठक ने सीडी राम को एक समर्पित कांग्रेसी बताया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सीडी राम जी के जीवन से हमें शिक्षा लेने की जरूरत है। युवाओं को उनकी कमी हमेशा हम लोग को खलती है। कार्यक्रम में आम्रकाश अमन, सोनू खान जाहिद खान जितेंद्र कमलापुरी एवं साहनी, शेर खान, गणेश रवि,सत्येंद्र सिंह, राजेश चौरसिया, विश्वनाथ राम, विजय कुमार अग्रवाल, सिद्धनाथ प्रसाद गुमा, छोटू, बबलू, सुशील सिंह, छोटू सिंह, अजीज अंसारी, रविंद्र सहित कई लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित किया।

**दोषी पर कार्रवाई करने की मांग** मनातू पलामू। मनातू प्रखंड के नौडिहा थाना के कोशियारा निवासी सरजू यादव के पुत्र भगवान यादव ने मनातू थाना प्रभारी को आदेश देकर अपनी बहन उर्मिला देवी पति विकेश यादव व भांजी अनुष्का यादव पांच माह की हत्या की हत्या कर शव छिपाने के मामले से अवगत कराया है। भगवान ने आवेदन में कहा है कि उसकी बहन व भांजी मनातू प्रखंड के नगर मंडली टोला भदई बथान के निवासी हैं। बहन व भांजी को विकेश यादव पिता अर्जुन यादव, अर्जुन यादव पिता स्व समन यादव, कितो देवी पति अर्जुन यादव, राम आनंद यादव पिता स्व समन यादव, सुनिता कुमारी पति अर्जुन यादव व बेजनाथ यादव पिता बरत यादव मनातू के मंडली, सुधीर यादव व उकली पत्नी गाम ताला तरहसी थे सभी लोग साजिश के तहत मेरी बहन व भांजी की हत्या कर शव छिपा दिये हैं।

## पर्यावरणविद कौशल और पूनम पांच दिवसीय दौरे पर सिंगापुर व मलेशिया हुए रवाना

### निःशुल्क पौधा वितरण, रोपण व वृक्षों पर रक्षाबंधन का करेंगे शुभारंभ

### सिंगापुर व मलेशिया में लगायेंगे भारत का पौधा

#### खबर मन्त्र संवाददत्ता

**मेदिनीनगर।** विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पर्यावरण धर्मगुरु व नन राखी मूवमेंट के प्राणेता पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल और उनकी धर्मपत्नी सह बीपीएसए संस्था के प्रधान सचिव व छतरपुर अनुमंडल के डाली बाजार पंचायत के मुखिया पूनम जायसवाल इस वर्ष निःशुल्क पौधा वितरण व रोपण एवं वृक्षों पर रक्षाबंधन कार्यक्रम का शुभारंभ सिंगापुर के चांगी विलेज व मलेशिया की राजधानी कुलालंपुर तथा पेनांग की धरती से करेंगे। कौशल ने इसकी जानकारी अपने आवास पर्यावरण भवन से एक



प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है। इस कार्यक्रम को लेकर कौशल और मुखिया पूनम शनिवार को सिंगापुर व मलेशिया के पांच दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए कौशल ने बताया कि निःशुल्क पौधा वितरण सह रोपण के 56वां वर्ष और वृक्षों पर रक्षाबंधन कार्यक्रम का शुभारंभ सिंगापुर के चांगी विलेज व मलेशिया की राजधानी कुलालंपुर तथा पेनांग की धरती से करेंगे। कौशल ने इसकी जानकारी अपने आवास पर्यावरण भवन से एक

वितरण सह रोपण व वृक्षों पर रक्षाबंधन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कौशल ने यह भी बताया है कि देश के 10 राज्यों में कार्यक्रम का उदघाटन मंत्री के द्वारा जिले के छतरपुर अनुमंडल के ग्राम पंचायत डाली बाजार के कौशल नगर से किया जाएगा। जबकि झारखंड राज्य के लिए आयोजित कार्यक्रम का उदघाटन मेदिनीनगर के पर्यावरण भवन से आईएसएस अधिकारी करेंगे। उन्होंने बताया कि इस बार 95% कार्यक्रम का आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा। ताकि गांवों में पूर्णतः हरित क्रांति लाया जा सके। मौके पर पाषंद अमित कुमार जायसवाल, प्रो अरुण कुमार, दोनों पुत्रों को नाइजीरिया का बेडरूम में रखने वाले प्रदूषण का दुष्प्रम पौधा फिडल लिपट रिप्ट के रूप में दिए। कोमल, आराध्या आदिका, रामू, छोटू मौजूद थे।

## बालू उठाव पर रोक के बावजूद भी घाटों का निकाला जा रहा टेंडर

## जनता को मूर्ख समझ रही सरकार : विधायक

#### खबर मन्त्र संवाददत्ता

**मेदिनीनगर/चैनपुर।** झारखंड के कांग्रेस, राजद, झामुमो महागठबंधन वाली सरकार में पलामू समेत पूरे झारखंड की जनता त्राहिमन कर रही है। आम गरीब, मध्यमवर्गीय लोगों को बालू जैसे सामग्री के लिए भी त्राहिमना करना पड़ रहा है। इससे बड़ी विडंबना राज्य के लिए और क्या हो सकती है। उक्त बातें डालटनगंज चैनपुर भडरिया के विधायक आलोक चौरसिया ने कहीं। उन्होंने कहा कि जब जनता को बालू की जरूरत थी। उस समय राज्य की हेमंत सरकार ने बालू घाटों का नीलामी नहीं किया। जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नयी दिल्ली एवं पंचावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष 10



जून से 15 अक्टूबर तक पूरे देश में बालू उठाव पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसके बावजूद भी झारखंड सरकार द्वारा बालू घाटों का नीलामी जिला प्रशासन के माध्यम से कराया जाता है। यह कही से उचित दिखाई नहीं देता है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार पलामू की जनता को मूर्ख समझ रही है। जिस समय बालू की जरूरत थी उस समय घाटों का नीलामी नहीं किया गया। जब वर्षों

का समय आया तो यह सरकार जनता को बेवकूफ बनाते हुए बालू घाटों का नीलामी कराती है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के इस सोच से यह साबित होता है कि वह विकास विरोधी है,जनविरोधी है, रोजगार विरोधी है। यदि सरकार को लोगों की चिंता रहती तो यह सरकार पूर्व में ही बालू घाटों का नीलामी करा देती। यह सरकार बालू माफियाओं समेत भू माफिया, खनन माफिया से घिरी हुई है। चौरसिया ने कहा कि हेमंत सोरें का की सरकार राज्य को लूटने का काम किया है। जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। इस सरकार से मुक्ति पाने के लिए जनता व्याकुल है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में

16 जून को ग्राम किन्नी में मनाई जायेगी अनिल चौरसिया की 11 वीं पुण्यतिथि

## आज भी सामंतवादी विचारधारा के लोग गरीब शोषित को सता रहे हैं : आलोक चौरसिया

#### खबर मन्त्र संवाददत्ता

**चैनपुर पलामू।** जिला में गरीब, शोषित, दलित, पिछड़ा वर्ग के लोगों के हक एवं अधिकार की लड़ाई को लेकर समंतवादियों से लड़ते हुए अनिल चौरसिया गरीबों के लिए शहीद हो गए। उनके लड़ाई को मजिल तक पहुंचाने के लिए क्षेत्र की जनता आज भी संघर्षरत है। उक्त बातें डालटनगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक आलोक चौरसिया ने शाहपुर आवास पर प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि अपने पुत्र पिता स्वर्गीय अनिल चौरसिया के 16 जून 2023 को 11 वीं है। पुण्यतिथि मनाते को लेकर आम आवास जनमानस से सादर अपील करते हुए कहा कि स्वर्गीय अनिल चौरसिया की प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 16 जून 2023 को ग्राम कीनी गढ़वा रोड में उनके आत्म कद प्रथिमा के समक्ष 11 वीं पुण्यतिथि एवं शोक सभा कार्यक्रम पूर्वान्व 10 बजे दिन में किया जाएगा। जिसमें हजारों हजार की संख्या में लोग भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनायें। विधायक आलोक चौरसिया ने कहा कि अनिल चौरसिया अपने सामाजिक राजनीतिक जीवन में झारखंड बिहार में अपनी पहचान बनाए। अनवरत क्षेत्र के शोषित, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासियों पर हो रहे शोषण जुलम



अत्याचार के खिलाफ संघर्षरत रहते थे। चौरसिया ने कहा कि सामंतवाद समाप्त हो गया है लेकिन आज भी सामंतवाद विचारधारा के लोग क्षेत्र के गरीब, शोषित, दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ सामंतवादी विचारधारा से प्रेरित होकर उनके साथ अन्याय कर रहे हैं जिसकी लड़ाई में आज भी लड़ रहा हूँ। मेरे रहते भर में कोई भी सामंतवादी विचारधारा के लोग गरीब, शोषित, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग को सताने का काम नहीं कर सकता है। प्रेस वार्ता में जिला परिषद सदस्य रामलब चौरसिया, प्रमोद सिंह, पूर्व मुखिया भीषम चौरसिया,भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष नरेंद्र पांडे, असरेश चौरसिया, रूपेश कुमार, सिकंदर चौधरी, मिथिलेश कमलापुरी, अमलेश चौरसिया, ज्ञानघन चौरसिया सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे।

## डैम के साथ प्राकृतिक पहाड़ों का नजारा आकर्षक : पुष्पा देवी

### विधायक ने किया विवाह मंडप निर्माण का शिलान्यास

#### खबर मन्त्र संवाददत्ता

**छतरपुर पलामू।** क्षेत्रीय विधायक पुष्पा देवी और पूर्व सांसद मनोज कुमार ने नगर पंचायत छतरपुर वार्ड नंबर 15 अंतर्गत प्रसिद्ध सूर्य मंदिर (करमाकला) के प्रांगण में विधायक कोटे की राशि से विवाह मंडप का शिलान्यास किया। सूर्य मंदिर कमिटी के लोगों ने भी पूजा अर्चना किया। वहीं मौके पर भाजपा नेता मनोज कुमार ने कहा कि छतरपुर नगर क्षेत्र में यह बहुत ही सुंदर जगह है। यहां डैम के साथ-साथ प्रकृति पहाड़ों का भी सुंदर नजारा है। जहां पर्यटक के रूप में विस्तार किया जा सकता है। अपने वाले दिन में यह जगह को पर्यटक रूप में विस्तार किया जाएगा। मौके पर विधायक ने कहा कि डैम के साथ प्राकृतिक पहाड़ों का नजारा अदभूत है। विवाह मंडप बनने से लोगों को शादी विवाह करने में सहूलियत होगी। इस मौके पर भाजपा नेता मनोज कुमार, मंदिर के पुजारी ब्रह्मधारी विभूसुमन माधव, गणेश दास, मंदिर कमेटी के अध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता, सचिव कैलाश सिंह, कोषाध्यक्ष कमलेश गुप्ता, विजय सिंह, बैजनाथ प्रसाद उर्फ बैजू सेठ, रामनरेश यादव, प्रमाण विश्वकर्मा, पुंनक गुप्ता, अजीत कुमार, अनमोल मिश्रा, सूर्यदेव मिस्त्री सहित अन्य लोग शामिल थे।



### एनसीपी का बभंड़ी और दलपतपुर पंचायत कमिटी गठित

हरिहरगंज पलामू। पिपरा प्रखंड के दलपतपुर तथा बभंड़ी

पंचायत में एनसीपी का पंचायत कमिटी का गठन किया गया। इसमें दलपतपुर पंचायत अध्यक्ष अखिलेश यादव, सचिव संजय पासवान, प्रभारी सुदर्शन बैठा, उपाध्यक्ष सुरेश चंद्रवंशी, शिवकुमारसिंह, कोषाध्यक्ष राजू यादव, युवा अध्यक्ष काशी यादव, युवा सचिव मनोज यादव ,युवा उपाध्यक्ष वीरेंद्र यादव, संतन यादव अनिल यादव तथा कोषाध्यक्ष सत्येंद्र यादव को बनाया गया। वहीं बभंड़ी पंचायत कमिटी के लिए अध्यक्ष पिटू सिंह,उपाध्यक्ष अर्जुन साय, रमेश ठाकुर, सचिव चंचल सिंह, कोषाध्यक्ष अनिश कुमार सिंह,महिला अध्यक्ष पद्म पर लाल मुनी देवी का चयन किया गया। जबकि युवा अध्यक्ष पूर्व मुखिया संजय भुइया, युवा उपाध्यक्ष अरुण भुइया, कोषाध्यक्ष सुदीप सिंह, युवा सचिव देवनाथराय चंद्रवंशी, पंचायत प्रभारी रामराज भुइया को बनाया गया है। इस अवसर पर ग्राम पंचायत प्रभारी कांशा सिंह, पिपरा प्रखंड अध्यक्ष जनेश्वर भुइया, विचारक प्रतिनिधि सदीप पासवान, बीस सूत्री समिति अध्यक्ष रविंद्र सिंह, हरिहरगंज प्रखंड अध्यक्ष मनीष कुमार सिंह, झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष अखिलेश मेहता के अलावा काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

## ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल का समार कैप संपन्न विद्यार्थी प्रशस्ति पत्र व मेडल से हुए सम्मानित

#### खबर मन्त्र संवाददत्ता

**मेदिनीनगर।** ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में समर कैप हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हुआ। विदित हो कि यह कैप 6 जून से नियमित रूप से चल रहा था। जिसका शनिवार को समापन समारोह था। सर्वप्रथम प्रति: सूर्य नमस्कार, अन्य योगासनों के अभ्यास की शुरुआत ओउ-ध्वनि के साथ हुई। पश्चात प्राचार्य डॉ ए के सिंह के करकमलों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। तत्पश्चात छात्रों द्वारा समर कैप में सौंख्य गये गतिविधियों की मुख्य अतिथि के समक्ष मंच पर प्रस्तुति दी गई। कैप में क्रिकेट, खो-खो, रॉटिंग, राईटिंग, पेंटिंग, नृत्य, संगीत, तैराकी, योगा, बैडमिंटन एवं पाक कला आदि गतिविधियों में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र व



मेडल प्रदान किया गया। प्राचार्य डॉ ए के सिंह ने कहा कैप का उद्देश्य छात्रों को टी.वी. व मोबाइल जैसे तकनीकों के दुष्प्रभावों से दूर रखना, शारीरिक स्वस्थता के साथ सामाजिक कौशल विकसित करना। कौशल विकास के साथ रचनात्मक गतिविधियों के प्रति अभिरूचि लाना भी है। मंच संचालन शिक्षिका शिवांगी आनन्द एवं मीनू सिंह के द्वारा किया गया। अंत में शिक्षिका कुमारी शिल्पी के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया गया।

## सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता से मिलने पहुंची रेखा शर्मा

### डीसी व एसपी ने भी लिया जायजा

#### खबर मन्त्र संवाददत्ता

**हुसैनाबाद पलामू।** हुसैनाबाद के एक गांव में गत दिनों एक युवती के साथ हुए गैंग रेप की घटना को लेकर शनिवार को युवती के ननिहाल हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र के एक गांव में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के निर्देश पर सदस्य ममता कुमारी पहुंचीं। ममता कुमारी ने पीड़ित लड़की और उनके परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है। महिला आयोग के साथ साथ पूरा प्रशासन उनके साथ है। उन्होंने पीड़ित युवती का मनोबल बढ़ाने का काम



किया।साथ ही परिजनों को धैर्य रखने की सलाह दी। महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी के आने से उपायुक्त ए देवेन्द्र, एसपी चंदन कुमार सिन्हा, एसडीओ कमलेश्वर नारायण, एसडीपीओ पूज्य प्रकाश, जिला कल्याण पदाधिकारी सेवाराम साहू समेत कई अधिकारी मौजूद थे, मौके पर उपायुक्त एवं एसपी ने भी पीड़ित युवती और उनके परिजनों से मिलकर हर संभव मदद के साथ साथ उन्हें न्याय



दिलाने की बात कही। उन्होंने किसी परिस्थिति में प्रशासन से भी सहयोग का भरोसा दिलाया। जानकारी के अनुसार पीड़ित युवती और उसके परिजनों में भय व्याप्त है। वह भय की वजह अपने घर नहीं रहकर अपने ननिहाल में रह रही है। जबकि आज भी पीड़िता के गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस बल तैनात है। इधर सुदूरवाती गांव में प्रशासनिक अमला की गाड़ी और एकाएक गाड़ियों के काफिला से पीड़ित

#### मौके पर जो थे मौजूद

हुसैनाबाद बीडीओ रतन कुमार सिंह, सीओ नंद कुमार राम, मोहम्मदराज बीडीओ प्रभाकर ओझा , सीओ यशवत नायक, हुसैनाबाद थाना प्रभारी जगन्नाथ धान, मोहम्मदराज थाना प्रभारी अक्षय कुमार, एसएसआई मुरारी दास भी उपस्थित थे।

के गांव से लेकर ननिहाल तक चर्चा की बाजार मंच ग्रामीणों में चर्चा है कि आखिर एकांक जिला से लेकर अनुमण्डल तक के तमाम अधिकारियों को टीम क्यों आ धमका। इस विषय पर आधिकारिक रूप से किसी को कुछ नहीं बताया गया है इधर देर दोपहर तक गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर कुछ अधिकारियों का जमावड़ा पीड़ित के गांव वाले पंचायत सचिवालय में चलने की भी सूचना है।

## खजुरिया नाला से बालू उठाव का आदेश वापस ले सरकार : मुखिया

### बांकी नदी से बालू उठाव का आदेश दे सरकार : प्रमुख

#### अमित चौधरी

**उंटारी रोड पलामू।** जिले के उंटारी रोड प्रखंड स्थित मुखिया संघ अध्यक्ष सह लहरबंजारी पंचायत के मुखिया अशोक सिंघा के आवास पर प्रमुख, मुखिया, बीस सूत्री अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता किया। प्रखंड प्रमुख अल्का कुमारी ने बताया कि उंटारी रोड प्रखंड में एकमात्र खजुरिया नाला से बालू उठाव के लिए राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त हुई है लेकिन अफसोस है कि खजुरिया नाला में एक टोकरी की भी बालू नहीं है। मुखिया संघ अध्यक्ष सह लहरबंजारी पंचायत के मुखिया अशोक कुमार सिंह ने कहा कि



पदाधिकारियों के द्वारा गलत रिपोर्ट से राज्य सरकार से उठाव की स्वीकृति दी है। उन्होंने यह भी कहा कि कैटेगरी वन में बांकी नदी आता है। राज्य सरकार जल्द से जल्द बांकी नदी से उठाव की स्वीकृति प्रदान करे ताकि बालू के अभाव में बंद पड़े कार्यों को पुनः चालू हो सके। मुरमा खुर्द मुखिया सह मुखिया संघ अध्यक्ष रामबन्धन राम व सतबहिनी पंचायत के मुखिया शकुंतला देवी ने भी

खजुरिया नाला के बजाय बांकी नदी से बालू उठाव के लिए राज्य सरकार से स्वीकृत करने की बात कही। प्रखंड प्रमुख, बीस सूत्री अध्यक्ष, सभी मुखिया ने कहा कि उंटारी रोड प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी ही अंचलाधिकारी और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। जिसके प्रखंडवासियों को अंचल से संबंधित कार्यों में परेशानी होती है। सभी ने अंचल कार्यालय में नए अंचलाधिकारी का पदस्थापन की मांग की है। प्रेस वार्ता में करकट्टा पंचायत के उपमुखिया दुर्गेश कुमार, सतबहिनी मुखिया प्रतिनिधि सुनील शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता रामकृष्ण पाल, प्रमुख प्रतिनिधि अरुण कुमार, उमा तिवारी, शंकर राम, जयकुश कुमार मौजूद थे।

## दिवंगत पत्रकार परमानंद के परिजनों से मिले पलामू पत्रकार परिषद के लोग, ढाढस बंधाया

### पत्रकार की विधवा को जीविकोपार्जन की व्यवस्था का भरोसा दिलाया

#### खबर मन्त्र संवाददत्ता

**हुसैनाबाद पलामू।** हुसैनाबाद के वरिष्ठ पत्रकार स्व परमानंद चौधरी के परिजनों से पलामू पत्रकार परिषद के सदस्यों ने शनिवार को हुसैनाबाद में मुलाकात की। पत्रकार परमानंद की बीमारी से गत शनिवार को कुर्मी टोला स्थित आवास पर मृत्यु हो गई थी। पत्रकारों ने दिवंगत पत्रकार परमानंद चौधरी की विधवा व बच्चों को ढाढस बंधाया। उन्होंने कहा कि सभी पत्रकार दिवंगत पत्रकार परमानंद जी के परिवार के साथ हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई जारी रहेगी। जहां दिक्कत आयेंगी उसे मिलकर दूर किया जायेगा। उनकी विधवा व बच्चों के जीविकोपार्जन की व्यवस्था को व्यवस्था के जायेगी। जिससे उन्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। पत्रकारों ने कहा कि पत्रकार परमानंद जी से उनका व्यक्तिगत संबंध था। उनके निधन से जो क्षति हुई है, उसकी भरपाई



**दिवंगत पत्रकार के पुत्र को हाहाता राशि देते पत्रकार।** नहीं हो सकेगी। उन्होंने दिवंगत पत्रकार के परिजनों को कहा कि वह हमेशा उनके साथ हैं। किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। पत्रकारों ने दिवंगत पत्रकार परमानंद चौधरी के परिजनों को नियमानुसार सरकारी मदद के लिए उपायुक्त व स्थानीय विधायक से मिलने की बात कही। मौके पर पत्रकार नागेंद्र शर्मा, केतन आनंद, नील कमल, अरण शुक्ला, दिलीप कुमार,आमिर, सैयद नौशाद, संजय ओझा, जाफर हुसैन, सतेंद्र चंदेल, दीपक कुमार, देवेन्द्र नाथ गुप्ता, विकास कुमार, धनंजय कुमार, गौतम पटेल के अलावा कई पत्रकार मौजूद थे।



## जल मीनार का उद्घाटन



कतरास। शनिवार को भीषण गर्मी को देखते हुए जिला परिषद सदस्या ललिता देवी ने निचीतपुर पंचायत द्वारा अंतर्गत ब्रह्म बाबा चौक एवं रविदास टोला में सोलर आधारित जल मीनार उद्घाटन किया गया। सदस्य ने कहा भीषण गर्मी के कारण हर गांव में पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। ब्रह्म बाबा चौक से गुजरने वाले हर राहगीरों एवं विद्यालय को इस जल मीनार से लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजेश राम गंगाधर महतो ओलीन महतो नारायण रजवार, आलम अंसारी, वार्ड सदस्य रेखा देवी, किरण देवी, कुंती देवी, रजनी देवी, माला देवी, लक्ष्मी देवी, कंजन देवी, इंदर दास, मनसा दास, शंकर दास, संतोष कुमार महतो, मुकेश कुमार, जनार्दन ठाकुर मौजूद थे।

## आदेश लागू होते ही झरम कुंडा घाट से बालू उठाव बंद

कुमारधुबी। झारखंड सरकार द्वारा पंचायतों में बालू उठाव को लेकर जारी आदेश के बाद बालू घाट से बालू उठाव शुरू हो गया था। लेकिन आज शनिवार 10 जून से अनौपचारिक आदेश जारी किया गया है। एनजीटी के अनुसार 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू उठाव व खनन एवं परिवहन प्रतिबंधित है। निरसा विधानसभा से चार बालू घाट से बालू उठाव के लिए अनुमति दिया गया था। अनुमति पत्र में अंचलाधिकारी द्वारा 9 जून तक बालू उठाव का आदेश दिया गया था। जिसके कारण चिरकुंडा क्षेत्र में लोगों के बीच खुशी थी और मजदूर लोगों को भी रोजगार मिल गया था। जिससे बाजार में रोक भी लौट आई थी। बालू उठाव होने से सभी सरकारी कार्य एवं निजी कार्य काम में तेजी आ गई थी और सीमेंट छड़, ईट जैसे चीजों की मांग बढ़ गई थी। वहीं बालू उठाव बंद होने से मजदूर लोगों में भी खुशी देखी गई थी।

## कई सामाजिक कार्यकर्ता जदयू में पार्टी में शामिल

कतरास। शनिवार को श्यामडीह मोड़ स्थित यूथ फोर्स प्रधान कार्यालय में जदयू प्रकाश महासचिव सह यूथ फोर्स के प्रधान संयोजक दीप नारायण सिंह ने तोपचावी, खरियो निवासी सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल चन्द्र रजवार एवं बाघमारा, फुलारीटांड निवासी सामाजिक कार्यकर्ता संजित यादव को जदयू की सदस्यता दे कर पार्टी में शामिल किया। इस अवसर पर दीप नारायण सिंह ने पार्टी में शामिल होने पर बधाई देते हुए कहा कि आज पुरे झारखंड में जदयू पार्टी मजबूत हो रही है। पार्टी में सामाजिक कार्यकर्ता और युवा बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। आने वाले समय में जदयू झारखंड में युवाओं को रोजगार मिले इसके लिए संघर्ष करने का काम करेगी। इस अवसर पर जदयू बाघमारा प्रखंड अध्यक्ष गोपाल चन्द्र गौप, जदयू जिला महासचिव इंदर सिंह, प्रकाश मंडल, महेंद्र मोहली, गोल्डन चौहान, मुकेश सोनार, रवि कांत पांडे, आदि उपस्थित रहे।

## छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन को सौंपा ज्ञापन



बोकारो। भाजपा नेता व प्रदेश कार्यसमिति सदस्य कुमार अमित के नेतृत्व में छात्र नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने सिटी कॉलेज प्रबंधन से मिल कर एक ज्ञापन सौंपा एवं बी.बी.एम.को. विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा बोकारो में पीजी पढ़ाई बंद करने के निर्णय को बदलने की मांग की। श्री अमित ने छात्र नेताओं के साथ प्राचार्य की अनुपस्थिति में प्रभारी प्राचार्य श्रीमती माधुरी कुमारी से मिराकर छात्रों के साथ-साथ बोकारो वासियों की भावनाओं से अवगत कराते हुए बताया कि विश्वविद्यालय प्रबंधन के इस तुलकी फरमान से छात्रों युवाओं के साथ समस्त जनता में रोष है। छात्रों का उच्च शिक्षा ग्रहण करने का सपना अधूरा रह जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में छात्र नेता सुभम कुमार, पिपूष पल्लव, शिवानंद बेदिया, कमल राज, साधन महतो आदि शामिल थे।

## गोविंदपुर अंचल के बड़ा बाबू को एसीबी ने 15 हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा

खबर मन्त्र संवाददाता

गोविंदपुर। गोविंदपुर अंचल कार्यालय के प्रधान सहायक परमानंद प्रसाद को शनिवार दोपहर धनबाद एसीबी की टीम ने 15000 रुपये रिश्वत लेते है रंगे हाथ धर दबोचा। प्रखंड मुख्यालय स्थित एक चाय दुकान पर वह सनातन हेंब्रम नामक रैवत से 15000 रुपये लिया था। गोविंदपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में एसीबी की यह पहली कार्रवाई है जिसमें कोई कर्मी रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। गोविंदपुर अंचल के गोड़गोपा पंचायत के डोमनडीह निवासी सनातन हेंब्रम से लगान रसीद अपडेट करने के नाम पर वह 15000 रुपये ले रहा था। पिछले 2 दिन पूर्व हेब्रम ने एसीबी कार्यालय में इसकी लिखित शिकायत की थी। शिकायतों की सत्यता जांचने शुक्रवार को एसीबी टीम गोविंदपुर अंचल कार्यालय आई थी। इसके बाद एसीबी टीम ने यह कार्रवाई की।



शिकायतकर्ता का आरोप है कि पिछले 2 माह से अपनी रैयती खतियानी जमीन का लगान रसीद के लिए वह अंचल कार्यालय का दौड़ लगा रहा था। उसे कभी राजस्व कर्मचारी के पास भेजा जाता था तो कभी अंचल निरीक्षक तो कभी अंचलाधिकारी पास भेजा जाता था। शिकायतकर्ता की गांव में 28-30 एकड़ जमीन है। प्रति एकड़ 10000 रुपये करके रिश्वत की मांग की गई थी।

एसीबी की टीम ने चाय दुकान में ही प्रधान सहायक का हाथ

## क्या कहा शिकायतकर्ता ने

सनातन हेंब्रम ने कहा है कि उन्हें पहले 10000 रुपैया रिश्वत के लिए कहा गया था जब वह 10000 रुपैया रिश्वत देने लगे तो प्रधान सहायक द्वारा उसे काफी डांटा फटकारा गया कहा कि पागल हो गए हो क्या 28-30 एकड़ जमीन का लगान रसीद 10000 रुपैया में कटेगा। प्रति एकड़ 10000 रुपैया रिश्वत देना होगा। उन्होंने 10000 में ही कर देने के लिए काफी आरजू मिनत भी की थी। जब उसका काम नहीं हुआ तब थक हार कर उन्होंने एसीबीसी लिखित शिकायत की थी।

लगातार 2 महीने से अपनी रैयती खतियानी जमीन का लगान रसीद के लिए वह अंचल कार्यालय का दौड़ लगा रहा था। उसे कभी राजस्व कर्मचारी के पास भेजा जाता था तो कभी अंचल निरीक्षक तो कभी अंचलाधिकारी पास भेजा जाता था। शिकायतकर्ता की गांव में 28-30 एकड़ जमीन है। प्रति एकड़ 10000 रुपैया करके रिश्वत की मांग की गई थी।

## 60 - 40 नाय चलतो के समर्थन में सिंदरी बाजार 48 घंटे के लिए बंद

खबर मन्त्र संवाददाता

सिंदरी। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन व जेबीकेएसएस सिंदरी समर्थकों ने शनिवार को 60 - 40 नियोजन नीति के विरोध में आहत झारखंड बंद के दौरान सिंदरी बाजार बंद रहा। इस दौरान समर्थकों ने दुकानदारों से 48 घंटे दुकान बंद रखने की अपील की। वहीं सिंदरी में स्थापित बैंक व एलआइसी सिंदरी खुले रहे।

झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन व जेबीकेएसएस सिंदरी के समर्थकों ने शनिवार की सुबह से ही शहरपुरा बाजार को बंद कराने के लिए लाठी डंडे लेकर सड़क पर उतरे। इस दौरान उन्होंने दुकानों, प्रतिष्ठानों, ठेले व खोमचे वाले सहित सभी दुकानों को बंद करवाया। उन्होंने यातायात के लिए चल रहे टैम्पो व टोटो को भी वापस लौट जाने की हदयात



दी। सभी से 48 घंटे बंद रखने का आग्रह भी किया। स्थानीय पुलिस को गाड़ियों घूमती रही और बंद समर्थक हाथों में लाठी डंडे लिए दुकानों व प्रतिष्ठानों को बंद कराते रहे। कई दुकानदारों ने कहा कि प्रशासन भी चुपों साधे सबकुछ देख रही है।

बंद कर रहे समर्थकों ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा जारी 60-40 नियोजन नीति के तहत 60 प्रतिशत स्थानीयों को आरक्षण का यूनियन विरोध

## क्या कहा शिकायतकर्ता ने

को ऑब्जेक्ट में डाल दिया जाता है। फिर 3 माह बाद रिजेक्ट कर दिया जाता है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में अनेक लोगों ने जमाबंदी ऑनलाइन, ऑनलाइन म्यूटेशन, जमीन मापी, भूमिहीनों को घर बनाने के लिए जमीन आदि के आवेदन दिए गए थे, परंतु वही मामले स्वीकृत हुए जिनके लिए संबंधित व्यक्ति ने राशि दी और जिन्होंने राशि नहीं दी उनके मामले रिजेक्ट कर दिए गए। भूमिहीनों को घर बनाने की जमीन देने के एक भी मामले की अनुशंसा जिला मुख्यालय नहीं की गई है।

## सड़क दुर्घटना में स्कूटी सवार की मौत

बोकारो। स्थानीय लोक रोड पर सिटी थाना के समीप बाइक और स्कूटी की आमने सामने टक्कर में घायल स्कूटी सवार विकास कुमार सिंह की मृत्यु हो गयी जबकि बाइक सवार मो. इब्रार सदर अस्पताल में इलाजगत है। उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। रा. 9.35 बजे विकास खाना खाने के लिए स्कूटी से राम मंदिर की ओर जा रहे थे और सामने से बाइक सवार विपरीत दिशा से काफी तेज गति से आते हुए जोरदार टक्कर मारी। विकास स्कूटी से गिर पड़े और उनका सर डिवाइडर से जा टकराया। पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से उन्हें बीजीएच पहुँचाया परन्तु अत्यधिक रक्त स्राव के कारण डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। बताया जाता है की बाइक सवार नशे में और काफी तेज गति में थे।

## अवैध महवा शराब के विरुद्ध छापामारी

निचिंतपुर। ईस्ट बसुरिया ओपी प्रभारी उपेंद्र कुमार के नेतृत्व में ईस्ट बसुरिया ओपी क्षेत्र के करामारा बस्ती के जंगल में शनिवार को अवैध महवा शराब के विरुद्ध छापामारी किया गया। जिसमें करीब 2 क्विंटल जावा महवा और करीब 50 लीटर महवा शराब को नष्ट किया गया। ईस्ट बसुरिया ओपी प्रभारी उपेंद्र कुमार ने बताया कि ओपी क्षेत्र अंतर्गत किसी तरह की अवैध कारोबार करने वाले को नहीं बखशा जाएगा, ईस्ट बसुरिया ओपी पुलिस लगातार छापामारी कर रही है और करती रहेगी।

## कसमार के सेवाती में हुई खोरटा एलबम की शूटिंग

बोकारो/ कसमार। कसमार प्रखंड के झारखंड बंगाल सीमा सीमा स्थित सेवाती घाटी में खोरटा एलबम तोय हामर प्रेम के दिवानी गे सजनी का शूटिंग की गयी। इसके रचयिता कसमार प्रखंड के जाने-माने लोक गायक प्रेमचंद कालिंदी हैं। साथ ही झारखंड के जाने-माने गायिका सावित्री कर्मकार जी ने भी आवाज दी है। अभिनय के रूप में कसमार के धरती के लोक कलाकार राष्ट्रीय पुरस्कृत विनोद कुमार महतो और दिव्या गुप्ता जो रांची से चलकर सैवाती आयी और सुंदर तरीके से दोनों ने अभिनय किया।

## धनबाद बंदी के दौरान छत्र गिरफ्तार

धनबाद। राज्य के वर्तमान 60-40 नाय चलतो आंदोलन चरम पर है। प्रशासनिक अनुमति के साथ शांतिपूर्ण एवं अनुशासित तरीके से आंदोलनरत साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रमिक चौक, धनबाद में आज बंदी पर बैठे छात्र नेता कुश कुमार महतो एवं विक्रम महतो को पुलिस प्रशासन द्वारा 11:30 अट को जबरन के गिरफ्तार कर लिया गया है। आंदोलन के अगुआ कुश महतो एवं विक्रम महतो को पुलिस प्रशासन द्वारा धनबाद थाना, कोर्ट मोर मे रखा गया है।

**उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गिरिडीह (जिला नजारात शाखा)**  
दूरभाष नं०- 06532-222650 ई-मेल- dist.nazaratgrd@gmail.com  
--: विविदा शुद्धि पत्र :-:  
नया परिसदन भवन, गिरिडीह के रख-रखाव एवं संचालन आउटसोर्सिंग के माध्यम से पूरे 03 (तीन) वर्षों के लिए (यथा कार्यादेश की तिथि से तीन वर्ष) किये जाने हेतु PR NO - 298798(Giridih)23-24\*D द्वारा आमंत्रित निविदा दिनांक 15.06.2023 को 2:00 बजे अपराहन में खोलना निर्धारित था। अपरिहार्य कारणों से उक्त निविदा खोलने की तिथि दिनांक 22/06/2023 को 2:00 बजे अपराहन निर्धारित की जाती है। शेष शर्तें यथावत् रहेगी।  
जिला नजारात उपसमाहर्ता, अवर समाहर्ता, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी गिरिडीह। गिरिडीह।  
PR.NO.299696 Giridih(23-24):D

**उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गिरिडीह (जिला नजारात शाखा)**  
दूरभाष नं०- 06532-222650 ई-मेल- dist.nazaratgrd@gmail.com  
--: विविदा शुद्धि पत्र :-:  
पीरटॉड प्रखण्ड अंतर्गत मधुवन स्थित मधुवन गेस्ट हाउस, गिरिडीह के रख-रखाव एवं संचालन आउटसोर्सिंग के माध्यम से पूरे 03 (तीन) वर्षों के लिए (यथा कार्यादेश की तिथि से तीन वर्ष) किये जाने हेतु PR NO - 298799 Giridih(23-24)\*D द्वारा आमंत्रित निविदा दिनांक-15.06.2023 को 3.00 बजे अपराहन में खोलना निर्धारित था। अपरिहार्य कारणों से उक्त निविदा खोलने की तिथि दिनांक 22/06/2023 को 3.00 बजे अपराहन निर्धारित की जाती है। शेष शर्तें यथावत् रहेगी।  
जिला नजारात उपसमाहर्ता, अवर समाहर्ता, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी गिरिडीह। गिरिडीह।  
PR 299697Giridih(23-24)#D

**जिला परिषद, कोडरमा**  
**अति अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-06 / 2023-24**  
वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिला योजना अनाबद्ध निधि अंतर्गत स्वीकृत योजना में झारखण्ड सरकार के समुचित श्रेणी में निविदा की शर्त के क्रमांक-1 के अनुसार निविदात संवेदको से एकल शीट निविदा आमंत्रित की जाती है।  
सूच सं० प्रखंड का नाम कार्य का नाम प्राकल्पित राशि (रुपये में) अग्रान की राशि (रुपये में) विवरण का मुख्य मूल्य (रुपये में) कार्य पूर्ण करने की अवधि  
1 सतगांवा सतगांवा प्रखण्ड के बासोडीह हाट बाजार में तीन अर्द्ध रोड एवं अवशेष पीपीसी/सीपी कार्य 2103250.00 43000.00 5000.00 03 माह  
(1) वेबसाइट में निविदा प्रकाशन की तिथि 16.06.2023  
(2) ई-निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय 17.06.2023 से 22.06.2023 तक अपराहन 5:00 बजे तक।  
(3) जिला परिषद कार्यालय, डीआरओओ, भवन, कोडरमा में निविदा शुल्क अग्रान की राशि जमा करने की तिथि एवं समय 23.06.2023 अपराहन 05:00 बजे तक।  
(4) निविदा खोलने का स्थान- जिला परिषद, कोडरमा।  
(5) निविदा खोलने की तिथि एवं समय 24.06.2023 पूर्वान्ति 11:00 बजे।  
(6) निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता-जिला अभियंता जिला परिषद, कोडरमा।  
(7) ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष नं० 9608892111 ई मेल ddczkpoderma@gmail.com  
(8) निविदा शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक को सधि जिला परिषद, कोडरमा के पदनाम से देय होगा। साथ ही निविदा प्राप्ति की तिथि को कम से कम दो माह की कैसात होना अनिवार्य है।  
(9) अवांटेन प्राप्त होने के पश्चात एकराजना किया जावेगा।  
(10) निविदा की शर्तें कार्यालय के सूचना पद या www.jharkhandtenders.gov.in पर देखा जा सकता है। जिला अभियंता जिला परिषद कोडरमा।  
PR 299749 Panchayati Raj(23-24)D

## डीपीएस चास में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित



बोकारो। डीपीएस चास में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तीन दिवसीय इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन रिसोर्स पर्सन चिन्मया विद्यालय के प्राचार्य सह सीबीएसई सिटी कॉन्डिनेटर सूरज शर्मा और डीपीएस चास की कार्यवाहक प्राचार्या दीपाली भुस्कटे द्वारा किया गया। मौके पर शर्मा ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फंडामेंटल स्ट्रेज-2022 विषय पर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया। मौके पर रिसोर्स पर्सन यादव ने एक छात्र के चरित्र और व्यक्तित्व के निर्माण में शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी विषय पर अपना व्याख्यान दिया। बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 एक उत्कृष्ट

दूरदृष्टि का परिणाम है और एक प्रेरणादायक नीति दस्तावेज है जो भारतीय उच्च शिक्षा के परिदृश्य में एक मूलभूत परिवर्तन का आगवाज है। उन्होंने कहा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एक एक्टिव टीचिंग लर्निंग मैथडोलॉजी है। डीपीएस चास की चीफ मैट्टर डॉ हेमलता एस मोहन ने कहा कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यानी खेल-खेल के माध्यम से पढ़ाई से विद्यार्थियों का कौशल विकास होता है। डीपीएस चास की कार्यवाहक प्राचार्या दीपाली भुस्कटे ने कहा कि इस लर्निंग की मदद से विद्यार्थियों में कितारी ज्ञान के अलावा अन्य कौशल का भी विकास होगा।

## रैयतों के लाभार्थ कैम्प आयोजित

बोकारो/ कसमार। बरलंगा - नेमरा भाया कसमार तक सड़क चौड़ीकरण के लिए कसमार अंचल के मौजा मंजूरा, गरी, पिरगुल, बगियारी एवं जामकुदर के अर्जनाधीन भूमि के हितबद्ध रैयतों की पहचान करते हुए मूल्यांकन खतियान एवं पंचाट तैयार करने हेतु 10 से 15 जून तक कैम्प आयोजित किया गया है जिसमें कसमार अंचल के मौजा मंजूरा का 10 जून को मंजूरा पंचायत भवन के सभागार में, 12 जून को गरी मौजा का गरी पंचायत भवन में, 13 जून को मौजा पिरगुल का मुहल्लसूदी पंचायत भवन में, 14 जून को मौजा बगियारी का टांगटोना पंचायत भवन में एवं 15 को मौजा जामकुदर का टांगटोना पंचायत सचिवालय के सभागार में होना तय किया गया है। शिविर में अमीन, कानूनगो, जिला भू- अर्जन कार्यालय बोकारो को निर्देश है कि निर्धारित तिथि को कैम्प में उपस्थित होना सुनिश्चित किया जाय।

## विभिन्न क्षेत्रों से चोरी गई 11 मोटरसाइकिल बरामद

बोकारो। जिले की पुलिस टीम द्वारा संकलित सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग के दौरान तीन की एक मोटरसाइकिल के साथ चीनी संद्विध अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इन तीनों की निशानदेही पर की गई छापामारी में अब तक 11 मोटरसाइकिल सहित दो मोबाइल फोन की बरामदगी की गई है। इन घटनाओं में कुल पांच लोगों की संलिप्तता उजागर हुई है। पुलिस द्वारा दुन्दु थाना क्षेत्र से दो, चन्द्रपुरा थाना क्षेत्र से एक, गांधीनगर ओपी क्षेत्र से सात तथा बालोडीह थाना क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। पकड़े गए तीनों आरोपियों में गोमो थाना क्षेत्र के घुनचुसा निवासी देवराज गिरि तथा गांधीनगर थाना क्षेत्र के जरीडीह बाजार निवासी अंकित कुमार एवं मिहिर कुमार के नाम शामिल हैं।



## बोकारो थर्मल : भीषण गर्मी में पानी के लिए भटक रहे वनडीहवा गांव के ग्रामीण

## चारों टंकी फटा, तीन किलोमीटर दूर चुआं से पानी लाती हैं महिलाएं

खबर मन्त्र संवाददाता

बेरमो। नावाडीह प्रखंड के कंजकिरो पंचायत अंतर्गत वनडीहवा आदिवासी बहुल गांव है। इस गांव में पानी की घोर किल्लत है। भीषण गर्मी में पानी के लिए ग्रामीणों को भटकना पड़ रहा है। कहने को तो गांव में दो चापानल है, लेकिन उससे एक बाल्टी भी नहीं निकलता। पानी की किल्लत दूर करने के लिए गांव में सीसीएल के सीएसआर फंड से चार पानी टंकी लाया गया था, लेकिन बोरिंग का पानी भरते समय चारों फट गया। आलम यह है कि आदिवासी



महिलाएं 3 किलोमीटर दूर चुआं से पानी लाती हैं। गांव की आबादी तीन सौ पूरे गांव की तीन सौ आबादी है। ग्रामीणों ने अपना दुख-दर्द साझा करते हुए बताया कि राज्य का कमान आदिवासी सीएम हेमंत सोरेन

के हाथ में होने के बावजूद हमलों की सुध लेनेवाला कोई नहीं है। ग्रामीण मोतीलाल बेसरा ने बताया कि गांव के दोनों चापानलों से थोड़ा-थोड़ा पानी निकलता है। गिरीडीह सांसद से लगाई गृहार वनडीहवा के ग्रामीणों ने गिरीडीह

सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी से पानी संकट दूर कराने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाते-लगाते थक चुका हूं। वे लोग समस्या सुनने को तैयार नहीं। अब सांसद से ही उम्मीद लगाए बैठे हूं, वहीं हमारी समस्या दूर कर सकते हैं। छोटकीकुड़ी व पिपराडीह में भी पानी टंकी फटा सीसीएल के सीएसआर फंड से पलामू पंचायत के छोटकीकुड़ी और पिपराडीह गांव में भी पानी टंकी बेंठायी गया था। भीषण गर्मी में इन दोनों गांव में भी पानी टंकी फट गया है।

**झारखण्ड सरकार**  
**कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)**  
**कार्यालय: जिला कृषि पदाधिकारी, खूँटी**  
**किसान भाईयों को लिये आवश्यक सूचना, उर्वरकों में डीबीडीटी**  
खूँटी जिला के किसान भाईयों को सूचित किया जाता है कि जिला में खाद की बिक्री में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) पूर्ण रूपेण लागू होने के पश्चात सभी पंजीकृत खुदरा उर्वरक विक्रेताओं (Retailer) द्वारा अपने बिक्री केन्द्रों से उर्वरकों की बिक्री Point of Sale (POS) मशीन, एंड्रॉइड फोन, डेस्कटॉप/ लेपटॉप के माध्यम से कर रहे हैं। किसान भाई खाद खरीदने समय आधार कार्ड एवं मोबाईल अवश्य लेकर जाएं साथ ही सम्पर्क रहित (Contactless) खरीदारी हेतु आधार से लिंक मोबाईल OTP प्रणाली एवं भुगतान हेतु दुकान में लगे UPI- QR Code/Online Payment System का उपयोग करें। इस प्रणाली से भी किसानों को उर्वरक पूर्व की भांति Subsidy मूल्य में ही मिलेगी।  
मुख्य तथ्य :-  
1. किसानों को सूचना के साथ पारदर्शिता, जिसमें वे System Generated Receipt को मोबाईल पर SMS द्वारा प्राप्त करते हैं।  
2. किसानों द्वारा खुदरा विक्रेता से Point of Sale (POS) मशीन, एंड्रॉइड फोन, डेस्कटॉप/ लेपटॉप के माध्यम से उर्वरक की वस्तुविक बिक्री होने के पश्चात ही Subsidy संबंधित उर्वरक निर्माताओं को निर्गत करना।  
3. उर्वरक खाद- बिक्री प्रणाली की बेहतर निगरानी एवं योजना प्रबंधन।  
नोट- किसान भाई यकवाहों से बचें। POS मशीन से आधार कार्ड के माध्यम से खाद खरीदने से न ही आपके बैंक एकाउन्ट से पैसे कटेंगे और न ही दूसरी सरकारी योजनाओं के लाभ से आप वंचित होंगे।  
"अब POS से खाद बिकेगी, उर्वरक बिकेगी प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी"  
"आधार कार्ड और मोबाईल ले जाना है जरूरी, तभी होगी किसान के रूप में पहचान पूरी"  
जिला कृषि पदाधिकारी, खूँटी  
PR 299663Agriculture(23-24)#D

समय

संवाद

शबरी का प्रकरण रामायण काल के महत्वपूर्ण घटनाओं में एक है। शबरी का कर्म बड़े उदार चरित्र में शबरी, गिद्धराज और निषाद का प्रकरण उस काल में राम राज्य के समाज के सहज उदार और विस्तार की एक झांकी प्रस्तुत करता है। हजारों साल से विश्व के एक दर्जनों से अधिक देश में इसका चित्रण तो होता ही है देश में भी इसका चित्रण आज भी किसी भी अन्य मनोरंजन से अधिक प्रभावी है। किसे याद नहीं है कि जब रामायण सीरियल का प्रसारण देश में आरंभ हुआ तो उस समय शहर से गांव तक पूराजन समूह पूरे तौरपर रामायण का दर्शक हुआ करता था। आज भी छत्तीसगढ़ में शबरी के राम को पुनर्जीवित कर समाज को समरसता का संदेश देने का प्रयास किया गया।

## झारखंड की रामायण मंडली देश में प्रथम



डी गुप्ता

छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित रामायण मेले में झारखंड की नंदलाल गोप के नेतृत्व में गयी सांस्कृतिक ड्रामा टीम ने देश और विदेश के टीमों को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस टीम की

राज्य सरकार के कार्यक्रम रामायण पर आधारित थे। सबरी के प्रकरण के चित्रण को लेकर की शामिल थी। लेकिन झारखंड की रामायण मंडली द्वारा की गयी



प्रस्तुति को पूरे देश में स्वीकारा और टीम ने 18 राज्यों की टीम को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस कार्यक्रम में दिव्या ने सीता का रोल किया था। दिव्या गुप्ता संगीत में पीजी कर रही है और अभिनय और संगीत नृत्य के साथ रांची यूनिवर्सिटी से पीजी कर रही

है। उन्होंने खबर मन्त्र को बताया कि वे बचपन से ही स्विस्फूर्त नृत्य प्रस्तुत करती थी जिस कारण उनके माता-पिता ने उसे अपने मन के अनुसार कार्य करने की अनुमति दी। छत्तीसगढ़ शासन के इस कार्यक्रम में जाकर दिव्या ने सीता का अभिनय कर जिस प्रकार का समा बांध दिया उससे उसकी टीम



को प्रथम स्थान प्राप्त करने का मार्ग प्रसस्त हुआ। संगीत के साधक के रूप में अपना जीवन स्थापित करने वाली दिव्या संगीत को पढ़ाई नहीं साधना मानती है। इस कार्यक्रम में प्रथम स्थान पाकर टीम को दो लाख का चेक प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम में

## राम ने जीवन में भक्ति का निर्माण भी धैर्य से ही किया

स्वामी सत्यानंदजी परमहंस



किसी भी निर्माण की प्रक्रिया छोटे से आरंभ होती है। धीरे-धीरे आरंभ होकर वह प्रक्रिया बड़ा रूप ले लेती है। कोई भी प्रक्रिया में आरंभिक तेजी हार का कारण भी बनती है। व्यवहार जगत में मैराथन दौड़ वही जीतता है जो आरंभ में अपनी उर्जा बचाता है और अंतिम में अपनी पूरी उर्जा लगा देता है। धैर्य से ही निर्माण होता है। भक्ति का निर्माण भी जीवन में धैर्य से ही होता है। राम के जीवन में भी धैर्य असीम था। वे शिक्षा प्राप्त करने के बाद पूरे देश के तीर्थों का भ्रमण करने के बाद भी चिंतन में ही थे। ब्रह्म ज्ञान के लिए मिला जीवन किस ओर जा रहा है। कोई तो मिले जो हमें इस बात को बताये। इसी बीच गुरु विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा के लिए उनसे मिलने आये तब उन्होंने उन्हें ज्ञानी मानकर अपनी समस्या बतायी। तब विश्वामित्र ने कहा कि गुरु वशिष्ठ के होते मैं क्या समझ सकता हूँ। वे हमारे भी गुरु हैं और हमने जो कुछ ज्ञान हासिल किया है वे उनकी कृपा से हो सकी है। राम समझते थे कि वशिष्ठ तो उनके कुल के गुरु हैं एक सामान्य पूजा-पाठ करने वाले व्यक्ति है। लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ तब वे वशिष्ठ के पास गये और पूछा कि आप ब्रह्म ज्ञानी है यह बात हमें पता नहीं था। आपने उस स्तर का ज्ञान मुझे क्यों नहीं दिया। वशिष्ठ ने कहा आपकी जिज्ञासा आज परिपक्व हुई है इसलिए आज मैं आपको ज्ञान दूंगा। आदमी जो भी जप-तप-ज्ञान करता है उससे जिज्ञासा पैदा होना चाहिए। यह जिज्ञासा ज्ञान का होगा। ज्ञान के लिए गुरु स्थान और गुरु की

भूमिका होगी। यही ज्ञान हर काल में रहा है सिर्फ स्थान और व्यक्ति बदल गये हैं। राम के काल में गुरु वशिष्ठ, कृष्ण के काल में दुर्वास और आधुनिक काल में स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद, स्वामी परमहंस दयाल जी और स्वामी जी ने ज्ञान को संरक्षित किया प्रचार और प्रसार किया। योग्य पात्र को खोजा और उन्हें प्रदान किया। धन से ज्ञान खरीदा नहीं जा सकता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास चार अवस्था से मनुष्य गुजरता है। गृहस्थी के लिए भी सन्यास की अवस्था है। जीवन के सभी जवाबदेही निभाते हुए सन्यासी का जीवन भरत ने जीया था। योग्य, अतियोग्य व्यक्ति का मिलने का क्रम जारी रहता है। पूर्ण समर्पण से ज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रकृति में भी इसका उदाहरण है। यमुना का गंगा में समर्पण के बाद यमुना पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। गंगा सागर में मिलकर समर्पित हो जाती है। इसी प्रकार पूर्ण समर्पण से ही ज्ञान मिल सकता है जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता है।

(ब्रह्म विद्यालय आश्रम छोटका राजपुर, बक्सर, शाखा कुटी रांची)

## लहसुन की चाय



मिताली जैन

हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि लहसुन की चाय कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करती है। जिसके कारण यह मधुमेह से जुड़े अन्य स्वास्थ्य जोखिमों को कम करता है। लहसुन जिसका इस्तेमाल लगभग हर भारतीय किचन में किया जाता है, सदियों से अपने औषधीय गुणों के कारण स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी मानी जाती रही है। वैसे अगर किसी व्यक्ति को हाई ब्लड शुगर या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उन्हें अपनी रेग्युलर चाय को लहसुन की चाय से रिप्लेस कर देना चाहिए। कम करे अमीनो एसिड होमोसिस्टीन हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, अगर आप लहसुन की चाय का सेवन करते हैं तो इससे अमीनो एसिड होमोसिस्टीन को नेचुरली कम होता है। यह मधुमेह रोगियों के लिए एक बड़ा जोखिम कारक है। इस प्रकार लहसुन की चाय आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती है।

## डिजिटल डिटॉक्स वाली डाइट जरूरी

अधिकांश हर बड़े का यही हाल है। घर का काम हो या ऑफिस का, हर पल गैजेट्स से घिरे रहते हैं। सोशल मीडिया में तो जैसे आपकी जान बसी हो। फिर बच्चों को बोलते हैं कि मोबाइल छोड़ दो। लैपटॉप से दूर रहो। आंखें खराब हो जाएंगी। बच्चों को सोशल मीडिया के हर प्लैटफॉर्म से आप ने ही तो दोस्ती करवाई है। अपनी सहूलियत के लिए उसके हाथों में मोबाइल थमाया है, जब आपको कुछ और काम करना होना था। असल में, बच्चे तो आपसे ही सीखते हैं। आज से ही खुद और पूरे परिवार को हर दिन कम से कम दो घंटे डिजिटल डिटॉक्स डाइट दें। आपके और परिवार के लिए ये बेहद जरूरी है। इसे आप रिमोशनशिप का बूस्टर मान सकते हैं।

क्यों नुकसानदायक है स्क्रीन वैसे तो हर गैजेट के भरपूर फायदे हैं, लेकिन इसकी अति आप और आपके परिवार के लिए घातक है। अब बताएं जबशुआप हर पल टकटकी लगाकर फोन देखते रहेंगे, तो कहां मिलेगा अपनी पहचान, अपने सपने और ज्ञान को बढ़ाने का समय। आपकी इन आदतों से आपके अपने भी दूर होते जाएंगे। फिर डिजिटल ही दृष्टिगो परिवार वालों, बच्चों और

दोस्तों को। आपकी इन आदतों से कब आपको बीमारियां लग जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और तो और, इन गैजेट्स से निकलने वाली नीली रोशनी त्वचा से बहुत कुछ चुरा लेगी। सब नोटिफिकेशन्स बंद कर दें। अगली बार बच्चों को खाने के साथ यूट्यूब देखने को नहीं कहना। वो देखें तो प्यार से मोबाइल छुपाकर उसके साथ समय बिताना। डिजिटल गैजेट्स बुरे नहीं हैं। बस रोज कम से कम दो घंटे इनके बिना रहें। फिर देखें कैसे परिवार आपके पास आया।

स्क्रीन टाइम हो फिक्स सबसे पहले तो देखें कि आप और घर के लोग दिन के कितने घंटे स्क्रीन पर बिताते हैं। आप खुशियों को महसूस करना और जीना चाहते हैं, तो परिवार को रोजाना डिजिटल डाइट से फ्री करें। इसके लिए बस इतना करें, जब आप सब शाम को घर पर हों, तो ये गैजेट्स बंद कर दें। इसका मतलब यह नहीं कि चर्चुअल गेम्स खेलें या गाना सुनें। अब सब खुलकर बातें करें। अपने शौक को समय दें। कितानें पढ़ें। दोस्तों से गिपियाएं। अताक्षरी खेलें। सब मिलकर डिनर बनाएं। साथ में घूमने जाएं। पार्क में जाएं। वो सब काम करें जो फोन

के चक्कर में छूटते जा रहे थे। इरादा कर लें पक्का सच तो यह है कि इस फोन ने अपनों को दूर ही कर दिया है। इस डिजिटल डिटॉक्स डाइट के लिए अनुशासन और दृढ़ संकल्प चाहिए। इसके लिए सिर्फ बच्चों को डांटने से काम नहीं चलेगा। दरअसल अच्छे परिणाम तभी आएंगे जब शाम को सब परिजन घर आ जाएं तो टीवी और सारे गैजेट्स बंद करें। फोन चार्जिंग पहले कर लें। अन्यथा जहां आप सब एक साथ बैठें हैं वहां से दूसरे कमरे में चार्जिंग करें। सामने देखेंगे, तो फोन को हाथ लगा लेंगे। फिर फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम व अन्य ऐप्स में ही उलझे रहेंगे। कुछ समय के लिए गैजेट्स बंद करने में शुरू-शुरू से मुश्किल आएगी, लेकिन जब परिणाम आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा।

कम होती याददाश्त पर चौंकाता शोध मानव इतिहास में सबसे जुड़े हुए युग के दौरान जीवन में कई चीजें सकारात्मक तो हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि परिवार के सदस्य केवल एक फेसटाइम सत्र दूर हैं। आपके दिमाग में आने वाले लगभग किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको उंगलियों पर है।

## नेति, स्वांस रोगों का उपचार

स्वामी मुक्तेश

कोरोना वायरस का संक्रमण थमने के नाम नहीं ले रहा। नियमित गरारे और जल नेती करना कोविड 19 की रोकथाम में बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। मैने सैकड़ों लोगों को जिनमें अधिकांश युवा थे नेति कराकर कोरोना के संक्रमण का असर को कम और समाप्त किया है। जापान में मास्क लगाने और हाथ धोने को इन्फ्लूएंजा नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश में शामिल किया गया, इसी तरह जल नेती और गरारे का कोरोना महामारी में भी व्यक्तिगत रुचि के मुताबिक प्रयोग किया जा सकता है।

होकर और कमर से थोड़ा झुक कर भी कर सकते हैं। अब आप पानी से भरे हुए नेति पॉट ले और उसे अपनी दायाँ नाक से धीरे-धीरे पानी डालें। बायीं नाक से इस पानी को बाहर निकालते जाएं। अब फिर से बायीं नाक में नेति पॉट लगा कर पानी डालें और दायाँ नाक से अपनी को बाहर निकालें। ध्यान रखें की पानी धीरे-धीरे और कम मात्रा में डालना है। इस क्रिया आप दोनों नाक से करें आप जल नेति योग को खड़े होकर और कमर से थोड़ा झुक कर भी कर सकते हैं। अधिक मात्रा में पानी का प्रयोग करने से आपके नाक में जलन और दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

जल नेति क्रिया का दौरान अधिक नमक का प्रयोग करने से आपकी नाक में जलन हो सकती है जिससे आपकी नाक से खून भी निकल सकता है। जल नेति तकनीक में खराब पानी या संक्रमण वाला पानी प्रयोग करने से आपकी नाक में भी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अधिक नमक के प्रयोग से या अधिक अवधि तक जल नेति क्रिया को करने से आपकी आंखों और कानों में भी दर्द हो सकता है। (लेखक योग विशेषज्ञ हैं और सत्यानंद योग मिशन रिश्किया आश्रम देवघर से जुड़े हैं।)

अब फिर से बायीं नाक में नेति पॉट लगा कर पानी डालें और दायाँ नाक से अपनी को बाहर निकालें। ध्यान रखें की पानी धीरे-धीरे और कम मात्रा में डालना है। इस क्रिया आप दोनों नाक से करें आप जल नेति योग को खड़े होकर और कमर से थोड़ा झुक कर भी कर सकते हैं। अधिक मात्रा में पानी का प्रयोग करने से आपके नाक में जलन और दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है।


## गुरु जी शायद यह ही है भ्रष्टाचार?



डॉ.कान्ता मीना

राजनीति विज्ञान के कालांश में आज ज्यों ही विज्ञान के अध्यापक, बच्चों को पढ़ाने आए। तो बच्चे बोले गुरुजी यह कालांश तो विज्ञान का नहीं है। तभी विज्ञान वाले अध्यापक थोड़े मुस्कराए और बोले वो तो मुझे भी पता है। बच्चों आज राजनीति विज्ञान पढ़ाने वाले गुरुजी किसी कारणवश विद्यालय में नहीं आ गए और बोले बच्चों कल जो गृह कार्य दिया था वो सभी याद करके आएं हो ना। सभी बच्चे एक स्वर में बोले, जी गुरुजी। राजनीति विज्ञान के गुरुजी ने मुस्कराते हुए विज्ञान वाले गुरुजी की ओर देखा

लड़की ने तपाक से पूछा गुरुजी ये भ्रष्टाचार क्या होता है। गुरुजी फिर से मुस्कराए और वह सवाल का जवाब देते उससे पहले ही विद्यालय की छुट्टी हो गई। विज्ञान वाले गुरुजी बच्चों से बोले कल सब भ्रष्टाचार क्या होता है इसके बारे में मुझे बताएंगे। यहीं तुम्हारा आज का गृह कार्य है। सभी बच्चों को उत्तर देना अनिवार्य है। मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। सभी बच्चे एक स्वर में बोले, ठीक है गुरुजी। दूसरे दिन बच्चों में काफी उत्सुकता थी। सभी बच्चों आपस में गुसुर फुसुर कर रहे थे तभी राजनीति विज्ञान के गुरुजी कक्षा में आए तो शोरगुल और तेज हो गया। गुरुजी बोले बच्चों कक्षा का अंतिम कालांश और इतना जबरदस्त जोश ओर उत्साह। इसका कोई विशेष कारण तभी विज्ञान वाले गुरुजी कक्षा में आ गए और बोले बच्चों कल जो गृह कार्य दिया था वो सभी याद करके आएं हो ना। सभी बच्चे एक स्वर में बोले, जी गुरुजी। राजनीति विज्ञान के गुरुजी ने मुस्कराते हुए विज्ञान वाले गुरुजी की ओर देखा



ओर बोले गुरुजी आज आप और मैं दोनों एक साथ बच्चों की प्रतिक्रिया को जानते हैं। वैसे गृहकार्य क्या दिया था आपने। तभी मयूर बीच में बोला आखिर क्या ? है भ्रष्टाचार और बच्चे जोर जोर से हंसने लगे फिर दोनों गुरुजी भी बच्चों के साथ साथ मुस्कराने लगे और गुरुजीयो को भी बच्चों के उत्तर जानने की उत्सुकता हुई। तभी प्राचार्य कक्षाओं के निरीक्षण पर निकले थे तो इतना शोरगुल सुनकर कक्षा में आ गए, क्या बात है। गुरुजी आज कक्षा

में इतने शोर का कारण मैं जान सकता हूँ। विज्ञान वाले गुरुजी बोले इसका कारण है मेरे द्वारा कल दिया गया गृहकार्य। प्राचार्य ऐसा क्या दिया था आपने। तभी राजनीति विज्ञान के गुरुजी बोले सर क्यों ना आप भी आज कक्षा में बैठे और बच्चों द्वारा दिए जाने वाले उत्तरों को सुनें। प्राचार्य ने अपने चश्मे को ठीक किया और कुर्सी पर बैठ गए। सभी बच्चे बारी-बारी से उत्तर देते गए। तभी विज्ञान वाले गुरुजी ने बीच में एकदम अंतिम पॉन्ट में बैठी लड़की से पूछा, तो लड़की पहले तो चुप रही, फिर बोली गुरुजी मैं तो भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ ना पाई। गुरुजी क्यों ? आखिर आप क्या कर रही थी। आपको पता है ना गृहकार्य सभी बच्चों को करना होता है। गुरुजी चलो बैठ जाओ, लड़की बैठी उससे पहले ही बोली, गुरुजी मैं विद्यालय से घर गई उस समय अम्मा बना रही थी आचार्य हमने भी उनकी थोड़ी बहुत मदद करवाई। तभी हमने अम्मा से पूछा, आखिर अम्मा तुम्हें बताओ क्या है भ्रष्टाचार ? अम्मा पहले तो

कुछ बड़बड़ाई फिर बोली भ्रष्टाचार वो आचार है जिसे हर कोई खाना चाहता है स्वाद अनुसार। ये छोटे से बड़े की थाली में परोसा जाता है, हर बार। किसी को पसंद है अमिया का तो किसी को नूँव का तो किसी को कैर और सभी को पसंद आता है मिश्रित आचार। बस इसी कारण हर गृहणी है लाचार। नहीं चाहती है देना इसे थाली में बार बार पर खाने वालों की फरमाईसे है हजार। ये सब बताते बताते अम्मा आचार की सभी बरनियो में सफेद कपड़े बाधने लगी। तो मैंने चुपके से खाना चाहा आचार। यह जानने के लिए की क्या अम्मा ने मसाले डाले है सारे स्वाद अनुसार, पर तभी अम्मा ने मेरा हाथ रोक लिया ओर बोली ना खाती हूँ ना चुटकी तुझे खाने दूंगी। अरे अम्मा थोड़ा तो खाने तो आखिर क्या खास बना है, इसमें इस बार।

गुरुजी शायद यहीं है भ्रष्टाचार। ये सुनकर तीनों गुरुजी आपस में एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कराते रह गए।

**संस्थापक**  
स्व. डॉ. अभय कुमार सिंह

वृन्दा मीडिया पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए  
मुद्रक, प्रकाशक

**मंजू सिंह**

द्वारा चिरोंदी, बोडोया रोड, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

**संपादक**  
अविनाश ठाकुर\*

फोन : 94313-55233  
पिन: -834006

e-mail  
khabarmantra.city@gmail.com

R.N.I.No.  
JHAHIN2013/51797

\*पीआरबी एक्ट के अंतर्गत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी। प्रकाशित खबरों से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा रांची न्यायालय में ही होगा।

**अभय सिंह**

शरीर में यूरिक एसिड का उच्च स्तर गठिया जैसे विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों का कारण बन सकता है। वहीं, संतुलित आहार खाना बेहद आवश्यक होता है जिसमें काबोहाइड्रेट, प्रोटीन, अच्छे और स्वस्थ फैटी एसिड, विटामिन और खनिज जैसे सभी आवश्यक पोषक तत्व शामिल होते हैं।

यूरिक एसिड रक्त में पाया जाने वाला एक रसायन है जो तब बनता है जब आपके शरीर में प्यूरिन नामक पदार्थ टूटता है। प्यूरिन मटर, पालक, मशरूम, सूखे सेम और यहां तक कि बीयर जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। शरीर में यूरिक एसिड का उच्च स्तर गठिया

## यूरिक एसिड पर कंट्रोल करेंगे ये फ्रूट्स



जैसे विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों का कारण बन सकता है। वहीं, संतुलित आहार खाना बेहद आवश्यक होता है जिसमें काबोहाइड्रेट, प्रोटीन, अच्छे और स्वस्थ फैटी एसिड, विटामिन और खनिज जैसे सभी आवश्यक पोषक तत्व शामिल होते हैं। रक्त में उच्च यूरिक एसिड स्तर से पीड़ित लोगों को सही और स्वस्थ खाद्य पदार्थ लेने में थोड़ी मुश्किल होती है, जिन्हें वे अपने आहार में शामिल कर सकते हैं।

बेरी: बेरीज जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्बेरी में एंटीथोकायनिन नामक पदार्थ से बने एन्टीइन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह विशेष पदार्थ उच्च यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में फायदेमंद और सहायक हैं। यह यूरिक एसिड को क्रिस्टलीकरण करने और जोड़ों में जमा होने से रोकता है जो वाद

में संयुक्त दर्द को जन्म दे सकता है। साथ ही, इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो रक्त में यूरिक एसिड को कम करने में मदद करता है।

चेरी:शरीर में यूरिक एसिड के उच्च स्तर से पीड़ित लोगों के लिए सही प्रकार के फलों को चुनना यूरिक एसिड के स्तर को बनाए रखने में मदद कर सकता है। यह हमेशा सुझाव दिया जाता है कि शरीर में यूरिक एसिड के बड़े स्तर से पीड़ित होने पर आहार में किसी भी खट्टे फल को शामिल न करें। चेरी खाने का एक और कारण है कि वे एसिड को बेअसर कर देते हैं और सूजन और दर्द को रोकने में मदद करते हैं।

सेब:अपने आहार में सेब को शामिल अवश्य करें। चूँकि सेब मैलिक एसिड से समृद्ध होते हैं इसलिए वे रक्त प्रवाह में यूरिक एसिड को बेअसर करते हैं। इससे उन रोगियों को राहत मिलती है जो उच्च यूरिक एसिड की स्थिति से पीड़ित हैं।

ककड़ी और गाजर: अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक है तो गाजर और खीरा स्वास्थ्य इसके लिए बहुत अच्छा माना गया है।

गाजर एंटी-ऑक्सिडेंट में बेहद समृद्ध हैं जो एंजाइम के उत्पादन को नियंत्रित करने में अच्छा होता है। अपने उच्च फाइबर सामग्री के कारण, वे यूरिक एसिड सामग्री को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायक होते हैं।

**कॉटन वर्ल्ड**

**अफगानिस्तान में औरत की जिंदगी**

सामार: कॉटन मूवमेंट डॉट काम

**स्पीड न्यूज**

**उज्जवला फाउंडेशन की हुई समीक्षा**

कुजू। उज्जवला फाउंडेशन की मासिक बैठक शनिवार को बोंगाबाब बाईपास सड़क स्थित मोतीराम कांपलेक्स में हुई। बैठक की अध्यक्षता फाउंडेशन के अध्यक्ष सह सांसद प्रतिनिधि जगेश्वर प्रजापति ने किया। बैठक में मौजूद पदाधिकारी व सदस्यों ने सर्वप्रथम अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की। साथ ही सदस्यों ने फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री प्रजापति का 65वां जन्म दिवस धूमधाम से मनाया। साथ ही दीघार्चु की कामना की। मौके पर श्री प्रजापति ने केक काटते हुए लोगों का आभार व्यक्त किया। कहा कि फाउंडेशन का निर्माण जिस उद्देश्य किया गया उसमें निरंतर अपने प्रयासों में अग्रसर है। उम्मीद है बहुत जल्द फाउंडेशन अपनी कामयाबियों में सफल होगा और इससे जुड़ी महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनेगी। मौके पर कौशल्या देवी, आशा देवी, मनसरी देवी, सुनीता देवी, सुमन देवी, पूनम देवी, प्रियंका देवी, सावित्री देवी, प्रकाश केसरी, जनक प्रसाद, सुखदेव प्रसाद सोनी आदि मौजूद थे।



**जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात**

गोला। सोफला गांव में शुक्रवार रात जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। बताया गया कि उक्त गांव निवासी यमुना प्रसाद महतो के स्वर्ण रेखा नदी किनारे लगे आम की बागवानी में हाथियों का झुंड घुस गया और आम के पेड़ की डालियों को तहस नहस तो किये ही, पेड़ में लगे फल को भी जमकर खाये। बागवानी के किसान ने बताया कि सभी पेड़ों पर बहुत सारे फल लगे हुए थे। जिसे हाथियों ने एक-एक फल को खोजकर-खोजकर खाये हैं और डालियों को भी तोड़ दिए हैं। जिससे मेरा लगभग पचास हजार रुपये का नुकसान हुआ है। इसकी जानकारी शनिवार सुबह को वन विभाग के अधिकारियों को दी गई। वन विभाग के अधिकारियों ने क्षति का जायजा लिया।

**बंद का गोला में दिखा असर**

गोला। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले आहुत संपूर्ण झारखंड में दो दिवसीय बंद के पहले दिन गोला में इसका व्यापक असर रहा। शनिवार प्रातः सात बजे से ही प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों से पहुंचे सैकड़ों छात्र छात्राओं द्वारा गोला डीवीसी चौक को पुरी तरह से जाम कर दिया। जिससे रामगढ़ बोकरो मुख्य मार्ग, मुरी जानेवाली मार्ग व केझिया घाटी होकर रांची जानेवाली मार्ग में छोटे बड़े वाहनों की लंबी कतार लग गई। जिसके बाद 60-40 नाय चलतो, नियोजन नीति जल्द लागू करो, हेमंत सरकार हाय हाय के नारे लगाये गये। सभी प्रतिष्ठानों को बंद करा दिया।

**भुरकुंडा में बेअसर रहा झारखंड बंद**

भुरकुंडा (रामगढ़)। कोयलांचल भुरकुंडा सहित आसपास के क्षेत्रों में 60-40 मामले को लेकर शनिवार को आहुत झारखंड बंद बेअसर रहा। कोयलांचल के भुरकुंडा, रीवर साइड, साँदा डी, सेंट्रल साँदा, पटेलनगर, साँदा बस्ती में बंद बेअसर रहा। कोयलांचल के अन्य क्षेत्रों में भी अन्य दिनों की तरह सड़कों पर छोटे-बड़े वाहनों का आमगमन होता रहा। बाजार और प्रतिष्ठान खुले रहे। बाजार में अन्य दिनों की तरह खरीदारी के लोगों की भीड़ उमड़ी रही। पंचायत मजबूत तो जिला मजबूत: ज्योतिंद्र

**ओरला में जदयू की कमेटी गठित**

कुजू। जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष ज्योतिंद्र प्रसाद साहू के अध्यक्षता में शनिवार को ओरला सरना स्थल के समीप बैठक हुई बैठक में ओरला पंचायत के कमेटी गठित किया गया। जिसमें सर्व समिति से अध्यक्ष सुनील विश्वकर्मा, सचिव राजकुमार नायक, कोषाध्यक्ष सुमित मुंडा, उपाध्यक्ष देवकी करमाली का चयन किया गया। श्री साहू ने कहा कि रामगढ़ जिले के हर पंचायत में जदयू म कमेटी गठित किया जा रहा है ताकि आने वाला चुनाव में अपनी पार्टी का दावेदार कर सके। मौके पे अशोक यादव, विजय करमाली ,दिलीप करमाली ,शंकर नायक, राहुल कुमार ,गणेश करमाली ,गोपाल मुंडा, कपिला करमाली, लखदेव करमाली, दीपक करमाली, जीतू करमाली, मिटू करमाली, दिनेश करमाली, विशाल करमाली, राजू शाह आदि मौजूद थे।



**सांसद प्रतिनिधि का मना जन्मदिन**

भुरकुंडा (रामगढ़)। बिरसा चौक भुरकुंडा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद प्रतिनिधि जगततार सिंह का शनिवार को जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि जगतार सिंह ने केक काटा। साथ ही लोगों के बीच केक व मिठाई का वितरण किया गया। मौके पर योगेश दांगी, जुगल नायक, लक्ष्मी देवी, अमितेश सिंह, सुखदेव प्रसाद, सतीश मोहन मिश्रा, सत्येंद्र नारायण सिंह, अमरेश सिंह, अशोक सोनी, महेश सिंह, ज्योति सिंह, अजय पासवान, अनूप पाठक, संतन सिंह, सुभाष दास, अखिलेश टोप्यो, राजू मल्होत्रा, देव कुमार सिंह, बाबूलाल नायक, राजेश गुप्ता, जेपी पांडेय, अमिता सोनी, बसंती देवी, अंजू कुमारी, विजय कुमार, राजकुमार, प्रेम दुबे, आनंद मंडल सहित अन्य लोग मौजूद थे।

**कुमार व्लासेस में कॅरियर काउंसलिंग**

भुरकुंडा (रामगढ़)। पटेलनगर भुरकुंडा स्थित कुमार क्लासस के मार्गदर्शन में आयोजित करियर काउंसलिंग बोर्ड स्कॉलरशिप टेस्ट 2023 के सफल प्रतिभागियों के लिए शनिवार को संस्था में करियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों ने अपनी इच्छानुसार स्कॉलरशिप के आधार पर विभिन्न कॉलेजों में अलग-अलग कोर्सेस जैसे डिप्लोमा, बीसीए, नर्सिंग आदि में अपना नामांकन कराया। मौके पर संस्था के निदेशक संतोष कुमार ने बताया कि बच्चे काउंसलिंग में बड़े उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं। साथ ही अपने स्कॉलरशिप के आधार पर टेक्निकल कोर्स में अपना नामांकन करा रहे हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट परीक्षा का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को आगे की पढ़ाई में स्कॉलरशिप का लाभ दिलाना है। उन्होंने कहा कि संस्था की ओर से बच्चों को पढ़ाई में हर संभव मदद की जायेगी। श्री कुमार् ने कहा कि संस्था अपने सामाजिक दायित्वों के तहत बच्चों के भविष्य बनाने के लिए हर संभव कदम उठाती रहेगी। कार्यक्रम को सफल बनाने में आरआईटी कोडरमा के प्रो. रंजन कुमार ठाकुर, शिक्षक संतोष कुमार, अंजू एवं जूली का विशेष योगदान रहा।

**बालू खनन पर लगाएं रोक**

**खनन टास्क फोर्स की बैठक में रामगढ़ के उपायुक्त ने दिया निर्देश**

**खनन पदाधिकारी, सीओ व अन्य अधिकारी नियमित रूप से स्टॉक की जांच करें**

रामगढ़। उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। उपायुक्त माधवी मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक पोयूष पांडे द्वारा जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में किए गया कार्यों की जानकारी ली गई। जिसके उपरांत उपायुक्त ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा जारी निर्देश के आलोक में 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू के उठाव पर पूरी तरह से रोक है। इस संबंध में उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी, अंचल अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित अन्य अधिकारियों को सख्ती से इसका अनुपालन रामगढ़ जिले में सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि 10 जून से 15 अक्टूबर तक की अवधि में केवल आधिकारिक स्टॉकिस्ट द्वारा ही बालू

का विक्रय किया जा सकेगा। उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी, अंचल अधिकारियों सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे स्टॉकिस्ट का नियमित रूप से निरीक्षण कर उनके स्टॉक की जांच करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि बरसात के मौसम के मद्देनजर लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर यह बहुत जरूरी है कि सभी एजेंसियों एवं जिला प्रशासन के अधिकारी अपने किसी भी क्षेत्र में अवैध मुहानों के माध्यम से कोयला ना निकालें। इसके लिए उपायुक्त ने एजेंसियों एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों को नियमित रूप से स्थल निरीक्षण कर सभी अवैध मुहानों को



अच्छी तरह से बंद रखना सुनिश्चित करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

बैठक के दौरान उपस्थित कारखाना निरीक्षक सहित अन्य खनन संबंधित अधिकारियों को उपायुक्त ने नियमित रूप से कारखानों का निरीक्षण करने एवं नियमानुसार कारखानों का संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं, उपायुक्त ने नियमित रूप से इससे संबंधित जांच प्रतिवेदन जिला

**बिरसा मुंडा के अपूरे सपनों का पूरा करना सली का दायित्व : डॉ. आशीष कुमार**

भुरकुंडा (रामगढ़)। कोल माईस वर्कर्स यूनियन बरका-सयाल क्षेत्रीय कार्यालय नकरी में शुक्रवार को शहीद वीर बिरसा मुंडा की शहादत दिवस मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता अल झारखंड रैयत विस्थापित प्रभावित मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सोमरा मुंडा व संचालन मोर्चा के केंद्रीय महासचिव नरेश नायक ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत यूनियन के क्षेत्रीय सचिव सह अल झारखंड रैयत विस्थापित-प्रभावित मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष डॉ आशीष कुमार ने भगवान बिरसा मुंडा के तस्वीर पर माल्यांग एवं पुष्प अर्पित कर की। डॉ. आशीष कुमार ने बिरसा मुंडा के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बिरसा मुंडा झारखंड में अंग्रेजों को भगाने के लिए उलगुलान करते हुए शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा के अपूरे सपनों को पूरा करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथ ही हमसबों का यही दायित्व भी है। मौके पर राजेश वर्मा, राजेश पासवान, रामविलास पासवान, रामबली दास, मधु बाउरी, नकुल प्रसाद, भरत ठाकुर, राधेश्याम कुमार, देवनारायण कोल, पटेल आदि मौजूद थे।

**रांची-पटना एनएच घंटों रहा जाम**

**रामगढ़ में नियोजन नीति के विरोध में बंद का दिखा असर**

**खबर मन्त्र संवाददाता**

रामगढ़। राज्य सरकार की नियोजन नीति से नाराज छात्रों ने राज्य में दो दिवसीय बंद का आह्वान किया है। बंद के पहले दिन शनिवार को रामगढ़ में इसका व्यापक असर दिखा। बंद समर्थक छात्र सुबह से ही सड़क पर निकल पड़े और कोठार ओवर ब्रिज के निकट रांची-पटना फोरलेन मार्ग को जाम कर दिया। छात्रों ने रामगढ़-बोकरो एनएच-23 को भी जाम कर दिया। जिससे रांची-पटना फोरलेन मार्ग और रामगढ़-बोकरो एनएच -23 पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।



**पतराटू में छात्रों ने किया सड़क जाम**

झारखंड स्टूडेंट यूनियन की ओर से बुलाए गए झारखंड बंद की सफलता को ले पीटीपीएस पतराटू न्यू मार्केट चौक एवं पतराटू लेक रिस्ट डैम स्थित पतराटू रांची मुख्य मार्ग पर बंद समर्थक छात्र नेता छात्रों के संग शनिवार को सड़क हम राज्य सरकार से स्थानीय नीति में सुधार की मांग करते हैं। जिसके तहत उनके समर्थक छात्रों ने सड़कों पर चलने वाले सभी वाहन चालकों से झारखंड बंद होने की बात का हवाला देते हुए वाहन नहीं चलाने और बंद को समर्थन देने की मांग की। इस दौरान बंदी के समर्थकों द्वारा जमकर नारे भी लगाए

गए। साथ ही 60-40 नियोजन नीति को वापस करते हुए खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करने की मांग की गई। छात्रों ने कहा कि झारखंड को बने 23 साल हो गए लेकिन आज तक सरकार युवाओं के लिए एक नियोजन नीति भी नहीं बना सकी। प्रस्तावित 60-40 के अनुपात में नियोजन नीति लाने की तैयारी में राज सरकार है। जिसका यहां के छात्र समुदाय विरोध करते हैं और इसे लेकर ही झारखंड बंद बुलाया गया है। इस दौरान कई मुख्य सड़कों को बंद समर्थकों ने बाधित करने का प्रयास किया।

**पशु वधशाला को बंद कर बेरोजगार बनाने पर तुली है सरकार : कुरैशी**

हजारीबाग। समाजसेवी बाबर कुरैशी ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सूचना मिल रही है कि एक बार फिर से नगर निगम पशु वधशाला को खत्म कर के शादी घर बनाने पर तुली है जो की कुरैशी समाज के लोग वे बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि यहां से कुरैशी समाज के लोगों का कारोबार जुड़ा है वो उसे उजड़ने नहीं देंगे। इसके लिए कुरैशी समाज पहले ही आलाा अधिकारियों को लिखित आवेदन भी दे चुका है और जरूर पढ़ने पर फिर से एक बार अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन कुछ महीने पहले ये वादा किया था की हर समाज के लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा लेकिन यहा तो सैकड़ों लोगों का रोजगार उजाड़ने पर तुली है हजारीबाग नगर निगम कहाँ गए झारखण्ड कुरैशी समाज के प्रदेश अध्यक्ष जो सिर्फ कुरैशी समाज को गुमराह करते रहे है और सिर्फ नेताओं के साथ फोटो खिचाने में व्यस्त रहते हैं।

**भुरकुंडा के दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता भी हुए शामिल**

कोयलांचल सहित आसपास क्षेत्रों के दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता हजारीबाग हिंदू हाई स्कूल में आयोजित नी साल बेमिसाल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण विशाल जनसभा में शामिल होने के लिए शनिवार को भुरकुंडा मंडल अध्यक्ष सतीश मोहन मिश्रा के नेतृत्व में शामिल हुए। शामिल होने वाले में सांसद प्रतिनिधि जगतार सिंह, दक्षिणी प्रमंडलीय सह प्रभारी ओबीसी मोर्चा योगेश दांगी, एसी मोर्चा के जिला प्रभारी जुगल नायक, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष लक्ष्मी देवी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अमितेश सिंह, सांसद प्रतिनिधि पतरातु सुखदेव प्रसाद, भुरकुंडा मंडल अध्यक्ष सतीश मोहन मिश्रा, सत्येंद्र नारायण सिंह, अमरेश सिंह, विजय कुमार, राजकुमार, प्रेम दुबे, आनंद मंडल सहित अन्य शामिल थे।

**जनसभा में बरही के भाजपा कार्यकर्ता हुए शामिल**



बरही। भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम के दसवें दिन हिन्दू प्लस 2 हाई स्कूल मैदान हजारीबाग लोकसभा भाजपा द्वारा विशाल जनसभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बरही विधानसभा के भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक मनोज यादव के नेतृत्व में शामिल हुए। उक्त कार्यक्रम में बरही के भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं

में भाजपा उपाध्यक्ष रमेश ठाकुर, जीप उपाध्यक्ष किशुन यादव, मुखिया मोतीलाल चौधरी, चौपाणर मुखिया संघ अध्यक्ष बिरेंद्र रजक, टेकलाल यादव, मणिलाल यादव, सचिन यादव, डिलो पासवान, भाजपा युवा नेता अमित सिंह उर्फ छोटे, एससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष नागेश्वर रजक, राजकुमार यादव, पम्पम, हरि गुप्ता सहित सैकड़ों लोग उपस्थित हुए।

**चरही में सरकारी भूमि पर कई लोगों का कब्जा**

**खबर मन्त्र संवाददाता**

चरही। चुरचू अंचल के तहत चरही पंचायत में विभिन्न प्रकार के लगभग तीन सौ ऊपर सरकारी आम,खास,वन भूमि और केसर-ए-हिन्दू भूमि अवस्थित है जिस भूमि पर कई लोगों का अवैध कब्जा है।अवैध कब्जे वाली भूमि पर लाखों रुपये की लागत से दर्जनों अलीशान मकान बने हुए हैं।कई ऐसे ग्रामीण हैं जो उस सरकारी भूमि पर जोत-कोड़कर खेती कर रहे हैं।कई ऐसे भी लोग हैं कि अपने स्वार्थ के लिए बेच दिए हैं सरकारी भूमि जिसका खाता नंबर 48 प्लॉट नंबर 603 रकबा 6.28 एकड़,प्लाट नंबर 604,582 प्लॉट 767 रकबा 9.95 एकड़,प्लॉट 61 रकबा 14.35 एकड़,प्लॉट 585 रकबा 4.72 एकड़,प्लॉट 1 रकबा 44.35 (वन भूमि ) प्लॉट नंबर 33 रकबा 108.85



एकड़ ( वन भूमि सम्मिलित है। ),प्लॉट 965 रकबा 8.04 एकड़, प्लॉट 964 रकबा 6.60,प्लॉट 30 रकबा 27.70,प्लॉट 16 रकबा 61.16,प्लॉट 1 केशर-ए-हिन्दू,प्लाट 847 रकबा 12 एकड़,प्लॉट 496 रकबा 1.67, प्लॉट 521 तथा प्लॉट 231 जिसका रकबा लगभग 6 एकड़ कुल मिलाकर 3 सौ एकड़ पर कई लोगों का अवैध कब्जा बरकरार है।उपरोक्त सरकारी भूमि पर दर्जनों अलीशान मकान बनाए गए

**श्मशान तक जाने वाले रास्तों को भी लोगों ने किया अतिक्रमण**

हैं।कई प्लॉट की भूमि पर ग्रामीण कब्जा कर जोत-कोड़ खेती कर रहे हैं।इतना ही नहीं भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन को रैयती भूमि बताकर एग्रीमेंट के तहत मोटी रकम लेकर बेच दिए हैं। श्मशान तक जाने वाले रास्तों को भी कई लोगों ने अतिक्रमण कर लिए हैं।यहां तक कि भूमाफियाओं ने सरकारी तालाब,कृषि फार्म तक को नहीं बख्खा गया है।यहां तक कि जीएम कार्यालय के समीप अवस्थित सरकारी तालाब वाली भूमि को भी बेच दिया गया।इस भूमि पर कई लोगों ने जमीन को अवैध रूप से खरीदकर अलीशान मकान बना लिये हैं।पीब्लूडी,एनएच 33, वन भूमि और केसर-ए-हिंदू जमीन को भी भूमि माफियाओं ने अवैध रूप से कब्जा कर कई होटल और बड़े-बड़े आलीशान

मकान बना लिए हैं।चुरचू अंचल के सीओ शशि भूषण सिंह से पूछे जाने पर बताया कि अवैध कब्जे वाली सरकारी भूमि कि मापी की जा रही है।मापी के दौरान भूमि कब्जेदारों को चिन्हित हो पाएगा। सरकारी भूमि को कब्जा करने और खरीद-फरोख्त करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

**व्या कहते हैं जिप सदस्य**

जिप सदस्य वासदेव करमाली से पूछे जाने पर बताया कि ग्रामीण वर्षों से सरकारी भूमि पर जोत-कोड़कर खेती करते आ रहे हैं।साथ ही घर बनाकर रह रहे हैं।जिला और अंचल प्रशासन रैयतों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करे।जरूरत पडने ही खाली कराया जाय।अचानक अतिक्रमण मुक्त किया गया तो कई लोग घर से बेघर हो जाऐंगे।इस पर प्रशासन को सोचने की जरूरत है।

**एक नजर में**

**पेंशन मामले में दलालों से दूर रहें ग्रामीण : राजेंद्र**

बरही। धनवार पंचायत के मुखिया राजेंद्र प्रसाद ने पंचायत के आम जनो से अपील करते हुए कहा कि पेंशन के मामले में क्षेत्र के दलालों से दूर रहें। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में ऐसी मानसिकता के लोगों की भरमार है जो सीधे साधे लाभुकों को लाभ देने का लालच देकर गुमराह करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने लोगो को उनके झांसे में नही आने की बात कही।साथ ही सम्बंधित किसी भी मामले में जनप्रतिनिधि या सरकारी कर्मचारी से सम्पर्क कर आवेदन करने की अपील किया।उन्होंने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि जो राशन कार्डधारी का ग्रीन कार्ड बना है, वे लोग हड़बड़ाए नहीं। उनका ग्रीन कार्ड विभाग द्वारा पीएच में सीरियल वाइज तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसी सूचना मिल रही है कि वैसे लोग अभी कुछ दलाल के चक्कर में पड़ रहे हैं और दलाल उनके ग्रीन कार्ड को लाल कार्ड में बदलवाने के नाम पर मोटी रकम भी ले रहे हैं, जबकि उनका काम विभाग द्वारा स्वतः किया जा रहा है। इसे देखते हुए उन्होंने आग्रह किया है कि कोई भी लोग दलाल के झांसे में न आए। 90 है पी 3: मुखिया राजेंद्र प्रसाद



**सर्विस बुक मामले में आरजेडी ने मांगा डीएसइ से जवाब**

हजारीबाग। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक (आरजेडी) सुमनलता टोपनो बलिहार ने कोडरमा डीएसई कार्यालय से गायब हुए शिक्षकों की मूल सेवा पुस्तिका(सर्विस बुक) के मामले पर डीएसई से जवाब मांगा है। एक सप्ताह के भीतर सारी जानकारी आरजेडी को देनी होगी। हालांकि इस मामले को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। इधर इस संबंध में झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा है कि पूरे मामले से साजिश की बू आती है। एक साथ इतने शिक्षकों का सर्विस बुक डीएसई ऑफिस से कैसे गुम हो सकता है। उन्होंने आरजेडीई से पूरे मामले की निष्पक्षता से उच्चस्तरीय जांच की मांग की थी। उन्होंने कहा कि दरअसल कार्यालयी भ्रष्टाचार इतनी बढी हुई है कि कार्यालयकर्मों किसी मामले को संजीदगी से नहीं लेते। ऐसे भी सेवा सपुष्टि के नाम पर शिक्षकों से अवैध वसूली भी कोई नई बात नहीं है। 10 मार्च को गुम हुई सेवा पुस्तिका को लेकर इतने दिनों तक कोई खोज-खबर न लिए जाने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई है। कहा कि यह बड़े दुर्भाग्य का बात है कि अब तक जवाबदेह पदाधिकारी व कर्मचारी पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई।



**विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन**

बिष्णुगढ़। राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार हजारीबाग द्वारा बिष्णुगढ़ प्रखंड मुख्यालय सभागार में मन का मिलन पखवाड़ा सह जागरूकता कैप का आयोजन किया गया। शुरुआत जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी रिटैनेर अधिवक्ता गौरव सहाय, के द्वारा दीप जला कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर लोगों को कानूनी कई छोटे-मोटी अधिकार और कर्तव्य की जानकारी दी गई। उपस्थित लोगों को सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम के बाबत ट्राई साइकिल, ग्रीन राशन कार्ड आदि का वितरित किया गया। कार्यक्रम स्थानीय जनप्रतिनिधि के अलावे भारी संख्या में लाभुकों में महिला पुरुष शामिल थे।

**शहीद हेन्ड्रोन की 11वीं पुण्यतिथि मनी**

इचाक। प्रखंड के ग्राम फूफन्दी में शहीद तुलेश्वर हेन्ड्रोन जी कि 11 वीं पुण्यतिथि मनाया गया। सबसे पहले शहीद के पत्नी मो शांति देवी ने माल्यार्पण किये तत्पश्चात मुख्य अतिथि संचाल समाज के केंद्रीय कोषध्यक्ष एतो बास्के विशिष्ट अतिथि जिला परिषद प्रतिनिधि अशोक मेहता,संथल समाज केंद्रीय उपाध्यक्ष कंदो मरांडी, सचिव पन्नालाल मुर्मू, मुखिया नंदकिशोर कुमार, संचाल समाज केंद्रीय उपाध्यक्ष रमेश कुमार हेन्ड्रोन, अमित हंसदा,दामोदर मेहता,प्रमोद कुमार, दिनेश्वर राणा, तुलेश्वर राम, संतोष ठाकुर, लखिराम मांडी, लालजी मांडी,रितालाल हंसदा, सुरेश टुडू, महेश सोरेन, सुरेंद्र हेन्ड्रोन, छतो हेन्ड्रोन,बाबूलाल टुडू, जगदीश हंसदा,मोतीलाल सोरेन,बिनोद सोरेन, शिबू हंसदा, शिकारी हेन्ड्रोन, परमेश्वर हंसदा,मंजु मुर्मू मैनु मुर्मू, रूपया देवी,कार्यक्रम कि अध्यक्षता लालजी सोरेन, संचालन मोहन सोरेन ने किया

**चरही पुलिस ने दो वारंटियों को मेजा जेल**

चरही। शनिवार को चरही पुलिस ने फरार वारंटियों को धर पकड़ को लेकर अभियान चलाया गया।इसके तहत पुलिस ने फरार दो वारंटी चरही थाना क्षेत्र के कजरी करीमगंज निवासी अजय कुमार रविदास और महेंद्र रविदास दोनों के पिता तेजनाथ रविदास को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत हजारीबाग भेज दिया गया।चरही थाना प्रभारी विक्रम कुमार ने बताया कि फरार चल रहे अभियुकों को किसी कीमत पर बख्सा नहीं जाएगा।इसके लिए अभियान को तेजी चलाया जाएगा।

**प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विवि ने किया पौधरोपण**

केरेंडारी। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय केरेंडारी की ओर से चलाए जा रहे साप्ताहिक वृक्षारोपण अभियान कार्यक्रम के तहत दिन शनिवार को कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय परिसर में किया गया साथ ही साथ साप्ताहिक वृक्षारोपण अभियान कार्यक्रम पेड़ लगाकर शनिवार को समापन किया गया। सेवा केंद्र की संचालिका बीके सरिता बहन ने वृक्षारोपण का महत्व सभी विद्यार्थियों के बीच साझा किया तथा उन्हें देखभाल करने का संकल्प कराया। उन्होंने बताया कि वृक्ष जतावरण को शुद्ध व स्वच्छ बनाते हैं। जिस जगह ज्यादा पेड़ होते हैं वहां ज्यादा बारिश होती है। ये भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। वन हमें शीतल छाया और हवा देते हैं। पेड़ हमें कई प्रकार की प्राकृतिक आपदा से बचाते हैं। पेड़ों से हमें फल ,फूल , औषधियां मिलती हैं। पेड़ हमें कड़ी धूप में छंव तथा ठंडी हवा देते हैं। हमें सूखी वा स्वस्थ जीवन के लिए निरंतर पेड़ लगाने रहने चाहिए तथा पेड़ों का संरक्षण करना चाहिए। सचमुच पेड़ हमारे मित्र हैं और उनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। इस मौके पर सेवाकेंद्र प्रभारी बीके सरिता बहन सहित वार्डेन दीपा टोप्यो, लेखापाल राजकुमार साहू,बीके योगेंद्र भाई, बीके यशोदा माता ,बीके किशुन भाई,बीके रंजन भाई,बीके धनीनाथ भाई,बीके भीम भाई,बीके हेरी भाई , बीके रूपेश भाई , बीके बिरेंद्र और कई बच्चे उपस्थित थे।



**बंद के पहले दिन विष्णुगढ़ में सड़क जाम**

बिष्णुगढ़। छात्र संगठन द्वारा दो दिवसीय झारखंड बंद को लेकर बिष्णुगढ़ छात्रों ने सड़क पर उतर झारखंड सरकार के नियोजन नीति के खिलाफ बवाल काटों छात्रों ने अहले सुबह लगभग 6 बजते ही सड़क पर उतर कर बगोदर बिष्णुगढ़, गोमिया बिष्णुगढ़ सड़क को तीनों और जाम कर दियो।कमीटिशन की तैयारी कर रहे और रोजगार की तलाश कर रहे स्थानीय युवाओं ने झारखण्ड नियोजन नीति 60-40 का जम कर विरोध जताया हेमंत हटाव झारखण्ड बचाव, तेरी ममनानी नहीं चलेगी, के साथ झारखंडी स्थानीय लब्जो 60-40 नाय चलतो के नारे उठे . सड़को पर वाहनों की लंबी कतार लग गई, लगभग 3 तीन घंटे तक नाके बंदी रही बाद में सरकार के नौकरशाहों ने 60-40 का विरोध कर रहे लोगों को बा जबरन तीतर बीतर कर दिया और सड़क जाम को हटाया। इस दौरान सरकार के ओपोजीसन पार्टी भाजपा व आजसू के भी इका दुका लोग छात्रों को साथ शामिल थे।



## खनन टास्क फोर्स की बैठक में डीसी ने दिए कई निर्देश

लोहरदगा। उपायुक्त डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। इसमें बालू के अवैध उठाव/परिवहन से संबंधित हुई कार्यवाई, बालू का स्टॉक, छापेमारी संबंधी समीक्षा की गई और सहायक खनन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि नियमित रूप से अवैध बालू के संबंध में छापेमारी करते रहें। साथ ही, मामलों एफआईआर आदि की कार्यवाई करें। संबंधित थानों से संपर्क कर कार्यवाई निरंतर जारी रखें।

## सड़क दुर्घटना में आर्मी जवान की हुई मौत

लोहरदगा। सदर थाना क्षेत्र के कुजरा में सड़क दुर्घटना में सेना में कार्यरत जवान की मौत हो गई। मृतक की पहचान 40 वर्षीय अशोक साहू पिता छेदू साहू होंगा निवासी के रूप में हुई। वर्तमान में कुजरा में रहते थे (अशोक साहू आर्मी के जवान थे जो वर्तमान में असम में पोस्टेड थे। कुछ दिन ही पूर्व घर छोड़ी लेके आए थे। शनिवार को दोपहर 2 बजे लोहरदगा आने के लिए बाइक लेकर घर से निकले थे इसी बीच कैमो महंगा टोली में चैतु उराव के घर के पास विपरीत दिशा से आ रही एक जेन रफ्तार टैंडी ट्रक ने चपेट में लिया। जिससे घटनास्थल में ही उनकी मौत हो गई। अपने पीछे वो पत्नी और 2 बच्चा छोड़ गए हैं। इस घटना से लोग काफी मर्माहत हैं।

## संपर्क से युवक की हालत गंभीर

गुमला। बिशनपुर थाना क्षेत्र के मरवेंद निवासी दया मुंडा का 22 वर्षीय पुत्र अजय मुंडा जहरीले सांप के काटने से जखमी हो गया। जिसे गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल गुमला में भर्ती कराया गया। जहां चिकित्सकों की देखरेख में घायल का उपचार जारी है। जानकारी देते हुए पर्रिजन ने बताया कि घर के पास ही अजय मुंडा बैठा हुआ था। तभी एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। जिसे आनन-फानन में बिशनपुर उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जहां देर रात्रि चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया।

## युवती ने सल्फास खाकर किया आत्महत्या

गुमला। सिसई थाना क्षेत्र सकरौली गांव निवासी 21 वर्षीय पार्वती कुमारी ने शनिवार को सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को युवती ने सल्फास खाया तो उसकी तबीयत खराब होने लगी। जिसके बाद उसे पर्रिजनो ने रेफर अस्पताल सिसई में इलाज के लिए भर्ती कराया। जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया। गुमला में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करते हुए युवती के पेट से जहर को बाहर निकाला। डॉक्टर ने बताया कि सल्फास बहुत ही जहरीला होता है और युवती सल्फास का सेवन कर ली है। इस स्थिति में सुधार नहीं होने पर रांची रिस्प रेफर किया जाएगा। लेकिन इलाज के क्रम में युवती का सदर अस्पताल में मौत हो गया। युवती ने पर्रिजनो को सल्फास की जगह टेबलेट खाने की बात बतायी थी लेकिन अस्पताल में जब गंभीर स्थिति बनी तो चिकित्सकों के पूछने पर युवती ने सल्फास खाने की बात कही। जहां जांच के आधे घंटे बाद उसकी मौत हो गई।

## लेख प्रतियोगिता का आयोजन

गुमला। विकास भारती गुमला के द्वारा संचालित जन शिक्षण संस्थान के द्वारा शनिवार को गुमला प्रखंड के पनसो गांव में वर्तमान परिवेश में मोबाइल के उपयोग से लाभ व नुकसान पर लेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें 40 विद्यार्थियों ने भाग लिया। जिसमें जन शिक्षण संस्थान के एपीओ विजय भगत, मोबिलाइजर दिनेश चौधरी, पनसो मुखिया प्रमिला उरांव शामिल हुईं। मौके पर मुखिया ने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते कहा मोबाइल एक अच्छा चीज है और खराब भी है। लेकिन आप लोग जैसे उपयोग कीजिएगा वैसा ही होगा तो हम लोग अच्छा उपयोग करें तो उसका परिणाम अच्छा आएगा। एपीओ विजय भगत मोबाइल का विस्तृत जानकारी दिये।

# सीएम के समीक्षा बैठक को लेकर उपायुक्त ने जिला के अधिकारियों के साथ की बैठक



बैठक करते डीसी

### खबर मन्त्र संवाददाता

लोहरदगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आगामी 16 जून को प्रोजेक्ट भवन, रांची में होनेवाले बैठक की तैयारी को लेकर उपायुक्त डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में आयोजित हुई। बैठक में वर्ष 2022-23 में विभिन्न विभागों के द्वारा उपलब्धियों की समीक्षा की गई। सर्वप्रथम ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा हुई जिसमें मन्रेगा अंतर्गत सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को मानव दिवस सृजन में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी किये जाने का निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत तृतीय किस्त का भुगतान किये जाने का निर्देश प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, किस्को को दिया गया।

पंचायती राज विभाग अंतर्गत पंचायत सचिवालय की स्वीकृति व अद्यतन स्थिति से अवगत कराने का निर्देश पंचायती राज पदाधिकारी को दिया गया। उपायुक्त द्वारा पंचायती राज पदाधिकारी को पंचायत समितियों के व्यव संबंधी प्रेक्षा की गई। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री रोजगार सृजन में वितरण की गई राशि और

वितरण के लिए बाकी बचे राशि के भुगतान संबंधी समीक्षा की गई और निष्पादन के निर्देश दिये गये। साथ ही छात्रवृति और आवासीय विद्यालयों की स्थिति की भी समीक्षा की गयी। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग अंतर्गत पेंशन वितरण की समीक्षा की गई। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में लक्ष्य व उपलब्धि की समीक्षा की गई और बीएस कॉलेज, लोहरदगा में छूटे हुए लाभुकों को योजना से अच्छदरन हेतु विशेष कैंप चलाये जाने का निर्देश जिला समाज कल्याण को दिया गया। आंगनवाड़ी केंद्रों से संबंधित अपने भवन में आंगनवाड़ी केंद्र, अन्य भवन में आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन, जर्जर भवन व उनकी मरम्मती से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित किये जाने का निर्देश जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को दिया गया।

विभाग अंतर्गत रिक्त पदों के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री पशुधन योजना में जिला पशुपालन पदाधिकारी को बचे हुए लक्ष्य को भी हासिल किये जाने का निर्देश दिया गया। जिला कृषि पदाधिकारी से मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना में वितरण, योजना में छूटे किसानों का केवाईसी, केसीसी ऋण आदि की समीक्षा की गई और

## एजेंडा के अनुरूप विभागवार समीक्षा हुई, अधिकारियों को लगी फटकार

आगामी 5 दिनों में प्रगति सुधारकर अद्यतन प्रतिवेदित देने का निर्देश

गुमला। आगामी 16 जून को राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा विभागवार समीक्षा की जानी है। 16 जून को प्रोजेक्ट भवन सभागार में मुख्यमंत्री द्वारा जिन विभागों की समीक्षा की जानी है उसमें ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जन जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, खनन एवं भूतत्व विभाग, ऊर्जा विभाग, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की जानी है। उक्त प्रस्तावित समीक्षा बैठक हेतु गुमला जिले की स्थिति को लेकर उपायुक्त ने अपने सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं सभी प्रखंड विकास

छूटे हुए केवाईसी को पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। सहकारिता विभाग अंतर्गत बीज वितरण की समीक्षा की गई।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अंतर्गत छूटे हुए लाभुकों को जल जीवन मिशन अंतर्गत अच्छादित किये जाने का निर्देश कार्यपालक अभियंता को दिया गया। डीएमएफटी अंतर्गत लंबित अधियोजना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाये जाने का निर्देश दिया गया। दखिल खारिज के लंबित मामलों का निष्पादन किये जाने का निर्देश



बैठक में निर्देश देते उपायुक्त

पदाधिकारियों व अंचल अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मन्रेगा, जेएसएलपीएस, प्रधानमंत्री आवास योजना, 15वें वित्त आयोग की योजनाओं, आंगनवाड़ी, पेंशन वितरण, पशुधन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि ऋण माफी, जल जीवन मिशन, दखिल खारिज, जाति आवासीय प्रमाण पत्र, उत्कृष्ट विद्यालय आदि को लेकर प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान कुछ विभागों के कार्यपालक अभियंताओं को धीमी प्रगति के

कारण उपायुक्त ने फटकार भी लगाई। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना में कम प्रगति को लेकर कुछ प्रखंड विकास पदाधिकारियों की कार्यशैली को लेकर भी उपायुक्त ने असंतुष्टि तथा नाराजगी व्यक्त की। साथ ही स्पष्ट हिदायत दी कि 14 जून तक सभी कार्यालय प्रमुख अपने कामों की बेहतर प्रगति के साथ प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे। इस दौरान तमाम जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ साथ प्रखंडों के बीडीओ तथा सीओ मौजूद थे।

सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया। जाति/आय/आवासीय प्रमाण-पत्रों के लंबित मामलों का निष्पादन दो दिनों में पूर्ण किये जाने का निर्देश भी दिया गया। कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमाण्डल को वन टाईम सेटलमेंट मामलों में कैंप की संख्या बढ़ाकर लाभुकों को योजना का लाभ दिये जाने का निर्देश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त समीरा एस, नीलाम पत्र पदाधिकारी बिरसाय उरांव, अनुमण्डल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल, सिविल

सर्जन, सामाजिक सुरक्षा के सहायक निर्देशक, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, डीपीएम जेएसएलपीएस, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी समेत अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता इति उपस्थित थे।

## सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकास को लेकर प्रशासन प्रतिबद्ध: डीसी

रविदास समाज के लोगों के उत्थान के लिए प्रशासन ने बनायी कार्ययोजना



प्रेस कॉन्फेंस में जानकारी देते उपायुक्त

### खबर मन्त्र संवाददाता

गुमला। रविदास ( मोची ) समाज के लोगों के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकास को लेकर गुमला जिला प्रशासन ने कार्ययोजना तैयार की है। जिसको लेकर रविदास समाज के लोगों के धरातलीय सर्वे

का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। सर्वे का उद्देश्य रविदास समाज के लोगों के उत्थान व उनके सामाजिक जीवन में बदलाव लाने को लेकर धरातल पर कई कार्य किये जाएंगे और सरकार के कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उनका सर्वांगीण विकास करना है।

शनिवार को उपायुक्त सुशांत गौरव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रविदास ( मोची ) समाज के लोगों के सामाजिक जीवन में बदलाव लाने का कार्य आरंभ हो गया है। उपायुक्त ने बताया कि पूरे जिले में सबसे पहले रविदास समाज के लोगों का सर्वे किया गया। सर्वे में मोची व्यवसाय से जुड़े 2048 लोगों के जीवन का अध्ययन किया गया। जिसमें 136 लोग मोची के काम से जुड़े हुए हैं। वहीं कुछ लोग राज मिस्त्री, ड्राईवर व कुक का काम करते हैं। समाज के 129 ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर जाँब के लिए धूम रहे हैं।

## नदियों से अवैध बालू उठाव बंद कराने की मांग



अंचल कार्यालय में ज्ञापन सौंपते कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष

### खबर मन्त्र संवाददाता

सिसई। प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न घाटों से लगातार हो रही अवैध बालू खनन व परिचालन पर रोक लगाने को लेकर कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष बैबुल अंसारी ने अपने सहयोगियों के साथ सीओ को आवेदन सौंपा है। उन्होंने कहा कि प्रखंड क्षेत्र के ओल्मुण्डा, संबल, बाकुटोली, नागफेनी, मकुन्दा, पारस नदी, जलका, लरंगो, सहिजाना पुरो, मुर्गु, कुलकेरी, लंकेया, चैली टोली व सिसई बांस टोली नदी से प्रतिदिन लगभग 200 हाईवा गाड़ी बालू का अवैध उठाव किया जा रहा है। बालू शाम पांच बजे से लेकर रात के तीन बजे तक

हुलाई कर रांची भेजा जा रहा है। यह बालू रांची में ऊंचे कीमत पर बेची जा रही है। जिसे सरकार को लाखों रुपए राजस्व का चुना लग रहा है। अवैध बालू उत्खनन के बिस्त्री से क्षेत्र की नदियों का पानी सूखे चुका है। भूमिगत जलस्तर लगातार नीचे जा रही है। नदियों में बालू के जगह अब घास व झाड़ियाँ निकलने लगी हैं। एक ओर जहां आन लोगों को अपने जरूरत के लिए बालू नहीं मिलता, सरकारी योजनाओं में बालू उपलब्ध नहीं होने से क्षेत्र का विकास रुका हुआ है। भारी मात्रा में अवैध बालू खनन से क्षेत्र की जनता, किसानों व मवेशियों को उपयोग के लिए पानी की भारी किल्लत होने लगी है।

## गर्मी बढ़ने से देसी फ्रिज की मांग बढ़ी

आयुर्वेद चिकित्सकों के अनुसार लाभकारी है मटका का पानी

### संदीप गुप्ता

भंडारा। धीरे-धीरे गर्मी का मौसम चरम पर पहुंच रहा है। गर्मी बढ़ने से देसी फ्रिज यानी घड़ों की डिमांड भी बढ़ने लगी है। इस देसी फ्रिज की मांग गांव देहात से लेकर शहरों में भी बहुत है। यह मटका जहां पानी को ठंडा रखता है, वहीं बीमारियों को दूर करने में भी सहायक होता है। कचमची के रहने वाले शिव प्रजापति का कहना है कि वह पिछले करीब 22 वर्षों से मटके बेचने का काम करते आ रहा है। उन्होंने बताया कि पहले मटकों का आकार कुछ और ही होता था, लेकिन समय के साथ अब मटकों में एक नल भी लगाया गया है। उसके माध्यम से लोग बिना मटके में हाथ डाले ही पानी को नल के जरिए गिलास में भरकर पी सकते हैं। गौर हो कि स्वास्थ्य के मद्देनजर घड़े का पानी काफी लाभदायक है। वैसे तो पानी जीवन का आधार है, लेकिन यदि पानी मटके का हो तो उसके गुण कई गुणा बढ़ जाते हैं। घड़े का पानी पीने से कई रोगों से छुटकारा मिलता है। घड़े अलग-अलग साइज के मिलने लगे हैं। उनके पास पांच लीटर से लेकर 30 लीटर तक घड़े मिल जाते हैं।



घड़ा की खरीददारी करते लोग

है। वहीं मिट्टी के घड़े में रखा पानी एक तो कुदरती तौर पर शुद्ध होता है, दूसरा मटके के अंदर की सतह पानी के दूषित कणों को सोख लेती है। घड़े का पानी कम से कम दो दिन तक ताजा रहता है।

समय के साथ बदला घड़े का आकार : शिव प्रजापति ने बताया कि समय के साथ-साथ घड़े का आकार भी बदल गया है। पहले जहां केवल खुले मुंह वाला घड़ा होता था, जिसे उल्टा करके पानी निकाला जाता था। मगर, अब कई प्रकार के घड़े बाजार में मिल रहे हैं जैसे कि घड़े को भी टूटी लगा दी गई है। इसे उल्टा करने की जरूरत नहीं पड़ती। घड़े अलग-अलग साइज के मिलने लगे हैं। उनके पास पांच लीटर से लेकर 30 लीटर तक घड़े मिल जाते हैं।

विभिन्न बाजार में बेच रहे 20

से 25 मटके : शिव प्रजापति ने बताया कि गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। इसके साथ ही मटकों की मांग भी बढ़ने लगी है। उन्होंने बताया कि भंडरा चट्टी आदि बाजारों में वे 20 से 25 मटके बेच रहे हैं। छोटा मटका 80 रुपये और बड़ा मटका 150 के करीब बेच रहे हैं। पहले केवल गरीब लोगों तक ही मिट्टी का मटका सीमित होकर रह गया था। वहीं अब अमीरों की रसोई की भी शान बन गया है।

घड़े के पानी से खराब नहीं होता गला : आयुर्वेद चिकित्सकों का कहना है कि मिट्टी के घड़े से पानी पीने से गला खराब नहीं होता है। पेट की बीमारी नहीं लगती, बाड़ी का तापमान संतुलित रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि घड़े का पानी पीने से कभी भी लू नहीं लगती है।

### एक नजर में

## मन का मिलन पखवाड़े के अंतर्गत हुआ तीन कैसों का निष्पादन

लोहरदगा। झालसा रांची के तत्वाधान में तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लोहरदगा राजेंद्र बहादुर पाल के निर्देशन में 29 मई से 14 जून तक चलाए जा रहे मन का मिलन पखवाड़ा के अंतर्गत 8 एवं 9 जून को कुल 3 कैसों का निष्पादन किया गया। जिसमें 8 जून, 2023 को मन का मिलन पखवाड़ा के अंतर्गत एक सिविल वाद का निष्पादन किया गया। जिसमें वकील प्रथम पक्ष सालू उरांव एवं दूसरे पक्ष हकीमुद्दीन अंसारी के बीच मध्यस्थ के माध्यम से आपसी सहमति बनाकर विवाद का निपटारा किया गया। वही 9 जून को भी दो क्रिमिनल केस का निष्पादन किया गया जिसमें सेनहा थाना कांड संख्या 92/22 जो बिजली विवाद को लेकर हुए मारपीट से संबंधित था का निष्पादन रुखसार बोवी एवं गुलाम अंसारी के बीच आपसी समझौता कर किया गया। जिसके फलस्वरूप सेन्हा थाना कांड संख्या 67/2020 का भी न्यायालय स्तर पर सुलह के आधार पर निस्तारित करने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त तथ्यों की जानकारी देते हुए डालसा सचिव राजेश कुमार ने बताया कि उपर्युक्त तीनों केस सिविल जज सह अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी राज कल्याण के कोर्ट से संबंधित हैं। डालसा सचिव ने यह भी जानकारी दिया कि मन का मिलन पखवाड़े के अंतर्गत सिविल कोर्ट परिसर में एक स्थाई बेंच का गठन किया गया है जिसमें अब तक 500 से ज्यादा लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा है जिसमें मन का मिलन पखवाड़े तथा विधिक सेवा प्राधिकार के बारे में जानकारी ली है। जिसका विस्तृत विवरण प्रतिनियुक्त पीएलवी मन का मिलन पखवाड़े संबंधित रजिस्टर में संकलित करते हैं।

## बाल विवाह एक दंडनीय अधराध है: सुमन चैनपुर।

चैनपुर। चैनपुर प्रखंड के जयपुर गांव में लोहरदगा ग्राम स्वराज संस्था, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन एवं फिया फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में बाल विवाह मुक्त भारत कार्यशला का आयोजन किया गया। जिसमें उपस्थित लोगों को बाल विवाह रोकने के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। मौके पर लोहरदगा ग्राम स्वराज संस्था के सुमन कुमार टोपो ने कहा कि बाल विवाह एक दण्डनीय अपराध है। शादी के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष वहीं लड़कियों की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं बाल विवाह करने पर पकड़े जाने पर 2 साल की सजा और एक लाख रुपए का जुमाना या फिर दोनों हो सकता है। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को मन्रेगा, समाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। मौके पर मुख्य रूप से वार्ड सदस्य लालू केकेट्टा, ग्राम प्रधान मिल्कियोर बेक सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे।

## जेसीबी से टकराकर बाईक सवार युवक की मौत, गला आघात का

गुमला। रांची- गुमला नेशनल हाईवे में राधिका ढाबा डाडहा के समीप शुरुवार की शाम आरकेडी कम्पनी के जेसीबी व बाइक की टक्कर में पालकोट रोड गुमला निवासी गिरवर सिंह का 23 वर्षीय पुत्र शिवम सिंह की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना में मृतक का गला आघे से अधिक कट गया है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ मनीष चन्द्र लाल व थानेदार दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेज दिया। वहीं जेसीबी व बाइक को जब्त कर थाने ले आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार राधिका ढाबा से खाना खाकर ऑपरेंटर डी 33 एक्स 9565 जेसीबी को बैक करते हुए तीव्र गति से नेशनल हाईवे में चढ़ा रहा था। इसी दौरान भरनो की ओर से आ रहे शिवम सिंह जेसीबी के पिछले हिस्से से टकरा गया। टक्कर के बाद भी जेसीबी कुछ दूर चलता रहा। जिससे डोजर के हल में फंसकर शिवम का आधा गला काट गया और उसकी घटना स्थल में ही मौत हो गई। उसका हेल्मेट भी सिर से निकल का दूर फंका गया। बाइक भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।

## उपायुक्त से मामले की जांच की मांग, घूस की राशि मांगने का आरोप

घाघरा। घाघरा प्रखंड के कोही पाट पंचायत के मुखिया फगुआ उरांव पर 15 वे वित्त मद में 15 प्रतिशत घूस की राशि मांगने का आरोप पंचायत के ही लाभुक समिति के अध्यक्ष बैजू पहान व सचिव धर्मदास टाना भगत ने लगाते हुए लिखित रूप से उपायुक्त के पास शिकायत किया है। इस संबंध में लाभुक समिति के अध्यक्ष बैजू पहान ने बताया कि फगुआ उरांव पूर्व में रोजगार सेवक था। योजनाओं में कमीशन का खेल करने का उसका पुराना आदत है। बाद में वह मुखिया बन गया है। बैजू ने यह भी बताया कि वर्ष 2021 में 15 वें वित्त आयोग से योजना संख्या 3/ 2020-21 कृषि भ्रमण के पास चबूतरा निर्माण प्रावकलन संख्या 200000 का योजना भ्रमणसे के माध्यम से लाभुक समिति हम लोगों को बना कर दिया गया। लाभुक समिति को कार्य आदेश भी 3 सितंबर 2021 को कार्य करने के लिए दिया गया। पूरा योजना पूर्ण करा दिया गया है। साथ में माफी पुस्तिका में समर्पित कर दिया गया है। योजना मद से 56584 की राशि लाभुक समिति को भुगतान की गई थी। अब जब मुखिया से इस योजना के बकाया राशि के भुगतान की मांग की जा रही है तो उसके द्वारा 15 प्रतिशत कमीशन का मांग किया जा रहा है। लाभुक समिति के अध्यक्ष सचिव दोनों ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच करते हुए कार्यवाई का मांग किया है। साथ ही साथ ऐसे भ्रष्टाचारी मुखिया के वित्तीय पावर को भी सीज करने का मांग किया है। इस बाबत मुखिया फगुवा उरांव ने कहा कि जो भी आरोप पैसे की मांग की लगाई गई है वह बेबुनियाद है। लाभुक समिति के कार्य का कागजात पूरा नहीं था। जिसके कारण उनका भुगतान रुका था और अभी मद में पैसा नहीं है। जैसे ही पैसा पंचायत मद में आएगा उनका भुगतान किया जाएगा।

## स्कूटी से गिरकर तीन लोग घायल, दो को लगी गंभीर चोट

गुमला। रायडीह थाना क्षेत्र के रेगोला मंगराटोली के समीप शनिवार को स्कूटी से गिरकर तीन लोग घायल हो गये। घायलों में रायडीह प्रखंड के बिरकेरा निवासी 19 वर्षीय प्रभात कुमार, 19 वर्षीय अनूप किंडो व कोनकेल निवासी तारामुनी डुंगडुंग के नाम शामिल है। घटना में प्रभात के सर पर जबकि अनूप का एक हाथ व पैर टूट गया है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों युवक स्कूटी से बांसडांड बाजार करने आये थे। जहां रास्ते में तारामुनी से उनकी मुलाकात हो गई। पहले से परिचित होने पर दोनों युवक तारामुनी को उसके घर स्कूटी से छोड़ने जा रहे थे। इसी क्रम में रेगोला मंगराटोली के पास स्कूटी अनियंत्रित हो गई और तीनों लोग गिरकर घायल हो गये। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों घायलों को इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

## पसमांदा मुस्लिम उत्थान समिति के गुमला जिलाध्यक्ष बने मुमताज

गुमला। पसमांदा मुस्लिम उत्थान समिति के रांची में आयोजित कार्यक्रम में गुमला के मो. मुमताज सनम को गुमला जिलाध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान पसमांदा मुस्लिम उत्थान समिति संघ के प्रदेश अध्यक्ष मो. सफद अली उपस्थित थे। जिलाध्यक्ष बनाये जाने पर मो. मुमताज ने कहा कि पसमांदा मुस्लिमनों के सामाजिक, आर्थिक व राजनीति विकास के लिए वे विशेष रूप से कार्य करेंगे। मो. मुमताज ने कहा कि पसमांदा मुस्लिम को फिटड़े हुए हैं। उनको अधिकार दिलाने के लिए एकजुट करेंगे और उनकी व पहचान पूरे झारखंड प्रदेश में कराएंगे। जिलाध्यक्ष बनने पर मो. मुमताज को जिले के पसमांदा समाज के लोगों ने बधाई दी है।











## लम्बे घने और चमकदार बाल पाने का नेचुरल तरीका



लेकिन अच्छे बाल रखने का सपना अवश्य साकार हो सकता है और इसके लिए आपको सही जानकारी चाहिए साथ ही उसे अपनाने का जब्जा होना चाहिए यहां पर कुछ ऐसी टिप्स और तरीके बताए जा रहे हैं जो आपके बालों को नेचुरल तरीके से बढ़ाएगा और साथ ही खूबसूरत भी बनाएगा अपने बालों को हमेशा और रेगुलर इंटरवेल पर ट्रिम कराते रहना चाहिए बालों के डेड किनार उनके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं

यदि आप चाहें तो लंबे, चमकदार और हेल्दी बाल बड़ी आसानी से पाए जा सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको अपने बालों की थोड़ी केयर करनी होगी और नीचे दिए गए नेचुरल हेयर केयर टिप्स को अपनाना होगा। हर महिला की यह चाहत होती है, कि उसके बाल लंबे, घने, मजबूत, चमकदार और सुंदर हो बालों को मेंटेन रखना और इन्हें अच्छी तरह से रखना एक चैलेंज होता है और तब और अधिक जब हमारी लाइफ स्टाइल अव्यवस्थित हो, प्रदूषण हो और खाने-पीने की आदतें अच्छी ना हो

रेगुलर बालों की ट्रिमिंग करते रहने से दो मुद्दे बालों की समस्या नहीं होती और बालों का गिरना भी कम हो जाता है दो मुद्दे बाल आपके बालों की लंबाई को ही नहीं प्रभावित करते, बल्कि यह उनकी चमक यानी रेड्यूसिंग एजेंट्स, और घने पन को भी कम कर देते हैं इसलिए यह हमेशा याद रखें कि एक माह में बालों को ट्रिम कराने से इनकी नेचुरल ग्रोथ बढ़िया होती है आपके बाल जो कंधे से नीचे हैं, वह कई साल पुराने होते हैं इसलिए इन्हें अधिक पोषण और केयर की जरूरत होती है।



## प्राकृतिक जीवन में सौ साल जीने का संकल्प

कुदरत के विरुद्ध दिनचर्या और अस्मंगत खानपान ही हमारी व्याधियों के मूल में होता है। जितना हम प्रकृति के विपरीत आचरण करते हैं उतना ही मनोकायिक रोगों की चपेट में आते जाते हैं। कुदरत ने हमें भोजन, फलों और मसालों के रूप में तमाम ऐसी चीजें दी हैं जो हमें स्वस्थ रख सकती हैं। शरीर की कोशिकाएं हर क्षण बदलती रहती हैं। शरीर बदलते मौसम के अनुरूप खुद को ढालना चलता है। इसी तरह प्राकृतिक चिकित्सा भी कायाकल्प की प्रक्रिया को धीरे-धीरे अंजाम देती है। आमतौर माना जाता है कि प्राकृतिक दिनचर्या के दौरान उपचार में 45 दिन का समय लगता

है। निरसदेह प्राकृतिक चिकित्सा की प्रक्रिया में समय लगता है। जिसके लिये रोगी को धैर्य की जरूरत होती है। दरअसल, प्राकृतिक चिकित्सा हमारी अराजक जीवन शैली को संयत कर सकती है। कुछ ऐसे रोग जो उपचार योग्य नहीं माने जाते उन पर अंकुश लगा सकती है। इस परिवेश में आहार-विहार से व्यक्ति तनाव मुक्त होता है। प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र से निकलने के बाद व्यक्ति अपने घर में आहार-विहार को संतुलित करने का प्रयास कर सकता है।

**सूर्य को हम उठावें...**

प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि सुबह हल्के सूर्य को हम उठावें सूर्य

हमें न उठावें। विडंबना यह है कि हमने घरों में खिड़कियों पर मोट-मोटे पर्दे लगा दिये हैं। सूर्य की रोशनी कहां से आएगी। सही मायनों में हमारे जीवन में बीमारियां हमारी जीवन शैली की उपज है। लेकिन यह तार्किक नहीं कि बहुप्रचारित विटामिन डी-3 की लोगों में कमी होती जा रही है। आमतौर पर लोग नवंबर से जनवरी तक सूर्य स्नान लेते हैं जिससे लोगों को विटामिन-डी मिल जाता है। खतरा है तो आर.ओ. का पानी, जो हमारी बोन डेंसिटी को कम करता है। दरअसल, आज आम लोग शारीरिक श्रम नहीं करते। खानपान की चीजों में भारी मिलावट है। यह शोर इतना ज्यादा है कि देश के

केंद्र में आता है तो पहली प्रक्रिया उसके रोगों का इतिहास जानने की कोशिश होती है। **दवा का मतलब दबाना** एक विडंबना यह भी है कि प्राकृतिक चिकित्सा पुराने दबे रोगों को उभार देती है और शरीर का पूरा उपचार नये सिरे से करती है। जिसे उभाड़ या हीलिंग क्राइसेस कहा जाता है। ऐसे में हमें थैक्स करना चाहिए प्रभु का कि उसने हमारे रोगों को जड़ से खत्म करने का उपक्रम किया। सही मायनों में दवा का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। असल में, दवा का मतलब है दबाना। **रोग हमारे मित्र भी** प्राकृतिक चिकित्सा में हम

भगवान को भी ऋतु फल पसंद बेहद जरूरी है कि हम खाने में प्रोटीन कम करें। दरअसल, प्रोटीन के साथ हमारा आउटपुट नहीं। पसीना नहीं आने देते। प्रोटीन के साथ श्रम नहीं है तो कई तरह के रोग घेर लेते हैं। हमें ताजा सब्जियों का सेवन करना चाहिए। कई राज्यों में अभी भी रसायनों का कम प्रयोग होता है। कोशिश करें कि सब्जी वाले को पांच रुपये ज्यादा दें और कहें कि अच्छी और ताजी सब्जी दें। फल हो तो ऋतु के अनुरूप हो। सदा ऋतु का फल खाएं। आज बच्चों को फलों के बारे में पता नहीं होता। जब भी घर में पूजा होती है तो भगवान का अनुष्ठान करते हुए पंडित जी

शरीर के विकारों को निकालते हैं तो शरीर स्वस्थ होता है। तब शरीर शुद्ध होता है। कह सकते हैं कि एक मायने में रोग हमारे मित्र हैं। वास्तव में हमें स्वस्थ रहने के लिये आहार-विहार में परिवर्तन करना चाहिए। हर हाल में नौ बजे तक नाश्ता कर लेना चाहिए। रात आठ बजे तक, हृदय से हद नौ बजे तक दिन खा लेना चाहिए। यदि व्यक्ति समय से नहीं खाता निश्चित ही कोलेस्ट्रॉल को बुलाता है। आयुर्वेद में हमें स्वस्थ जीवन के लिये अनुशासित दिनचर्या व ऋतुचर्या का संदेश दिया गया है। प्रकृति प्रदत्त पंच तत्व हमारे स्वास्थ्य का आधार हैं। मसलन शरीर में आकाश तत्व को हम उपवास से हासिल कर सकते हैं। इस दौरान हम फलाहार करें, रसाहार करें। इसके अलावा उबली सब्जियों का सेवन करें।

चाय, एक ऐसा पेय, जो हम हिंदुस्तानियों की दिनचर्या का अहम हिस्सा बन गया है। अधिकतर लोगों के लिए हर दिन की शुरुआत सुबह की चाय के साथ होती है। अगर आप भी चाय पीने के शौकीन हैं तो हाल ही में हुए शोध पर आधारित यह खबर आपके लिए है। नियमित रूप से चाय पीने वाले लोगों का दिमाग चाय नहीं पीने वाले लोगों की अपेक्षा ज्यादा तंदुरुस्त रहता है। ये तो हो गई फायदे की बात, लेकिन अक्सर गर्म चाय पीना हमारी सेहत को भारी नुकसान भी पहुंचा सकता है। सिगापुर में हुए एक शोध में ऐसा दावा किया गया है कि नियमित रूप से चाय पीने वाले लोगों का दिमाग, चाय नहीं पीने वाले लोगों की तुलना में ज्यादा तेज काम करता है। पूर्व में भी हुए कई शोधों में ये बात प्रमाणित हो चुकी है। दरअसल, दिमाग के प्रत्येक हिस्से का व्यवस्थित रहना स्वस्थ संज्ञानात्मक क्रिया यानी कि दिमाग की प्रतिक्रिया से जुड़ा हुआ है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिगापुर के असिस्टेंट प्रोफेसर फेंग लेंग की अगुवाई में शोधार्थियों ने इन परिणामों तक पहुंचने के लिए 36 उम्रदारण लोगों के न्यूरोइमेजिंग डाटा को खंगला। यह अध्ययन 2015 से लेकर 2018 के बीच 60 साल और उससे अधिक उम्र वाले 36 बुजुर्गों पर किया गया

जिसमें उनकी सेहत संबंधी डाटा जुटाया गया फेंग लेंग ने कहा कि हमारे परिणाम मस्तिष्क के ढांचे पर चाय पीने से पड़ने वाले सकारात्मक योगदान की पुष्टि करते हैं। इससे साबित होता है कि नियमित रूप से चाय पीना दिमागी तंत्र में उम्र के कारण आने वाली गिरावट से भी बचाता है। चाय को लेकर पहले भी कई शोध हो चुके हैं। पूर्व के शोधों में यह बात साबित हो चुकी है कि चाय पीना कई दृष्टिकोण से सेहत के लिए फायदेमंद है। यह न केवल हमारे मूड/मिजाज में सुधार करता है, बल्कि हृदय और नसों संबंधी बीमारी से भी बचाता है। आम तौर पर लोगों को चाय-कॉफी वगैरह गर्म पीने का शौक होता है, लेकिन यह आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। जानकर हैरानी होगी, लेकिन शोध के जो परिणाम आए हैं, उनके अनुसार गर्म चाय पीने वाले लोगों के साथ कैंसर की समस्या पैदा हो सकती है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित शोध में बताया गया है कि गर्म चाय या कॉफी पीने से इसोफेगल यानी खाने की नली का कैंसर होने का खतरा रहता है। दरअसल, गर्म पेय हमारे गले के ऊतकों को काफी नुकसान पहुंचाती है। हर दिन नियमित रूप से 75 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक गर्म चाय पीने वालों में इसोफेगल कैंसर का खतरा दोगुना हो जाता है। इसलिए चाय को बहुत गर्म पीने की बजाय थोड़ा ठंडा कर के पीना ज्यादा अच्छा होता है।



## त्वचा का कालापन से पा सकते हैं छुटकारा

### त्वचा की सफाई

■ दूध व नींबू का रस मिलाएं और साफ त्वचा पर लगा कर 2 मिनट तक रखें फिर रुई के फाहे को गीला करके निचोड़ें और उससे हल्के हाथ से मलते हुए त्वचा को साफ करें

■ नींबू के रस को दही में मिला कर त्वचा पर लगाएं और हल्का सूखने पर रुई के फाहे को गीला करके निचोड़ें। त्वचा पर हल्के हाथ से मलते हुए पोछ लें।

### दोसंगी त्वचा

खीरे का रस हर तरह की त्वचा के लिए फायदेमंद है

। खीरे के स्लाइस को गुलाबजल में डुबो कर फ्रिज में रख कर ठंडा कर लें फिर साफ चेहरे पर रखें। आंखों पर भी रख सकते हैं, इनके नीचे के काले घेरे भी दूर होंगे। त्वचा और हल्की है, तो खीरे के स्लाइस पर 2 बूंदें नींबू के रस की भी डाल सकती हैं।

### गोरी रंगत के लिए स्क्रब

■ 1 छोटा चम्मच बादाम का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच मलाई, 1 छोटा चम्मच सूरजमुखी का तेल, 1 छोटा चम्मच गुलाबजल, 1/4 कप मसूर की दाल का पेस्ट, सभी को मिला कर पेस्ट बनाएं। इसे चेहरे पर लगाएं और 5 मिनट के बाद हल्के हाथ से धो लें। सूरजमुखी के तेल की जगह आप असेसियल ऑइल की कुछ बूंदें भी मिला सकती हैं।

■ 5-6 बादाम का पेस्ट, 1/2 कप क्रीम, 2 बड़े चम्मच तिल का तेल और 1 छोटा

चम्मच सूखे संतरे के छिलके का पाउडर लें। इसका पेस्ट बनाएं और चेहरे पर लगाने के बाद 15 मिनट बाद धो लें।

### गरदन, कोहनी और टखने की त्वचा

■ तुलसी त्वचा को स्वस्थ और चमकीला रखने में कारगर है। तुलसी का पेस्ट बेसन और दही में मिला कर साफ त्वचा पर लगाएं और 20 मिनट के बाद धो लें। ऐसा हफ्ते में 2 बार भी करें, तो कोहनियां साफ हो जाएगी।

■ संतरे के छिलकों के बारीक पाउडर में थोड़ा शहद व मलाई मिला कर हफ्ते में 2 बार इसका प्रयोग करें। कुछ ही दिनों में त्वचा पर इसके

नतीजे नजर आएंगे।

■ मलाई में 1 चम्मच सेब या मूली का रस मिला कर लगाएं। त्वचा की झांझों व सांवलापन ठीक हो जाता है।

■ मुलतानी मिट्टी, जौ का आटा, संतरे का पाउडर व मलाई का मिश्रण गरदन और घुटनों की त्वचा के रंग को निखारता है।



## फलों के छिलकों और टमाटर से सौंदर्य कैसे निखारें



आप यह जानकर आश्चर्य करेंगे कि फलों के छिलकों और टमाटर सुन्दरता के लिए कितने फायदेमंद होते हैं यहाँ इस आर्टिकल में आज हम आपको इनके बारे में बतायेंगे इनमे से कुछ सरल और सफल प्रयोगों का विवरण यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

जाएंगे संतरे एवं नींबू के छिलकों से पावें स्वस्थ बाल : संतरे एवं नींबू के छिलकों का चूर्ण आंवले डाले हुए पानी में मिलाकर बालों को धोने से, बालों की रूसी खत्म हो जाती है और लंबे व घने बनते हैं। इसका लगातार प्रयोग लाभकारी होता है।

### नाखूनों को बनायें दामरहित

: कई महिलाओं के नाखून गंदे और चमकरहित होते हैं, जो देखने में काफी बदसूरत लगते हैं। इन पर नींबू के छिलकों को नाखूनों पर रगड़ने से वे दामरहित, स्वच्छ और चमकीले हो जाते हैं इसलिए आप जब भी नींबू का प्रयोग करें तो छिलके इस काम में लायें।



दांतों की चमक बढ़ाएं नींबू के छिलकों से : इसी तरह दांतों को चमकाने के लिए नींबू के छिलकों को सप्ताह में एक-दो बार दांतों पर रगड़ें साथ ही इसके छिलके को सुखा एवं पीसकर इसमें थोड़ा-सा पिसा हुआ नमक मिलाकर इसे मंजन की भांति भी इस्तेमाल कर सकती है इससे दांत कोड़े भी दूर होते हैं। ध्यान रहे कि नींबू यों भी दांतों और मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए उत्तम माना गया है।

## जाने आपकी त्वचा कैसी है?

■ टमाटर में त्वचा संबंधी कई प्रकार के विटामिन, साइट्रिक एसिड, खनिज, क्षार आदि मौजूद होने के कारण टमाटर एक प्रकार का सौंदर्यवर्धक है, जिसे नीचे दिए गए तरीकों से प्रयोग करके सौंदर्य में निखार लाया जा सकता है

■ टमाटर के सूप में काली मिर्च डालकर नियमित पीने से कब्जियत दूर होती है, जिससे चेहरे पर चमक और शरीर में वुस्ती बरकरार रहती है।

■ टमाटर वृषित रक्त का शोधन करते हैं तथा चेहरे की त्वचा को गुलाबी आभा प्रदान करते हैं।

■ टमाटर का जूस पीने से बाल चमकदार होते हैं बड़े टमाटर की मोटी-मोटी फांके काट कर गालों और आंखों के नीचे रखने से झाड़ियां और आंखों के काले घेरे हमेशा के लिए मिट जाते हैं।

■ सावधानी झ टमाटर गुणकारी होने के बावजूद अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से शरीर को हानि पहुंचाते हैं टमाटर ही वया प्रत्येक चीज की अति खराब होती है जैसे झ पथरी के रोगियों को टमाटर का सेवन नहीं करना चाहिए अगर आप टमाटर के लाभ उठाना ही चाहते हैं तो आपको

जलन के निशान मिटावें पपीते से : अक्सर महिलाएं किचन में खाना बनाते समय जल जाती हैं और उसके निशान पड़ जाते हैं इन निशानों पर पपीते के छिलकों को रगड़ने से ये धीरे-धीरे मिट

## गर्मी में गर्म चाय से सेहत को हो सकता है नुकसान

चाय, एक ऐसा पेय, जो हम हिंदुस्तानियों की दिनचर्या का अहम हिस्सा बन गया है। अधिकतर लोगों के लिए हर दिन की शुरुआत सुबह की चाय के साथ होती है। अगर आप भी चाय पीने के शौकीन हैं तो हाल ही में हुए शोध पर आधारित यह खबर आपके लिए है। नियमित रूप से चाय पीने वाले लोगों का दिमाग चाय नहीं पीने वाले लोगों की अपेक्षा ज्यादा तंदुरुस्त रहता है। ये तो हो गई फायदे की बात, लेकिन अक्सर गर्म चाय पीना हमारी सेहत को भारी नुकसान भी पहुंचा सकता है। सिगापुर में हुए एक शोध में ऐसा दावा किया गया है कि नियमित रूप से चाय पीने वाले लोगों का दिमाग, चाय नहीं पीने वाले लोगों की तुलना में ज्यादा तेज काम करता है। पूर्व में भी हुए कई शोधों में ये बात प्रमाणित हो चुकी है। दरअसल, दिमाग के प्रत्येक हिस्से का व्यवस्थित रहना स्वस्थ संज्ञानात्मक क्रिया यानी कि दिमाग की प्रतिक्रिया से जुड़ा हुआ है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिगापुर के असिस्टेंट प्रोफेसर फेंग लेंग की अगुवाई में शोधार्थियों ने इन परिणामों तक पहुंचने के लिए 36 उम्रदारण लोगों के न्यूरोइमेजिंग डाटा को खंगला। यह अध्ययन 2015 से लेकर 2018 के बीच 60 साल और उससे अधिक उम्र वाले 36 बुजुर्गों पर किया गया



जिसमें उनकी सेहत संबंधी डाटा जुटाया गया फेंग लेंग ने कहा कि हमारे परिणाम मस्तिष्क के ढांचे पर चाय पीने से पड़ने वाले सकारात्मक योगदान की पुष्टि करते हैं। इससे साबित होता है कि नियमित रूप से चाय पीना दिमागी तंत्र में उम्र के कारण आने वाली गिरावट से भी बचाता है। चाय को लेकर पहले भी कई शोध हो चुके हैं। पूर्व के शोधों में यह बात साबित हो चुकी है कि चाय पीना कई दृष्टिकोण से सेहत के लिए फायदेमंद है। यह न केवल हमारे मूड/मिजाज में सुधार करता है, बल्कि हृदय और नसों संबंधी बीमारी से भी बचाता है। आम तौर पर लोगों को चाय-कॉफी वगैरह गर्म पीने का शौक होता है, लेकिन यह आपकी सेहत

पर भारी पड़ सकता है। जानकर हैरानी होगी, लेकिन शोध के जो परिणाम आए हैं, उनके अनुसार गर्म चाय पीने वाले लोगों के साथ कैंसर की समस्या पैदा हो सकती है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित शोध में बताया गया है कि गर्म चाय या कॉफी पीने से इसोफेगल यानी खाने की नली का कैंसर होने का खतरा रहता है। दरअसल, गर्म पेय हमारे गले के ऊतकों को काफी नुकसान पहुंचाती है। हर दिन नियमित रूप से 75 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक गर्म चाय पीने वालों में इसोफेगल कैंसर का खतरा दोगुना हो जाता है। इसलिए चाय को बहुत गर्म पीने की बजाय थोड़ा ठंडा कर के पीना ज्यादा अच्छा होता है।